

भदंत गुणभद्र सुरि विरचित

आत्मानुशासन

भाषा टीकाकार

आचार्यकल्प पं० टोडरमल

सम्पादक

सिद्धान्ताचार्य पं० फूलचन्द्र शास्त्री

श्रीआत्मानुशासन



श्री गणेश प्रसाद वर्णी दि० जैन ग्रंथमाला पुष्प-३०

भदंत गुणभद्रसूरि विरचित
आत्मानुशासन

भाषा टीकाकार
आचार्यकल्प पं० टोडरमल

सम्पादक
सिद्धान्ताचार्य पं० फूलचन्द्र शास्त्री
वाराणसी

सह-सम्पादक
डॉ० फूलचन्द्र जैन प्रेमी पं० हीरालाल गंगवाल
वाराणसी इंदौर

प्रकाशक
श्री गणेश वर्णी दि० जैन संस्थान
नरिया, वाराणसी-५

वीर नि० सं० २५०२ विक्रम सं० २०४० ई० सन् १९८३

ग्रन्थमाला-सम्पादक

डॉ० राजाराम जैन, एम० ए० (द्वय), पी-एच० डी०

अध्यक्ष, संस्कृत-प्राकृत विभाग

जैन कालेज, आरा

प्रो० उदयचन्द्र जैन, एम० ए०, जैन-बौद्ध-सर्वदर्शनाचार्य

अध्यक्ष, दर्शन विभाग

प्राच्यविद्या धर्म विज्ञान संकाय

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

प्रथम संस्करण : २२०० प्रति

मूल्य ~~₹ 25.00~~ ₹ 24.00

© श्रीगणेश वर्णी दि० जैन संस्थान

मुद्रक :

वर्द्धमान मुद्रणालय ,

बी० २७/९२-१९, जवाहरनगर कालोनी, वाराणसी.

Bhadanta Gunbhadrā Suri's

ĀTMĀNUSĀSAN

With the Hindi Commentary of
Ācharyakalpa Pandit Todarmalla

Editor

Sidhāntāchārya Pandit Phoolchandra Shastri
Varanasi

Assistant Editors

Dr. Phoolchand Jain Premi
Varanasi

Pandit Hiralal Gangwal
B. A., LLB.
Indore

Published by

Shri Ganesh Varni Dig. Jain Sansthan.
Naria, Varanasi-5

Vir Samvat 2509

Vikram Samvat 2040

1983 A.D.

Granthmala Editor

Dr. Rajaram Jain, M. A. (Double) Ph. D.
Sanskrit-Prakrit Department,
Jain College, Arrah

Prof. Udaya Chandra Jain,
Jain Baudh Sarvadarshanacharya
Philosophy Department
Faculty of Oriental Learning and Theology,
Banaras Hindu University, Varanasi.

First Edition-2200

Price : Rs. Twenty only

© Shri Ganesh Varni Dig. Jain Sansthan

Printed by

Vardhaman Mudranalaya,
B. 27/92-19, Jawahar Nagar Colony,
Varanasi.

प्रकाशकीय

यह अत्यन्त हर्षकी बात है कि श्री गणेशप्रसाद वर्णी दि० जैन संस्थान अपना तीसवाँ प्रकाशन 'आत्मानुशासन' समाजके सामने प्रस्तुत कर रहा है। इस पुस्तकका संपादन पू० दादा पं० फूलचन्द्र जी शास्त्रीने किया है तथा इसमें यथासम्भव सहयोग डॉ० फूलचन्द्र जैन प्रेमी तथा भाई पं० हीरालाल जी गंगवालका रहा है। पुस्तककी हिन्दी प्रस्तावना भी सिद्धान्ताचार्य पं० फूलचन्द्र जी शास्त्रीने लिखी है। इस पुस्तकके साथ ही संस्थान अपने प्रकाशकोंपर अंग्रेजीमें भी प्रस्तावना देनेकी परम्परा प्रारम्भ कर रहा है। यह हिन्दी न जाननेवाले जिज्ञासुओं तथा विदेशी पाठकोंके लिये भी उपयुक्त होगा। इस ग्रन्थकी अंग्रेजी प्रस्तावना मैंने लिखनेका प्रयास किया है। यह पहला प्रयास होनेसे इसमें त्रुटियाँ होना सम्भव है अतः इसके लिये क्षमाप्रार्थी हूँ। श्री सेठ ताराचंद जी गंगवाल, जयपुरका पूज्य दादाजीसे निकट संपर्क है। उनके सहयोगसे ही 'आत्मानुशासन' भाषा टीकाकी एक हस्तलिखित प्रति आदर्शनगर दि० जैन मन्दिर, जयपुरसे प्राप्त हुई, जिसका इस ग्रन्थके संपादनमें पूरा उपयोग हुआ है। इस पुस्तकके प्रकाशनमें जिनके निमित्तसे आर्थिक योगदान प्राप्त हुआ है, वे हैं श्री सेठ रतनलाल जी पाटनी, इंदौर, श्री पं० हीरालाल जी गंगवाल, इन्दौर, श्री टीकमचंद जी पंचोली, इन्दौर तथा अरविन्दकुमार जैन करहल और श्री विजयकुमार जैन कुरावली। मैं इन सभी सज्जनोंका आभारी हूँ।

१४४/३, विकास नगर,

रुड़की

वी० नि० सं० २५०९

(अगस्त, १९८३)

डॉ० अशोक जैन

प्रबन्धक

श्री गणेश वर्णी दि० जैन संस्थान

Prologue

1. INTRODUCTION

The term *Ātmā* (or, the self) is perhaps the most frequently used word in the Philosophical treatises of Jainas. The reason is very simple : *Ātmā* is the mainstay of Jain Philosophy and that is why *Jain Darshan* (Philosophy) is also called the *Ātmā Darshan*. Although the concept of *Ātmā* is not exclusive to Jaina Philosophy and occurs in several other religions also, it may be asserted that the meaning imparted to *Ātmā* by the Jainas and the elaborate exposition of this subject in a most logical manner is unique and unparalleled. According to the present treatise the intrinsic nature of *Ātmā* is to know all and the attainment of that all-knowing nature in its purest form (the enlightenment) is the *Mukti* (the self liberation or. the complete freedom)" (Verse no. 174). Further "*Ātmā* by nature, perceives everything, (apparently) desires *sukha* (happiness) and shuns *dukha* (misery), is the instrument for doing good and bad deeds (*shubha* and *ashubha Karm*), and also tastes the fruits of those deeds, good or bad." (Panchastikaya, Agas, 1961). "Atma is neither born nor dies and is eternal by nature. It has no body in the usual sense and is devoid of any colour, smell, taste and touchability. In actuality, it is the doer (*Karta*) of its own all-revealing thoughts." (Verse no. 266). Ordinarily, one's *Ātmā* is loaded with the good and bad doings, which are unloaded in due course of time by bearing sweet and sour fruits. In the process, new deeds are committed and newer attachments to *Karm* (*karm-bandh*) follow. This is an unending process which goes on repeating itself and keeps the *Ātmā* clouded in *Karma* (deeds). This is the cause of all the sufferings.

How to discipline one's *Ātmā* so that one may realize its nature in its purest form and achieve that ultimate goal called the *Moksha* (the complete freedom) where one's own self is unified with 'the truth' by liberating itself from the bondage

of all deeds, good or bad? This is what the whole treatise (grantha) 'Atmanushsan' is about. This is what the title of the present treatise means. It has been written by Acharya Gunbhadrā keeping mainly the monks (the Sadhu) in mind and is therefore especially meant for them.

It is not for the first time that *Ātmanushasana* is being brought out. Several editions of *Ātmānushasana* have already been published, some containing the Sanskrit *tika* (commentary) due to Acharya Prabhachand, or with Hindi *tikā* due to Pt. Todermalla and/or their translations into several languages like Hindi, Marathi, Kannada, English etc. The Hindi *tika* of the well known scholar Pt. Todermall has been instrumental in making *Ātmānushasana* so popular. Presently the Hindi *tika* version of *Ātmānushasana* is not available freely and is therefore, being published by Shri Ganesh Varni Institute (Shri Ganesh Varni Sansthan), Varanasi.

The present edition is based on a hand written manuscript of the year 1778 A. D. obtained from Jaipur. An old printed version of the year 1956 (Jaipur) has also been extensively used for correcting the Hindi *tikā* portion of the hand written manuscript. An earlier edition published from Sholapur (1961), which also contains the Sanskrit *tikā* due to Prabhachandra and its Hindi translation by Pt. Balchandra Sidhanta shastri, has also been used to check the original verses, because the Sholapur edition contains the verses which have been corrected from several sources.

The present edition contains 270 verses in Sanskrit following the text of Pandit Todarmalla. It is believed that the original text of Gunbhadrā contained only 269 Verses (Atmanushsan, Sholapur, 1961), and the additional 270th verse was perhaps added later on. Acharya Gunbhadrā, in writing these verses, has displayed the qualities of an excellent poet and a deep thinker. He also exhibits perfect command over the Sanskrit language and its grammar. This becomes clear from the fact that he has used a variety of metres and *alankārs* for expressing his thought in poetical form.

2. SOME GLIMPSES OF ATMANUSASANA

'Everyone is afraid of *dukha* (pain or, misery) and desires *sukha* (happiness), that is why the present book points towards the knowledge which is capable of destroying *dukha* and lead to eternal happiness', (Verse no. 2). Neither all teachers can show the path to happiness, nor all are deserving to follow it. Only a worthy teacher (*Guru*) is capable of explaining the principles of *Dharma* (religion) which is meant for achieving the *Moksha* (self-liberation where one attains the whole truth), (Verse no. 4).

What is the nature of a true and worthy teacher and a deserving pupil ? Acharya Gunbhadra says that "The one who has acquired the knowledge of all the *śāstra* (spiritual scriptures), knows the manners of this world, has no desire for fame and money, displays imagination by answering a question in several ways, is completely peaceful in body and mind, can anticipate the question which may arise during discourses, is not worried by the questions nor gets excited, can impress the audience and convince them of his thoughts, only he is capable of giving discourses in a sweet and attractive voice', (Verse no. 5). 'The audience should consist of only those who can contemplate and decide about what is the best path for them, who are tired of the *dukha* in this world, keenly desire the real happiness, want to breakaway from the cycle of birth and death and are capable of bearing the *dharma* and follow it', (Vers no. 7).

'All the living beings aspire for happiness; but the real happiness follows only when all the bondages to one's deeds (*karm-bandh*) have been dissolved. This shedding of deeds (*karm-chaya*) emanates from the righteous conduct (*Samyak charitra*). The *Samyak charitra* itself follows from the *samyak gyan* (the true and complete knowledge). The *samyak gyan* is obtained from the *Āagam* (the scriptures) which point towards the path of the *samyak darshon* (the complete and thorough view of self), and the *Āagam* itself is derived from the discourses given by the *Arihanta Deva* (the Illustrious one) who have experienced the self (*Atmān*) and have become one with it.' (Verse no. 9).

All the worldly attachments and the sensual pleasures are just like mirage; the more one pursues them, the farther away he moves. Running after them leads to nothing but exhaustion as there is never any satisfaction in the worldly pleasures. They are the fruits of some past good deeds (*Shubh karma banbh*). In enjoying these fruits one again gets attached to more new deeds (karma). This is a vicious circle without any end. Thus not only the bad deeds (*ashubh karma*), the good deeds are also responsible for trapping a living being (*Jiva*) in this vicious circle.

Samyak darshan (the realization of the true self) is just like a sharp knife which can cut this vicious circle and give solace to the human beings. That is why *Samyak darshan* is said to be the essence of *Dharma*. 'Without *samyak darshan*, all other virtues like peacefulness, knowledge, character and meditation are completely useless and are akin to the weight of a stone. They just drag one by their sheer weight. But *Samyak darshan* turns this stone into a real gem,' (Verse no. 15) 'Whether one is enjoying the pleasures of life or, tormenting in agony, one must tread the path of *Dharma*. Because if one is happy the *Dharma* enhances this happiness and if one is unhappy, the *Dharma* resolves the causes of misery:' (Verse no. 18).

Only a *sadhu* (monk) can follow the path of *Dharma* in totality. Who is then a *sadhu*? The great Jain saints say that 'the one who is devoid of the desires of the worldly pleasures, is never seen conducting himself in any manner other than that of *Dharma*, does not possess any object even as small as an atom to the extent that he lives completely nude, is always engaged in acquiring more and more knowledge, keeps searching his own self by constant meditation, only so is a *sadhu* respected by all in the world. The unblemished and righteous conduct of such a *sadhu* is most beneficial and rewarding for the mankind.

Ācharya Gunbhadra illustrates his views on *Dharma* by giving a very simple analogy like : Just as a farmer saves a part of his crop to be used as the seed for the next crop, similarly whatever wealth and happiness one has acquired is due to one's righteous conduct-*Dharma* in the past, and therefore one must preserve that *Dharma* which acts as the seed for obtaining

happiness,' (Verse no. 21). He further emphasizes the importance of *Dharma* thus : 'Even an enemy becomes a friend due to the influence of *Dharma* and friend turns into enemy when *Dharma* has been lost. Thus only *Dharma* is the saviour of *Jiva* (living beings)', (Verse no. 26).

The learned poet has at several places pointed out the damaging role that is played by women in bringing the downfall of themselves as well as men, and other acts which are not worthy of a woman. For example, he reminds that 'One should remember the pain and humiliation suffered in the association of women who have hurt several times by cupid arrows just as the snow causes coldburns to tender trees', (Verse no. 53). Further he says that 'the one, who has practised penance for a whole lifetime, and then feels a desire for women, keeps revolving in the whirlpool of world and the life of an ordinary person is better than the useless life of such an ascetic', (Verse no. 198). We may put a note of caution here that the aim of these verses is in no way to degrade or insult the women. These are merely warnings to men who easily succumb to the charms of women.

It is most interesting to note that Ācharya Gurbhadra has devoted a number of verses to the deterioration of character setting in among the *muni* and *sadhu* and seems to be seriously concerned about it. He must have come across incidents of such degradation in his time. These verses have become even more relevant in the present times when controversies about the conduct of muni and sadhu are raging the society. The author says, "the rulers make it a point to punish only those who have money so that he may extract some money from them. Since the sadhus are Jungle beings and do not keep any money, they are rarely punished for their mis-conducts. The Acharya (a senior sadhu who leads a group of sadhus) wields little influence over the new disciples and are incapable of keeping them on the right path. Under these circumstances, it is very rare to find a Sadhu who really complies with the Dharme, (verse no. 149) He further illustrates his point by saying that 'even a child, when falls down from his cot, gets scared of it and becomes

careful for future. It is however very surprising that a wise sadhu is not afraid of falling down from the immense height where he has reached by per-sistant penance and meditation,' (verse no. 166). The poet expresses deep concern and sadness over the way 'the sadhu have started coming closer to villages and towns during the night, being afraid of the carnivorous animals and wicked persons,' (verse no. 197).

How to attain the *Moksha* (the self liberation), is a recurring theme of the whole text. The author has tried to explain this path in a number of ways. Sometimes he gives examples, analogies etc and at other places he goes deep into the principles of Jain *Darshan* and reveals the intricacies in technical terms. For instance, he Says that '*shubha* (auspicious) and *ashubha* (inauspicious), *punya* (virtue or, the reward of a good deed) and *pāpa* (sin), *sukha* (happiness) and *dukh* (sorrow), these are the three pairs related to each other. The first three, taking the first one from each of the three pains, i. e. *shubha*, *punya* and *sukha* are beneficial to *Ātmā* and may be practised. The rest three must be discarded. But this is only the begining. One must ultimately renounce the *shubha karm* (good deeds) too. In doing so one would have renounced the *punya* and *sukha* also, since they are merely the consequences of *shubha karm*. When one has become free from the *shubha* also, one realizes the purest state of *Atma* and attains the *Moksha*,' (verse no. 239-240).

These are only few but typical verses from *Ātmānushasan* which allow one to have a glimpse of the actual text and possibly prepare him for a full reading of the whold text. Acharya Gunbhadra has touched almost all the aspects of *Ātmā Darshan* and keeps the reader constantly aware of the various pitfalls and difficulties that one may encounter in his pursuit of the self-realisation. The doctrine of *Karma* has been the most influencing factor in giving shape to the *Jain Darshan*. This is consistently reflected in the whole text. There in no room for a supreme power (as the concept of God is in most of other religions) which creates, destroys and controls t the world. Such a belief automatically rules out the main cause of superstitions

which are prevalent in most of the societies. It teaches one to become self-reliant, be he a sadhu (monk) or a layman having a family. One is responsible for his oneself. What one does, gains or enjoys is due to that one only. None else can influence it. It also lays great emphasis on the freedom of an individual, which is in fact a logical consequence of the principle of self reliance. If one does not depend on anything, living or non-living, has no desire to accumulate objects. He is the most liberated individual because there is nothing which will hold him or bind him.

2. ACHĀRYA GUNBHADRA, THE POET

Since a lot has already been written about Gunbhadra, we will devote here only a few lines to that illustrious and scholar poet who is well known for doing tremendous amount of work in his times. At several places, Gunbhadra calls himself to be a 'bhadanta' or a 'Suri.' It is believed that he lived during the last quarter of the ninth century A. D. He declares himself to be a disciple of Achārya Jinsen and Dasrath. He wrote most of his works living mostly in the southern part of India. He undertook to complete the unfinished *Adipurāna*, which could not be completed by Jinsen due to his death, and rounded it up by composing 1620 Verses. Besides *Atmānusāsana*, he has also written. *Uttar Purāna* and *Jindntta Charit Kavya*. More details about this author may be found in several other books (*Atmānusāsana*, Sholapur, 1961; *Tirthankar Mahāvīr aur unki Achārya Paramparā*, Nemichandra Shastri, Sagar, 1974)—and are therefore not included here.

3. PANDIT TODARMALLA THE BHASHA TIKĀKĀR

The immense popularity received by *Atmānusāsana* is mainly due to the Hindi tika that Pandit Todarmalla wrote in the middle of the eighteenth century. It has been established by Dr. Hukumchand Bharilla (Pandit Todarmalla, Jaipur, 1973) that Pandit Todarmalla was born around the year 1719 A. D. although his birth place could not be well established. His father, Jogidas and mother, Rambha devi, belonged to the *Godika gotra* of *Khandelwal* caste.

Pandit Todarmall spent most of his life span in Jaipur and died a tragic death at an early age of around 47. It may therefore be said that most of his works were completed near the middle of the eighteenth century. Todarmall was a genius by birth and used to resolve several deep questions and riddles in his childhood. He was the most well known scholar of his time and only a few could be said to have reached that height in the recent times. He was a great connoisseur of *Jain Darshan* and the understanding of subject displayed by him is not easy to surpass. The large number of *tikā* (commentaries) of the various Jain treatises written by Todarmall have been the basis for understanding the essence of Jain philosophy. A number of recent works have either been based on his *tikā* (Hindi commentaries) or, have acted as pointers of the truth. The commentaries on the *Gommatasāra*, *Labdhisāra*, *Purusavtha sidhi upayā* and *Triloksāra* and of course the *Atmānusāsana* have been very well appreciated and carry a touch of originality. Besides these, he also wrote some independent works like *Maksha Mārg Prakāshak* and *Rahasya Purna Chithi*. It is said that his *bhāshā tikā* of *Atmānusāsana* is, in several respects, better than the Sanskrit *tikā*. Besides giving the translation and meaning of each verse he has also added purports wherever necessary. This has enhanced the usefulness of the book and added simplicity to it so that anyone may reach the goal.

15-8-83

(Dr.) Ashok Jain

प्रस्तावना

१ प्रति परिचय

१ ज०, यह प्रति श्री दि० जैन मन्दिर आदर्श-नगर जयपुरकी है। हस्त-लिखित प्रतियोंमें यही एक ऐसी प्रति है जिसके आधारसे प्रस्तुत संस्करणकी भाषा टीकाका संशोधन किया गया है। इस प्रतिके प्रत्येक पत्रकी लम्बाई १० $\frac{३}{४}$ इंच और चौड़ाई ४ $\frac{३}{४}$ इंचसे कुछ अधिक है। पत्र संख्या १६७ पूर्ण और १६८ संख्याक पत्रमें ४ पंक्तिसे किंचित् अधिक हैं। प्रत्येक पत्रके एक ओर ९ पंक्तियाँ और प्रति पंक्तिमें कमसे कम ३८-३९ अक्षर और अधिकसे अधिक ४३-४४ अक्षर हैं। फिर भी अधिक अक्षर कम ही पंक्तियोंमें पाये जाते हैं। चारों ओर हाँसिया छोड़ा गया है। प्रत्येक पद्यकी उत्थानिका और 'पद्य' शब्दके लिये लाल स्याहीका उपयोग किया गया है। तथा 'अर्थ' इस शब्दको लिखनेमें भी लाल स्याहीका उपयोग किया गया है। प्रथम पत्रका प्रारम्भ '॥एर्द०॥ ओं नमः सिद्धेभ्यः' इस मंगल वाक्यको लिखकर किया गया है। अन्तिम पत्रमें अन्तिम पद्यका अर्थ और ॥इति श्री आत्मानुशासन ग्रन्थ संपूर्ण ॥ ॥ यह वाक्य भी लाल स्याहीमें लिखा गया है। प्रति सुवाच्य है। यह प्रति कब, किसके द्वारा और किस निमित्तसे लिपिबद्ध की गई इन बातोंका उल्लेख करते हुए अन्तमें लिखा है—'संवत् १८३५ प्रवर्त्तमाने मासोत्तमासे भाद्रपदमासे शुक्लपक्षे १३ चंद्र वासुरान्वितायां लिपिकृतं नयनसुख ब्राह्मण बुधू श्याह वाचनार्थं ॥ शुभमस्तु ॥ चिरायुरस्तु ॥ छ ॥ छ ॥ ॥

हम यही एक ऐसी प्रति उपलब्ध कर सके जिसमें आ० क० पं० श्री टोडरमल्लजी द्वारा रचित भाषा टीका भी सम्मिलित है। इसलिये पुरानी मुद्रित प्रतिसे मिलान करनेमें हमें इससे बड़ी सहायता मिली है। अतः हम यहाँ उस मुद्रित प्रतिका भी परिचय दे रहे हैं जिसके आधारसे हमने यथा-सम्भव भाषा टीकासम्बन्धी पाठभेद लेकर प्रस्तुत संस्करणको पूर्ण शुद्ध बनानेका प्रयत्न किया है। परिचय इस प्रकार है—

(२) मु०, यह प्रति हमें प्रिय भाई पं० श्री हीरालालजी गंगवालकी मार्फत श्रीयुक्त भाई पूनमचंदजी छावड़ा मल्हारगंज गांधीमार्ग इन्दौरसे प्राप्त हुई थी। प्रतिका आकार डबलक्राउन साईज १६ पेजी है। कुल पृष्ठ संख्या २७८ है। इसका प्रकाशन श्रुतपंचमी वी० नि० सं० २४८२ को

हुआ था। प्रकाशक स्व० श्री पं० इन्द्रलालजी शास्त्री जयपुर हैं। अब यह प्रति उपलब्ध न होनेसे प्रस्तुत संस्करणको प्रकाशित किया जा रहा है।

(३) जैन संस्कृति संरक्षक संघ, शोलापुरसे प्रकाशित तीसरी प्रति है। पद्योंके संशोधनमें इस प्रतिका भरपूर उपयोग किया गया है, क्योंकि इसमें सभी पद्य संशीधित करके शुद्धरूपमें ही मुद्रित किये गये हैं। इसका मुद्रण वि० सं० २०१८ में हुआ था। विस्तृत प्रस्तावना और परिशिष्ट आदि देकर इसे सर्वांग सुन्दर बनाया गया है। पृष्ठ संख्या ११२ + २६० = कुल ३७२ है। यह १६ पेजी डेमी साईजमें मुद्रित हुई है। अनुवादक श्री पं० बालचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्री हैं। फिर भी अनुवादकके रूपमें उनके नामका उल्लेख नहीं किया गया है। इसे पश्चिमीय प्रभाव ही मानना चाहिये। दुर्भाग्य है कि जैन संस्थाएँ भी इसका अन्धानुकरण करनेमें अपनेको गौरवका अनुभव करती हैं। ग्रन्थमाला सम्पादकोंका काम प्रायः कुछ भी नहीं रहता, फिर भी वे संस्थाकी प्रबन्ध समितिकी कृपासे अपनी प्रभाव वृद्धिमें उसका भरपूर उपयोग करते रहते हैं।

२. मूलग्रन्थ

अमूल्य शिक्षाओंसे भरपूर यह भदन्त गुणभद्रसूरिकी अमर कृति है। धर्मकी दृष्टिसे यह उत्कृष्ट धर्मशास्त्र प्रतीत होता है। क्योंकि देखनेपर इसकी उत्कृष्ट धर्मशास्त्रमें तो परिगणना होती ही है। हमें इससे वे सब शिक्षाएँ भी मिल जाती हैं जो धर्मशास्त्रका प्रधान अंग बनी चली आ रही हैं। उन शिक्षाओंपर थोड़ा दृष्टिपात कीजिए—

(१) पहले जो जो आचरण किया है वह सब ज्ञानियोंकी दृष्टिमें अज्ञान जनित चेष्टाएँ ही प्रतिभासित होती हैं।^१ (२) गुणोंमें द्वेषरूप परिणामका होना पाप है और पुण्य उससे विपरीत है। किन्तु जो न तो पुण्यरूप परिणाम करता है और न पापरूप ही परिणाम करता है वह नियमसे मुक्त होता है।^२ (३) यह ज्ञानभावनाका ही फल है कि ज्ञानी पुरुष धर्मका बाह्य साधन जानकर शरीरकी यथायोग्य सम्हाल करते हुए भी उत्कृष्ट वैराग्य सम्पत्तिको जीवनका अंग बनाये रखते हैं।^३ (४) जो उदयागत कर्मके अधीन बरतते हैं वे नियमसे संसारी हैं। किन्तु जो तपश्चर्याके बलसे पीछे उदयमें आनेवाले कर्मको उदयमें लाकर भी उसके फलको नहीं अनुभवते, ज्ञानबलसे उसकी निर्जरा कर देते हैं वे ही संसारविजयी बनकर परमार्थके भागी होते हैं।^४ आदि।

१. आ० शा० प० २५१। २. वही १८१। ३. वही प० ११३।
४. वही प० २५७।

साथ ही यह अपूर्व नीतिका भी ग्रन्थ है। नीतिशास्त्रकी दृष्टिसे वादीर्भसिंहसूरिकृत क्षत्रचूड़ामणिकी लोकमें जितनी प्रसिद्धि है उससे इसकी प्रसिद्धिको कम नहीं आंका जा सकता। इसमें आई हुई कतिपय नीतियोंपर दृष्टिपात कीजिये—

१. कामक्रोधमहाग्रहाहितमनाः किं किं न कुर्याञ्जनः ॥५१॥
२. निस्सारं परलोकबीजमचिरात् कृत्वेह सारीकुरु ॥८१॥
३. प्रायः कुतो व्यसनिनां स्वहिते विवेकः ॥९३॥
४. सर्वापदां पदमिदं जननं जनानाम् ॥९८॥
५. मा वमीत किं जुगुप्सावान् सुभुक्तमपि भोजनम् ॥१०३॥
६. स कस्त्यक्तुं नालं खलजनसमायोगसदृशम् ॥१०५॥
७. नरो न रमते कथं तपसि तापसंहारिणि ॥११४॥
८. तपस्यन्ति चिरं तद्धि ज्ञातं ज्ञानस्य वैभवम् ॥११६॥
९. यदि प्रकोष्ठमादाय न स्याद्धोधो निरोधकः ॥११७॥
१०. अहो केनाप्यस्मिन् विलसितमलंघ्यं हतविधेः ॥११९॥
११. सन्ध्याराग इवार्कस्य जन्तोरभ्युदाय सः ॥१२३॥
१२. रविवद्रागमागच्छन् पातालतलमृच्छति ॥१२४॥
१३. प्रायेण सेष्याः स्त्रियः ॥१२८॥
१४. स्त्रियो हि विषमं विषम् ॥१३५॥
१५. मदनमधुमदान्धे प्रायशः को विवेकः ॥१३६॥
१६. खेरिवारविन्दस्य कठोराश्च गुरुक्तयः ॥१४२॥

इस प्रकार हम देखते हैं कि यह समग्र ग्रन्थ सूक्तियोंका आकर है। कहते हैं कि आचार्य जिनसेनने अपने वर्तमान जीवनकी सन्निकटता जानकर अपने अवशिष्ट साहित्य कार्यको सम्पन्न करनेके अभिप्राय से अपने प्रिय दोनों शिष्योंको आमन्त्रितकर कहा कि सामने जो शुष्क वृक्ष (ठूठ) खड़ा है, कविता द्वारा उसकी अभिव्यक्ति दूसरोंसे तुम किन शब्दोंमें करोगे। यह सुनकर एक शिष्यने उसकी अभिव्यक्ति 'शुष्कः काष्ठः तिष्ठत्यग्रे' इन शब्दोंमें की और दूसरेने इसी बातको 'नीरसतरुिरह विलसति पुरतः' इन शब्दोंमें व्यक्त किया। यतः दूसरे जिस शिष्यने कर्णमधुर अतएव कोमल और सरस पद द्वारा अपने गुरुद्वारा कहे गये वाक्यको अनूदित करके दुहराया था, अतः गुरुने अपने अवशिष्ट रहे साहित्यिक कार्यको सम्पन्न करनेके लिये उपयुक्त समझकर उसे ही पूरा करनेकी अनुज्ञा दी। उनका वह दूसरा शिष्य और कोई नहीं, भदन्त गुणभद्रसूरि ही थे।

यह एक किंवदन्ती अवश्य है। पर भदन्त गुणभद्रद्वारा रचित क्या उत्तरपुराण और क्या आत्मानुशासन जिस कृतिपर भी दृष्टिपात करते हैं उसे देखते हुए वस्तुतः यह किंवदन्ती किंवदन्ती न रहकर यथार्थताका भान कराने लगती है। वे प्रतिभाके धनी तो थे ही, काव्यकलामें भी वे बेजोड़ थे। पर वे संसारमें डुबानेवाले कुकवि न होकर थे वे संसारसे पार करनेमें समर्थ सुकवि ही। विवेचकोंको इसी दृष्टिसे उनके द्वारा रचित समग्र साहित्यका और खासकर आत्मानुशासन ग्रन्थका अवलोकन करना चाहिये। लोककी दृष्टिमें भले ही यह उकृष्ट काव्य निरूपित किया जावे, पर मेरी दृष्टिमें तो यह एक वनवासी वीतराग सन्तके द्वारा उच्छ्वसित होकर मोक्षका सोपानरूप ही प्रतीत होता है। जो भी आसन्न भव्य इसके हादकों समझकर तदनु रूप प्रवृत्ति करेगा वह नियमसे आत्मस्वातन्त्र्यका उपभोक्ता बनकर मोक्षका अधिकारी होगा इसमें सन्देह नहीं। इस प्रकार मूल ग्रन्थका सामान्य अवलोकन करनेके बाद आगे उसमें वर्णित प्रत्येक प्रमेयपर संक्षेपमें विचार करेंगे।

१. मङ्गलाचरण

नियमानुसार मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम और कर्ताका व्याख्यान करके ही शास्त्रका व्याख्यान करना चाहिये^१ यह गुसुपर्वक्रमसे आई हुई सम्यक् परम्परा है। तदनुसार भदन्त गुणभद्रने भी ग्रन्थके आदिमें अपने हृदयपटल पर अन्तिम तीर्थकर्ता^२ भगवान् वीर (वर्धमान) जिनको अवतरित कर जहाँ आद्य पद्य में उन्हें द्रव्य-भाव नमस्कार किया है वहीं उस ग्रन्थके नाम और हेतुका भी उल्लेख कर दिया है। अविनाभाव सम्बन्धवश शेष तीनका ग्रहण इसीसे हो जाता है। इतना अवश्य है कि आत्मानुशासनके संस्कृत टीकाकारने अपनी टीकाके प्रारम्भमें मंगलसूत्रकी व्याख्या करते हुए यह अभिप्राय अवश्य ही व्यक्त किया है कि भदन्त गुणभद्रने विषयासक्त बृहत् धर्मबन्धु लोकसेनको लक्ष्यकर वैराग्योत्पादक इस ग्रन्थकी रचना की है^३। आगे भदन्त गुणभद्रने प० २ में जो यह भाव

१. मंगल-णिसित्त-हेऊ परिमाणं णाम तह कत्तारं। वागरिय छप्पि पच्छा वक्खाणउ सत्थमायरिओ। ध० पु० १ पृ० द्वि० सं०।

२. णिस्संसयकरो वीरो महावीरो जिणुत्तमो। राग-दोस-भयातीदो धम्म-तित्थस्स कारओ। ज० ध० भा० १, पृ० ६५ द्वि० सं०।

३. बृहद्धर्मभ्रातुर्लोकसेनस्य विषयव्यामुग्धबुद्धेः संबोधनव्याजेन***आ० शा० पृ० १, सो० सं०।

व्यक्त किया है कि सभी संसारी प्राणी दुःखसे डरते हैं और सुखकी कामना करते हैं, उससे प्रतीत होता है कि भदन्त गुणभद्रने इस द्वारा दुःखापहारी सुखकर शिक्षाका अनुशासन करनेके अभिप्रायसे ही वैराग्योत्पादक इस ग्रन्थकी रचना की है। इसी बातको स्पष्ट करते हुए भय छुड़ानेके अभिप्रायसे वे प० ३ में पुनः कहते हैं कि जिस प्रकार आतुर मनुष्य उग्र औषधिके सेवनसे भय नहीं करता उसी प्रकार प्रत्येक भव्य प्राणीको वर्तमानमें कठिन प्रतीत होनेवाले किन्तु फलकालमें मधुर इस आत्माके अनुशासनको हृदयसे स्वीकार करना चाहिये।

२. धर्मकथा कहनेका अधिकारी गणी

धर्म रत्नत्रयस्वरूप है यह सर्वजन सुप्रसिद्ध है। उसकी कथा करनेके अधिकारी वाचाल मनुष्य तो हो ही नहीं सकते, जो अन्तरंगमें धर्म बुद्धिसे रहित हैं, मात्र दूसरोंको उपदेश देनेमें उन मेघोंके समान कुशल हैं जो मात्र गरजते बहुत हैं, बरसते नहीं। उनके द्वारा की गई धर्मकथा शस्यश्यामला उर्वरा भूमिमें ओलै बरसनेके समान प्रतीत होती है। इससे सद्धर्मका प्रचार न होकर मात्र पक्षका ही पोषण होता है। ऐसी अवस्थामें धर्मकथा करनेवाला व्यक्ति कैसा होना चाहिये इस विषयकी चर्चा करते हुए भदन्त गुणभद्र कहते हैं जो प्राज्ञ हो, जिनागमकी थाहको जिसने स्पर्श कर लिया हो, लोकरीतिको समझनेवाला हो, जिसकी परिग्रहसम्बन्धी तृष्णा शान्त हो गई हो, जो श्रोताके अभिप्रायको पहलेसे ही जानकर उसके अभिप्रायको शास्त्रानुकूल मोड़नेमें समर्थ हो, प्रश्न सुन कर घबड़ाये नहीं, हित, मित और प्रिय वचन बोलनेवाला हो ऐसा गणी धर्मकथा करने का अधिकारी होता है, अन्य नहीं यह इसका भाव है (गा० ४-५)।

प्रसंगसे यहाँ हमें यह स्वीकार करनेमें थोड़ा भी संकोच नहीं होता कि इस समय जो अनधिकारी पुरुषों द्वारा धर्मकथा करनेकी परम्परा चल पड़ी है उससे शास्त्र सभाकी मर्यादामें जितनी बाधा पड़ी है उतनी इससे पहले कभी नहीं पड़ी होगी।

जहाँ तक आगमके आलोडनसे तो यही पता चलता है कि प्राचीनकालमें जो रत्नत्रयधारी वीतराग सन्त होते थे वे ही गाँव-गाँव जाकर धर्मकथा द्वारा हित उपदेश देकर भव्य जीवोंको मोक्षमार्गमें लगाते थे। लगता है कि मुनियोंके वनवासी जीवन तक तो यही परम्परा चलती रही। किन्तु जब मुनियोंने एकान्त वनवासके जीवनसे ऊबकर कोलाहलप्रधाननगरों और ग्रामों तथा उनके मन्दिरों आदिमें रहना प्रारम्भ कर दिया तबसे

इस स्थितिने पलटा खाया और धीरे-धीरे उपदेश देनेके अधिकारी केवल रत्नत्रयधारी मुनिजन न रहकर उनका स्थान भट्टारकोंने और गृहस्थोंने लेना प्रारम्भ कर दिया ।

समग्र जैन साहित्यके आलोडनसे पता चलता है कि लगभग ११वीं शताब्दिसे गृहस्थों द्वारा रचित साहित्यने जैन वाङ्मयमें अपना गौरवपूर्ण स्थान बनाना प्रारम्भ कर दिया था । भट्टारक परम्पराको मूर्तरूप भी लगभग इसी समयसे मिलना प्रारम्भ हो गया था । वर्तमानमें जो हम भोग रहे हैं यह आगमविरुद्ध ऐसे लेखन और वक्तृत्वका परिणाम है, जिसने आज मतभेदों तथा तर्क-कुतर्कोंका अम्बार लगा दिया है । अब तो महिलाओंने भी दिगम्बर परंपरामें पूर्वकी मर्यादाको भुलाना प्रारम्भ कर दिया है । इसमें भी हम पुरुषोंका ही दोष है ।

३. उपदेश ग्रहण करने योग्य श्रोता

जैसे आगममें मोक्षमार्गका अधिकारी वक्ता प्रायः रत्नत्रयधारी मुनि ही स्वीकार किया गया है वैसे ही धर्मकथा सुननेके लिये सावधान व्यक्तिको स्वीकार किया गया है, क्योंकि ऐसा ही व्यक्ति संसारसे भयभीत होकर श्रोताके रूपमें यथार्थ गुरुकी शरणको स्वीकार करता है । आगममें जैसे वक्ताकी मर्यादा स्वीकार की गई है वैसे ही श्रोताकी भी मर्यादा स्वीकार की गई है । वर्तमानमें यद्यपि सभी वक्ता और श्रोता दोनोंमें ही विसंगतियाँ देखी जाती हैं, जो कालदोषसे अपरिहार्य है । ऐसा होते हुए भी आगमकी मर्यादा क्या है वह हमारे ध्यानमें रहे, मात्र इतने प्रयोजनको ध्यानमें रखकर ही हमने संक्षेपमें यह खुलासा किया है ।

४. सम्यग्दर्शन और उसके भेद

आगे धर्मके स्वरूपपर प्रकाश डाल कर तथा उसकी प्राप्ति क्या करनेसे होती है यह दिखला कर धर्मके प्रथम सोपानके रूपमें सम्यग्दर्शनके भेदोंके कथनके मिससे सम्यग्दर्शनकी प्रधानरूपसे चर्चा की गई है ।

परमार्थसे सम्यग्दर्शन स्वभावपर्याय है । जो आत्माका मूलरूपमें जैसा सहज स्वभाव है उसरूप ज्ञान परिणामके होनेपर होता है यह नियम है । तथा यथार्थ देव, शास्त्र, गुरु आदिकी श्रद्धा करना उसका व्यवहार है ।

मूलमें सम्यग्दर्शन एक है । निमित्त भेदसे वह दो, तीन और दश प्रकारका कहा गया है (प० १०) । जो सम्यग्दर्शन वर्तमानमें परोपदेशपूर्वक होता है उसकी अधिगमज संज्ञा है । तथा जो वर्तमानमें परोपदेशके बिना होता है वह निसर्ज सम्यग्दर्शन है । यद्यपि प्रथमोपशम सम्यग्दर्शन देशना-

लब्धिपूर्वक होता है ऐसा नियम है फिर भी यहाँ उसके दो भेद वर्तमानमें उपदेश लाभ होने और न होनेकी अपेक्षा किये गये हैं। आशय यह है, कि जिसे पहले उसी पर्यायमें या अनन्तर पूर्व पर्यायमें भेदविज्ञानी द्वारा उपदेशलाभ होकर उसे ग्रहण, धारण और अनुस्मरण करनेकी सामर्थ्य उत्पन्न हुई हो उसे भव-भोगोंके प्रति उदासीनतापूर्वक जो आत्मानुभूति होती है वह निसर्गज सम्यग्दर्शन है, तथा वर्तमान में जो उपदेशपूर्वक आत्मलाभ होता है वह अधिगमज सम्यग्दर्शन है। आगममें सम्यग्दृष्टि ज्ञानीका उपदेश ही कार्यकारी माना गया है, इतना सुनिश्चित है।

तीन भेदोंका निर्देश करते हुए उसके आगममें ये तीन भेद परिलक्षित होते हैं—औपशमिक सम्यग्दर्शन, क्षायोशमिक सम्यग्दर्शन और क्षायिक सम्यग्दर्शन।

५. नयदृष्टिसे बन्धके कारण

आचार्यदेवने पद्य १७९ और २४५ में बन्धका उल्लेख कर अनेक स्थलोंपर संसारके जिन कारणोंका उल्लेख किया है उनमें मिथ्यात्व मुख्य है। अदेवमें देवबुद्धि, अगुरुमें गुरुबुद्धि और अतत्त्व या उनके प्रतिपादक कुशास्त्रमें तत्त्व या शास्त्रबुद्धिका होना मिथ्यात्व है।

(१) षट्खण्डागम धवला पुस्तक १२में बन्ध प्रत्ययोंका निर्देश करनेवाला एक प्रत्यय नामका अनुयोगद्वार आया है। उसमें नय दृष्टिसे कर्मबन्धके कारणोंका विचार किया गया है। नैगम, संग्रह और व्यवहार नयसे ज्ञानावरणादि कर्मोंके बन्धके कारणोंका निर्देश करते हुए सूत्र ८ में^१ मोहके साथ क्रोध, मान, माया और लोभको भी बन्धके कारणोंमें परिगणित किया गया है। तथा उन तीन नयोंसे सूत्र १० में^२ मिथ्यादर्शन और मिथ्याज्ञानके साथ योगको भी बन्धके कारणोंमें परिगणित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि जैसे क्रोधादि कषाय और योग नैगमादि तीन नयोंसे बन्धके कारण हैं वैसे ही मिथ्यादर्शन और मिथ्याज्ञान भी इन्हीं तीनों नयोंकी अपेक्षा बन्धके कारण हैं। इस अपेक्षासे इनमें समान रूपसे कारणता स्वीकार करनेमें किसी प्रकारका प्रत्यवाय नहीं है। आठ कर्मोंके बन्धके कारणोंका मात्र ऋजुसूत्र नयसे विचार करने पर प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्ध योगसे तथा स्थितिवन्ध और अनुभागबन्ध कषायसे होते हैं, यह स्वीकार किया गया है। इसलिये नैगम, संग्रह और व्यवहार नयसे मिथ्यात्व आदि पाँचों बन्धके कारण है जो यह आगममें स्वीकार किया गया है उसकी संगति बैठ जाती है। तथा ऋजुसूत्र नयसे योग और कषाय ये दो बन्धके

१. ध० पु० १२ पु० २८३।

२. वही पु० २८७।

कारण हैं इस कथनमें भी कोई बाधा नहीं आती। दोनों ही कथन अपनी-अपनी जगह आगमानुसार ही हैं। इनमेंसे किसी एकका भी अपलाप नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी एक कथनके अपलाप करनेका अर्थ होता है उस नय दृष्टिको अस्वीकार करना।

६. मिथ्यात्व बन्धका कारण मुख्य है

(२) आगे इस पर विस्तारसे विचार करनेके पहले कर्मबन्धके जो पाँच कारण कहे गये हैं उनमेंसे मिथ्यात्वमें बन्धकी कारणता क्यों स्वीकारकी गई है इस विषय पर संक्षेपमें प्रकाश डालेंगे।

यह तो सुप्रसिद्ध सत्य है कि जो पहला गुणस्थान मिथ्यात्व है उसमें उत्पादानुच्छेदकी अपेक्षा जिन प्रकृतियोंकी बन्ध व्युच्छित्ति होती है वे प्रकृतियाँ १६ हैं। उनमेंसे एक मिथ्यात्व ध्रुवबन्धिनी प्रकृति है, मिथ्यात्वरूप परिणामके साथ उसका बन्ध नियमसे होता ही रहता है। अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करनेवाला जीव सम्यक्त्व आदिरूप परिणामोंसे च्युत होकर यदि मिथ्यात्व गुणस्थानमें आता है तो उसके प्रारम्भसे ही अनन्तानुबन्धी चतुष्कका बन्ध होकर भी एक आवलि काल तक अपकर्षणपूर्वक उसकी उदय-उदीरणा नहीं होती ऐसा नियम है^१। अतः ऐसे जीवके एक आवलि काल तक अनन्तानुबन्धी क्रोधादिरूप परिणामके न होने पर भी मिथ्यात्व परिणामनिमित्तक मिथ्यात्व प्रकृतिका बन्ध होता ही है। साथ ही शेष १५ प्रकृतियोंका भी यथासम्भव बन्ध होता है।

(३) यद्यपि वहाँ एक अनन्तानुबन्धी क्रोधादिरूप परिणामको छोड़कर बन्धके अन्य सब कारण उपस्थित अवश्य हैं पर मिथ्यात्व प्रकृतिके बन्धका अविनाभाव सम्बन्ध जिस प्रकार मिथ्यात्व परिणामके साथ पाया जाता है वैसा अन्य प्रत्ययोंके साथ नहीं पाया जाता, इसीलिये ही मिथ्यात्व कर्मके बन्धका प्रधान कारण मिथ्यात्व परिणाम होनेसे बन्धके कारणोंमें मिथ्यात्वको परिगणित किया गया है, अन्यको नहीं।

(४) दूसरे अन्य जिन हुंडक संस्थान आदि १५ प्रकृतियोंकी बन्ध व्युच्छित्ति मिथ्यात्व गुणस्थानमें होती है वे सबकी सब सप्रतिपक्ष प्रकृतिगाँ हैं। इसलिये यह तो माना जा सकता है कि जब मिथ्यात्व गुणस्थानमें उन प्रकृतियोंके बन्धके कारणरूप परिणाम नहीं होते तब उनका बन्ध न होकर उनकी सप्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध होने लगता है। फिर भी अन्य सप्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध तो मिथ्यात्वरूप परिणामोंके अभावमें

१. संजोजिदअगंतागुबन्धीणमावलियामेत्तकालमुदीरणाभावाद्दौ । ध० पु० १५

भी होना सम्भव है। परन्तु उन १५ प्रकृतियोंका जब भी बन्ध होगा तब मिथ्यात्वरूप परिणामके होनेपर ही होगा, अन्यथा नहीं। तब उस जीवके अनन्तानुबन्धीका उदय रहे या न रहे, इससे उन १५ प्रकृतियोंके बन्ध होने और न होनेमें कोई फरक नहीं पड़ता। जब भी उनका बन्ध होगा, मिथ्यात्व परिणामके होनेपर ही होगा यह अकाट्य नियम है। इसलिये इन १५ प्रकृतियोंके बन्धका भी प्रधान कारण मिथ्यात्व होनेसे मिथ्यात्वको प्रमुखरूपसे बन्धके कारणोंमें परिगणित किया गया है।

(५) सामान्यतया प्रकृतिबन्धकी अपेक्षा तो आगमका यह अभिप्राय है ही, स्थितिबन्ध और अनुभागबन्धकी अपेक्षा भी विचार करनेपर जिन १६ प्रकृतियोंका मात्र मिथ्यात्व गुणस्थानमें बन्ध होता है उनका उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य किसी भी प्रकारका स्थितिबन्ध या अनुभागबन्ध क्यों न हो उसका अविनाभाव सम्बन्ध भी जैसा मिथ्यात्व परिणामके साथ पाया जाता है वैसा अविरति आदि अन्य परिणामोंके साथ नहीं पाया जाता, क्योंकि महाबन्धमें जहाँ भी इन १६ प्रकृतियोंके उत्कृष्टादि स्थितिबन्ध और अनुभागबन्धके स्वामीका विचार किया गया है वहाँ उसका मिथ्यादृष्टि होना अवश्यभावी कहा गया है। उसके संक्लेश आदिरूप परिणामोंमें भेद हो सकता है पर उसे मिथ्यादृष्टि होना ही चाहिये।

(६) (प्रसंगसे) यहाँ यह बात विशेषरूपसे उल्लेखनीय है कि मिथ्यात्व आदि प्रत्ययों (बन्धकारणों) का विचार अनुभागबन्धकी अपेक्षा करते हुए महाबन्धमें लिखा है—

मिच्छ० - गुवुंस० - गिरयाउ० - गिरयगइ-चदुजादि-हुंड०-असंप०-गिरयाणु०-आदाव-थावरादि० ४ मिच्छत्तपच्चय। महाबन्ध पु० ४ पृ० १८६।

आशय यह है कि मिथ्यात्व आदि उक्त १६ प्रकृतियोंका बन्ध मिथ्यात्व निमित्तक ही होता है। उनके बन्धमें अनन्तानुबन्धी क्रोधादिरूप असंयम परिणामका होना अनिवार्य नहीं है। इसलिये जो बन्धके कारणोंमें मिथ्यात्वको अकिंचित्कर कहकर यहाँ अनन्तानुबन्धी क्रोध आदिकी प्रधानताको सूचित करते हैं उनका वह चिन्तन आगमानुसार नहीं है, इतना उक्त आगमके परिप्रेक्ष्यमें स्पष्टरूपसे स्वीकार करना अनिवार्य हो जाता है।

(७) यह तो सब स्वाध्यायी बन्धु जानते हैं कि मिथ्यात्व परिणामके अभावस्वरूप जो सम्यग्दर्शनरूप स्वभाव परिणाम होता है वह तथा अनन्तानुबन्धी आदि १२ कषायोंके अभावस्वरूप जो वीतराग स्वरूप

चारित्र्य परिणाम होता है वह मात्र निर्जराका ही कारण स्वीकार किया गया है, बन्धका कारण नहीं। फिर भी यह देखकर तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध सम्यग्दृष्टिके होता है, मिथ्यादृष्टिके नहीं, इसलिये तो महाबन्धमें तीर्थंकर प्रकृतिके बन्धको सम्यक्त्व-निमित्तक कहा गया है और यह देख कर कि आहारकद्विकका बन्ध संयमीके ही होता है, असंयमीके नहीं, आहारकद्विकके बन्धको संयमनिमित्तक कहा गया है। यथा—

आहारदुगं संजमपच्चयं । तित्थयरं सम्मत्तपक्कयं । महाबन्ध पु० ४,
पु० १८६ ।

यहाँ यह शंका नहीं की जा सकती कि यदि तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध सम्यक्त्व निमित्तक होता है तो सभी सम्यग्दृष्टियोंके उसका बन्ध होना चाहिये और यदि आहारकद्विकका बन्ध संयमनिमित्तक होता है तो सभी संयमियोंके आहारकद्विकका बन्ध होना चाहिये, क्योंकि ऐसी व्याप्ति तो है कि जो भी तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध करेगा उसको कमसे कम सम्यग्दृष्टि तो होना ही चाहिये। तथा जो भी आहारकद्विकका बन्ध करेगा उसे कमसे कम अप्रमत्तसंयत तो होना ही चाहिये। इन दोनोंके इन प्रकृतियोंका बन्ध नियमसे होता ही है ऐसा नहीं है। होगा तो ऐसी योग्यताके होनेपर ही उनके बन्धके कारणोंसे होगा, अन्यथा नहीं होगा।

आगमके इस कथनका तात्पर्य यह है कि अन्यत्र न होकर जिस भूमिकामें जिस कर्मका बन्ध होता है उसमें नयदृष्टिसे कारणता स्वीकार करना अनिवार्य है। यदि ऐसा न माना जाय तो जिसके भी तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध होगा उसे कमसे कम सम्यग्दृष्टि तो होना ही चाहिये यह कथन युक्तिसंगत नहीं माना जा सकेगा। एक कार्यके होनेमें कारण अनेक होते हैं, कोई साधारण कारण होता है और कोई असाधारण कारण होता है। यहाँ मिथ्यात्व आदि १६ प्रकृतियोंके बन्धमें मिथ्यात्व असाधारण कारण है, क्योंकि जो भी उनका बन्ध करेगा उसका मिथ्यादृष्टि होना अनिवार्य है, उन प्रकृतियोंके बन्ध होनेमें अनन्तानुबन्धी क्रोधादिरूप परिणामका होना अनिवार्य नहीं है।

(८) उक्त १६ प्रकृतियोंका प्रदेशबन्धकी अपेक्षा विचार करनेपर भी इनका उत्कृष्टादिके भेदसे किसी भी प्रकारका प्रदेशबन्ध क्यों न हो उसका भी मिथ्यादृष्टि होना अनिवार्य है। मिथ्यादृष्टि न हो और केवल योगके निमित्तसे इन प्रकृतियोंका किसी भी प्रकारका प्रदेशबन्ध हो जाय ऐसा नहीं है।

(९) यहाँ यह कहा जा सकता है कि मिथ्यादृष्टि तो हो, परन्तु उसके योग और कषाय न हो तो उन प्रकृतियोंका केवल मिथ्यात्वके निमित्तसे बन्ध नहीं होगा। परन्तु जिसका ऐसा कहना है सो उसका वैसा कहना इसलिये युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि आगमके अनुसार यह तो कहा जा सकता है कि योग और कषाय तो हो, परन्तु मिथ्यात्व न हो। पर यह नहीं कहा जा सकता कि मिथ्यात्व तो हो और योग और कषाय न हो। हाँ कोई कहे कि मिथ्यात्व तो हो और अनन्तानुबन्धी न हो तो यह कहना जैसे बन जाता है। वैसे ही अनन्तानुबन्धी तो हो और मिथ्यात्व न हो, गुण-स्थान भेदसे यह कहना भी बन जायगा। अतः आगमके अनुसार यही मानना युक्त संगत प्रतीत होता है कि आगममें जो बन्धके पाँच कारण कहे गये हैं उनमें मिथ्यात्व मुख्य है।

(१०) अब प्रश्न यह है कि जब मिथ्यात्व भी बन्धका कारण है तब ऋजुसूत्रनयसे स्थितिवन्ध और अनुभागबन्धका कारण मात्र कषायको तथा प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्धका कारण मात्र योगको क्यों कहा। ऋजुसूत्रनयसे मिथ्यात्वका बन्धके कारणोंमें क्यों नहीं परिगणित किया गया? समाधान यह है कि कषायकी वृद्धि और हानिके साथ तो स्थितिवन्ध और अनुभागबन्धकी वृद्धि और हानि देखी जाती है, इसलिये तो ऋजुसूत्रनयसे कषायको स्थितिवन्ध और अनुभागबन्धका कारण कहा^१ तथा योगकी वृद्धि और हानिके साथ प्रदेशबन्धकी वृद्धि और हानि होती है, इसलिये ऋजुसूत्रनयसे योगको प्रदेशबन्धका कारण कहा^२। यहाँ जिस प्रकार प्रदेशबन्धका कारण योग है उसी प्रकार प्रकृतिबन्धका कारण भी योग है, क्योंकि उसके बिना उसको उत्पत्ति नहीं हो सकती, और ऐसा नियम है कि जिसके बिना जिसकी उत्पत्ति नहीं होती वह उसका कार्य व दूसरा कारण होता है^३।

(११) फिर भी यह प्रश्न तो खड़ा ही रहता है कि जब ऋजुसूत्रनयसे प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्धका कारण योग तथा स्थितिवन्ध और अनुभाग

१. णाणावरणीयट्ठदिवेयणा अणुभागवेदणा च कसायपच्चएण होदि, कसाय-वड्ढिहाणीहिता ट्ठदि-अणुभागानं वड्ढि-हाणिदंसणादो । ध० पु० १२ पृ० २८८ ।
२. ण च जोगवड्ढि-हाणोओ मोत्तूण अणोहितो णाणावरणीयपदेसबंधस्स वड्ढि हाणि वा पेच्छामो । ध० पु० १२ पृ० २२८ ।
३. याणि चैव योगट्ठाणाणि ताणि चैव पदेसबंधट्ठाणाणि । णवरि पदेसबंध-ट्ठाणाणि पगदिविसेसेण विसेसाधियाणि । म० वं०, भा० ६ पृ० १०१ ।

बन्धका कारण कषाय है तो फिर शेष क्या बचता है जिसका कारण माननेके लिए मिथ्यात्वको स्वीकार किया जाय ? समाधान यह है कि प्रत्येक कार्यकी उत्पत्तिमें कारण दो प्रकारके होते हैं—एक सामान्य (व्यापक) कारण और दूसरा विशेष (व्याप्य) कारण। प्रकृतमें नैगमादि तीन नयोंसे बन्धके जितने भी कारण कहे गये हैं वे सब सामान्य कारण हैं तथा ऋजुसूत्रनयसे जो कारण कहे गये हैं वे विशेष कारण हैं। जैसे हमारे-आपके चलने में पृथ्वी सामान्य कारण है, वह न हो तो हम एक डग भी नहीं चल सकते। तथा विहायोगति नामकर्मका उदय आदि विशेष कारण है। पृथिवीपर हम भी चलते हैं, आप भी चलते हैं, ऊँट भी चलता है और सर्प आदि भी चलते हैं सो यहाँ प्रत्येककी चालमें जो अन्तर पड़ता है उसका कारण अलग-अलग होकर भी पृथ्वी सबके चलनेके लिए सब अवस्थाओंमें कारण है वैसे ही प्रकृतमें भी समझना चाहिये। मिथ्यात्वमें बंधनेवाली सभी प्रकृतियोंके चारों प्रकारके बन्धका सामान्य कारण मिथ्यात्व होकर भी बन्धमें जो तारतम्य दिखाई देता है उसका कारण विवक्षित योग और कषाय हैं ऐसा यहाँ समझना चाहिये।

(१२) प्रदेशबन्धके प्रसंगसे आगममें जो यह कहा गया है कि जो योग-स्थान हैं वे ही प्रदेशबन्धस्थान हैं। इतनी विशेषता है कि प्रकृतिविशेषकी अपेक्षा वे प्रदेश बन्धस्थानविशेष अधिक हैं। सो इसका अर्थ है कि भले ही योग वही रहे पर प्रकृति भेदके कारण जो प्रदेशबन्धमें फरक पड़ता है, उसका कारण प्रकृति भेद ही है। क्योंकि एक कालमें विवक्षित योगसे जितनी प्रकृतियोंका बन्ध होता है, उन सब प्रकृतियोंमें मिलनेवाले प्रदेश सबको समान नहीं मिलते हैं। इसका कारण वह योग न होकर कथंचित् प्रकृतिभेद ही इसका कारण रहता है। फिर भी यदि कोई यह माने कि यहाँ प्रकृति भेदसे उन प्रकृतियोंके प्रदेशबन्धमें योग अकिंचित्कर है, प्रकृतिभेद ही उसका कारण है तो जैसे उसका यह मानना मिथ्या है वैसे ही बन्धमें मिथ्यात्वको अकिंचित्कर मानना भी मिथ्या ही है।

(१३) इस प्रकार नयभेदसे मिथ्यात्व आदि पाँचों ही बन्धके कारण हैं ऐसा यहाँ वेदनाखण्ड प्रत्यय अनुयोगद्वारके अनुसार समझना चाहिये। आचार्य गृद्धपिच्छने भी इसी बातको ध्यानमें रखकर ही तत्त्वार्थसूत्रके ८वें अध्यायमें प्रारम्भके दो सूत्रोंकी रचना की है। वहाँ प्रथम सूत्र नैगमादि तीन नयोंकी अपेक्षा रचा गया है और दूसरे सूत्रकी रचना ऋजुसूत्रनयकी अपेक्षा की गई है। मात्र उत्तरकालीन आचार्योंने नयविक्षाको गौणकर

आगमकी संकलना की है; इसलिये मादृशः जनोंको नयज्ञान न होनेसे ऐसी विडम्बनाकी स्थिति बन जाती है जो युक्तियुक्त नहीं है। अतः आगमके सर्वांग कथनको स्वीकार करना ही मोक्षमार्गमें प्रयोजनीय माना गया है ऐसा मानकर ही मुनि या श्रावकको अपने श्रद्धानको आगमानुकूल बना कर दृढ़ करना चाहिये।

७. सम्यग्दर्शनके उत्तर भेदोंका विशेष स्पष्टीकरण

आत्मानुशासनमें भदन्त गुणभद्रने सम्यग्दर्शनके जो दस भेद किये हैं सो उन भेदोंके करनेमें मिथ्यात्व आदि कर्मोंके उपशमादिकी विवक्षा न होकर ज्ञानावरण कर्मके क्षय क्षयोपशम आदिकी विशेषता स्पष्टतः परिलक्षित होती है। मात्र जो औपशमिक आदि तीन भेद किये गये हैं उनके होनेमें अवश्य ही मिथ्यात्व आदि कर्मोंका उपशम, क्षय, क्षयोपशम मुख्य है। उनमें प्रथम औपशमिक सम्यग्दर्शन है। अनादि मिथ्यादृष्टि जीवके सबसे पहले प्रथमोपशम सम्यग्दर्शन की ही उत्पत्ति होती है। यदि एक बार सम्यग्दर्शन होनेके बाद वह मिथ्यादृष्टि हो भी जाय और वेदककालके भीतर वेदक सम्यग्दर्शनकी उत्पत्ति न होकर वह मिथ्यादृष्टि ही बना रहे तो पुनः वह प्रथमोपशम सम्यग्दर्शनको प्राप्त करके ही सम्यग्दृष्टि हो सकता है।

अनादि मिथ्यादृष्टि जीवके एक मिथ्यात्व दर्शनमोहनीय कर्मके साथ २६ प्रकृतियोंकी सत्ता होती है, किन्तु सादि मिथ्यादृष्टि जीवके २८, २७ और २६ प्रकृतियोंकी सत्ता बन जाती है। जिस सादि मिथ्यादृष्टि जीवने सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्प्रकृतिकी उद्वेलना नहीं की है उसके २८ प्रकृतियोंकी सत्ता होती है। जिसने सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिकी उद्वेलना कर ली है उसके २७ प्रकृतियोंकी सत्ता होती है और जिसने सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्प्रकृति दोनोंकी उद्वेलना कर ली है वह सादि मिथ्यादृष्टि होते हुए भी उसके २६ प्रकृतियोंकी सत्ता होती है। ये तीनों ही प्रकारके जीव प्रथमोपशम सम्यग्दर्शनको प्राप्त करनेके अधिकारी हैं।

इस सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति दर्शनमोहनीय कर्मके अन्तरकरण उपशम-पूर्वक होती है। अनन्तानुबन्धीकर्मका अन्तरकरण उपशम नहीं होता। मात्र जिस समय यह सातिशय मिथ्यादृष्टि जीव अधःप्रवृत्तकरण आदि तीन करण करके अन्तरकरण उपशमपूर्वक दर्शनमोहनीय कर्मकी प्रथम स्थितिको गलाकर प्रथमोपशम सम्यग्दृष्टि होता है उसी समय इस जीवके अनन्तानुबन्धीका अनुदय होनेसे इसकी भी अनुदयोपशमके रूपमें परिगणना

की जाती है। अतः इसी तथ्यको व्यक्त करते हुए यह कहा जाता है कि दर्शन-मोहनीयकी तीन और अनन्तानुबन्धीकी चार इन ७ प्रकृतियोंके उपशमसे उपशमसम्यग्दर्शन होता है। परन्तु दर्शनमोहनीयके समान इसके अनन्तानुबन्धीका अन्तरकरण उपशम नहीं होता इतना सुनिश्चित है।

यह प्रथमोपशम सम्यग्दर्शनका स्वरूप है। इसके सिवाय उपशम-सम्यग्दर्शनका एक भेद द्वितीयोपशम सम्यग्दर्शन भी है जो अप्रमत्तसंयत वेदकसम्यग्दृष्टि जीव उपशमश्रेणिपर चढ़नेके सन्मुख होता है उसके अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनाके साथ दर्शनमोहनीयके अन्तःकरण उपशम-पूर्वक होता है। यह सामान्यसे उपशम सम्यग्दर्शनके दोनों भेदोंका स्वरूप निर्देश है।

सम्यग्दर्शनके दूसरे भेदका नाम क्षयोपशम सम्यग्दर्शन है। यह सम्यक्त्वमोहनीयके उदयपूर्वक होनेसे इसका दूसरा नाम वेदक सम्यक्त्व भी है। यह उपशम सम्यग्दर्शन पूर्वक भी होता है और मिथ्यादर्शनपूर्वक भी होता है। इतनी विशेषता है कि जो सम्यग्दर्शनसे च्युत होकर मिथ्यात्व गुणस्थानको प्राप्त हुआ है उसके वेदक कालके भीतर ही इस सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होना सम्भव है। किन्तु वेदक कालके व्यतीत होनेपर वह मात्र प्रथमोपशमसम्यक्त्वको प्राप्त करके ही सम्यग्दृष्टि हो सकता है।

इसके अनेक भेद हैं। प्रथम भेदमें अनन्तानुबन्धी ४, मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वका अनुदय रहता है और सम्यक् प्रकृतिका उदय रहता है। दूसरे भेदमें अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना रहती है, तथा मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वका अनुदय और सम्यक् प्रकृतिका उदय रहता है। तीसरे भेदमें अनन्तानुबन्धी ४ की विसंयोजना, मिथ्यात्वकी क्षपणा होकर सम्यग्मिथ्यात्वका अनुदय और सम्यक् प्रकृतिका उदय रहता है तथा चौथे भेदमें अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनापूर्वक मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी क्षपणा होकर सम्यक् प्रकृतिका उदय रहता है। कृतकृत्यवेदक सम्यग्दर्शन इस चौथे भेदकी ही संज्ञा है। इन चार भेदोंमेंसे अन्तिम दो भेद, जो वेदक सम्यग्दृष्टि जीव दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करता है उसीके होते हैं। इस प्रकार आगमानुसार वेदक सम्यक्त्वके चार भेद जानने चाहिये।

जो प्रवृज्या देनेमें समर्थ योग्य गुरुकी शरणमें जाकर चरणानुयोगके अनुसार २८ मूलगुणोंको अंगीकार करते हैं ऐसे कोई द्रव्यालंगी साधु प्रवृज्या लेनेके अनन्तर या कालान्तरमें आगमानुसार जीवादि तत्त्वोंके अभ्यासपूर्वक प्रथमोपशम सम्यग्दर्शनके साथ या वेदक सम्यग्दर्शन

(प्रथमभेद) के साथ अप्रमत्तसंयत गुणस्थानको प्राप्त करनेके अधिकारी होते हैं। इसी प्रकार जिस व्यक्तिने गुरुकी साक्षीपूर्वक चरणानुयोगोंके अनुसार श्रावकके निरतिचार १२ व्रत स्वीकार किये हैं वे भी जीवादि तत्त्वोंके सम्यक् अभ्यासपूर्वक उक्त दोनों सम्यग्दर्शनोंमेंसे किसी एक सम्यग्दर्शनके साथ विरताविरत गुणस्थानके अधिकारी होते हैं। तथा जिन्होंने विधिवत् महाव्रतों या अणुव्रतोंको नहीं स्वीकार किया है। मात्र जो चतुर्थ गुणस्थानके समान प्रवृत्ति करनेमें सावधान हैं वे उक्त दोनों सम्यग्दर्शनोंमेंसे किसी एक सम्यग्दर्शनके साथ चौथे गुणस्थानके अधिकारी होते हैं।

यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये कि उपशम सम्यग्दर्शनमें दर्शन मोहनीयकी उपशामना अष्टःप्रवृत्तकरण आदि तीन करणपूर्वक ही होती है। परन्तु वेदसम्यक्त्वकी प्राप्तिमें जो सम्यग्दर्शन छूटनेके दीर्घकाल बाद इस सम्यग्दर्शन को प्राप्त करते हैं वे प्रारम्भके दो करण करके ही इसके अधिकारी होते हैं। ओर जो अतिशीघ्र इसे प्राप्त करते हैं वे करणपरिणामोंके बिना भी इसे प्राप्त करनेके अधिकारी होते हैं। उपशम सम्यग्दर्शनपूर्वक वेदक सम्यग्दर्शनको प्राप्त किया जा सकता है इसमें किसी प्रकारका प्रत्यवाय नहीं है। इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानसे या प्रथमोपक्षम सम्यक्त्वसे भी कई जीव वेदक सम्यग्दर्शनको प्राप्त करनेके अधिकारी होते हैं इसमें भी किसी प्रकारका प्रत्यवाय नहीं है।

तथा सम्यग्दर्शनके तीसरे भेदका नाम क्षायिक सम्यग्दर्शन है। यह अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजनापूर्वक दर्शनमोहनीयकी तीनों प्रकृतियोंकी क्षपणा करके प्राप्त होता है, इसलिये इसका क्षायिक सम्यग्दर्शन यह नाम सार्थक है। इतना अवश्य है कि चारों गतियोंके जीव इसे प्रारम्भ करनेके अधिकारी नहीं होते, मात्र कर्मभूमिज मनुष्य ही केवली श्रुतकेवलीके पादमूलमें वेदकसम्यक्त्वपूर्वक इसका प्रारम्भ करते हैं, हाँ पूर्ति इसका चारों गतियोंमेंसे किसी भी एक गतिमें हो सकती है। एक तो जिस मनुष्यने इसका प्रारम्भ किया है वहीं इसकी पूर्ति हो जाती है। कदाचित् मरण हो जाय तो परभवसम्बन्धी जिस आयुका बन्ध किया हो वहाँ जाकर यह जीव उसकी पूर्ति करता है। फिर भी इसका प्रस्थापक जीव जब अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करनेके बाद मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी क्षपणा करके कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि हो जाता है तभी उसका मरण होकर अगले भवमें उसकी पूर्णता होती है ऐसा नियम है।

मोक्षमार्गमें यह सम्यग्दर्शन धर्मका मूल है। यह अचल मोक्षरूपी प्रासादपर आरोहण करनेके लिये सोपानके समान है (९)। दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तपके भेदसे आराधना चार प्रकारकी है। उनमें इसका स्थान प्रथम है (१०)। इसके होनेपर ही अन्य आराधनाओंकी सफलता है। अन्य सब आराधनाएँ इसके बिना पत्थरके भारी बोझके समान हैं। परन्तु इसके होनेपर वे महामणिके समान पूज्य हैं (प० १५)। यह हितकी प्राप्ति अहितका परिहार करानेमें समर्थ है (प० १६)। संसारी प्राणी चाहे सुखी हों या दुःखी, उन्हें सदा धर्मकार्योंमें ही लगे रहना चाहिये। कारण कि सुखी जीवोंके लिये यह सुखकी अभिवृद्धिमें निमित्त है और दुःखी जनोके दुःखका उपशम भी इसीसे होता है (प० १८)। धर्म प्रयत्नसे सींचे गये उस वृक्षके समान है जिसकी प्रयत्नपूर्वक भले प्रकार आराधना करनेसे नियमसे उत्तम फलकी प्राप्ति होती है (१९)। तात्पर्य यह है कि धर्म अपूर्व कल्पवृक्षके समान है। कल्पवृक्षसे तो याचना करने पर ही फलकी प्राप्ति होती है। किन्तु जो रत्नत्रयस्वरूप धर्मकी उपासना करता है उसे बिना याचना किये ही स्वर्गकी प्राप्तिके साथ अन्तमें मोक्षस्वरूप उत्तम फलकी प्राप्ति होती है। इसलिये स्वात्मातिरिक्त अन्य सब पदार्थोंमें स्नेहका परित्याग कर रत्नत्रयकी आराधना करना ही श्रेयस्कर है, क्योंकि जिसका हृदय थोड़ा भी स्नेहसे अनुरक्त है वह ज्ञान और चारित्रकी उपासना करता हुआ भी स्नेह (तेल) युक्त दीपकके समान कज्जल जैसे मलिन कर्मोंको ही जन्म देता है (२३१)। अतः बाह्य पदार्थोंमें मूर्च्छाका परित्याग करके ही धर्मकी आराधना करनी चाहिये यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

पुण्य-पाप

सर्वार्थसिद्धिमें लिखा है—पुनाति आत्मानं इति पुण्यम्। पाति रक्षति आत्मानं शुभादिति पापम्। जो आत्माको पवित्र करे उसे पुण्य कहते हैं तथा जो शुभसे आत्माकी रक्षा करे वह पाप है। अब प्रश्न यह है कि ऐसे कौनसे कार्य हैं जिनके करनेसे आत्मा पवित्र होता है? समाधान यह है कि प्रथम तो रत्नत्रयकी आराधना यह मुख्य कार्य है उसकी उपासनासे यह आत्मा कर्मकलकसे मुक्त हो अनन्त सुखका भोक्ता बनता है। आत्माको पवित्र करनेका यह ऐसा मार्ग है जिस पर आरूढ़ होनेके लिये मन, वचन और कायपूर्वक शुभ प्रवृत्तिका होना अनिवार्य है। किन्तु इसमें भी परिणामोंकी संमूहल मुख्य है, क्योंकि पुण्य और पापका कारण परिणामोंको ही माना

गया है (२३) वे परिणाम शुद्ध और अशुद्धके भेदसे दो प्रकारके हैं। पराश्रित बुद्धिके त्यागपूर्वक स्वभावभूत आत्माकी उपासनासे जो रत्नत्रयरूप परिणामोंकी प्राप्ति होती है वे परिणाम शुद्ध कहलाते हैं। अशुद्ध परिणाम दो प्रकारके हैं—शुभ और अशुभ। इन्हींका नाम पुण्य और पाप भी है। मोक्षमार्गके अनुरूप देवपूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय और दान आदि जितनी भी मन, वचन और कायकी सत् प्रवृत्ति होती है वह सब शुभ या पुण्यरूप मानी जाती है तथा संसारवर्धक विषय-कषायरूप जिनती भी मन, वचन और कायकी असत् प्रवृत्ति होती है वह सब अशुभ या पापरूप प्रवृत्ति मानी जाती है। लौकिक जन भी यह जानकर कि शुभ प्रवृत्ति पुण्यरूप होकर सुखका कारण है और अशुभ प्रवृत्ति पापरूप होकर दुःखका कारण है, सदा ही शुभ प्रवृत्ति करनेमें आदरभाव बनाये रखते हैं। यही कारण है कि आगे २३९वें पद्यमें आचार्यने शुभ, पुण्य और सुखको हितरूप स्वीकार करके उन्हें अनुष्ठेय कहा है तथा अशुभ, पाप और दुःखको अहितरूप जानकर उनके अनुष्ठान करनेका निषेध किया है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि शुभ, पुण्य और सुख सदा ही अनुष्ठेय हैं। किन्तु बात यह है कि परमात्मेसे तो प्रवृत्तिमात्र संसारकी जननी होनेके कारण मोक्षमार्गमें निषिद्ध ही मानी गई है। परन्तु जब तक छोड़ने योग्य उनसे मन, वचन और कायका सम्बन्ध अभिप्रायपूर्वक नहीं छूट जाता तभी तक उनमें निवृत्तिका अभ्यास करना योग्य है। परन्तु जहाँ अशुभसे निवृत्तिके साथ शुभमें प्रवृत्तिका भी अभाव होकर आत्मा अपने ज्ञायकस्वभावमें लीन हो जाता है, तभी वह अव्यय मोक्षपदकी प्राप्तिका अधिकारी होता है (२३६)। आगे इसी बातको विशदरूपसे समझाते हुए आचार्य कहते हैं कि राग द्वेषका होना ही प्रवृत्ति है और इनके निषेधका नाम ही निवृत्ति है। किन्तु ये दोनों ही बाह्य पदार्थोंके सम्बन्धसे होते हैं, इसलिये इनका त्याग करना ही श्रेयस्कर है (पृ० २३७)।

इस प्रकार हम देखते हैं कि विकल्पकी भूमिकामें शुभ, पुण्य और सुख आश्रय करने योग्य भले ही माने गये हों, परन्तु अन्तमें सर्वथा हेयरूप अशुभ, पाप और दुःखके छूटनेके साथ शुभ, पुण्य और इन्द्रिय सुखमें भी हेय बुद्धि होकर शुद्धोपयोगके बलसे वे स्वयं छूट जाते हैं (प० २४०)। परम पदको प्राप्त करनेका एकमात्र यही मार्ग है।

८. दैव और पुरुषार्थ

अकलंकदेवने अष्टशतीमें दैव और पुरुषार्थकी व्याख्या करते हुए जो कुछ लिखा है उसका भाव है कि पहले उपाजित किया हुआ कर्म और

स्वगत योग्यता इन दोनोंका नाम दैव है। तथा वर्तमानमें बुद्धिपूर्वक की गई चेष्टाका नाम पुरुषार्थ है^१। आचार्य समन्तभद्र कहते हैं कि प्राणीमात्रके संसारके प्रत्येक कार्यमें गौण-मुख्यभावसे इन दोनोंका सद्भाव नियमसे पाया जाता है। कहीं पुरुषार्थकी प्रधानता रहती है और दैव गौण रहता है तो कहीं दैवकी प्रधानता रहती है और पुरुषार्थ गौण रहता है। बुद्धिपूर्वक जो कार्य किया जाता है उसमें पुरुषार्थकी मुख्यता रहती है और अबुद्धिपूर्वक जो कार्य होते हैं उनमें दैव मुख्य हो जाता है^२। इसी तथ्य को ध्यानमें रखकर आचार्यने अनेक पद्योंमें दैव या विधिकी प्रधानता जता कर यह तथ्य उद्धाटित किया है कि यह अज्ञानी अतएव मिथ्यादृष्टि प्राणी उदयागत कर्मके परवश होकर किस प्रकार अनन्त काल तक नरक निगोदादि दुःखोंका पात्र बना रहता है। इसी तथ्यको आलंकारिक शैलीमें परमतमें प्रसिद्ध इन्द्रकी कल्पित कहानीको दृष्टान्तरूपमें उपस्थित कर आचार्यदेव लिखते हैं कि जिसका मन्त्री वृहस्पति था, शस्त्र वज्र था, सैनिक देवगण थे, दुर्ग स्वर्गलोक था, हाथी ऐरावत था तथा जिसके ऊपर विष्णुका अनुग्रह था, इस प्रकार अद्भुत बलसे संयुक्त भी इन्द्रको युद्धमें दैत्यों द्वारा पराजयका मुख देखना पड़ा, इसलिये यह निश्चित है कि प्राणी-मात्रके लिये दैव (उदयागत कर्म) ही शरण है (पृ० ३२)। दैवके आगे पुरुषार्थका कुछ वश नहीं चलता वह तो तिरस्कार करने योग्य ही है।

उदयागत कर्मके परवश हुआ यह अज्ञानी प्राणी कैसे विफल पुरुषार्थ होकर दुःखका भाजन बनता रहता है इसे एक दूसरे दृष्टान्त द्वारा समझाते हुए आचार्यदेव पुनः कहते हैं कि विषयजन्य सुखकी प्राप्तिके लिये कितना ही पुरुषार्थ क्यों न किया जाय, जब तक यह अज्ञानी प्राणी उदयागत कर्मके अधीन होकर प्रवृत्ति करता रहता है तब तक वह कभी भी अपने पुरुषार्थमें सफल नहीं हो सकता (२३३)। इस प्रकार यह अज्ञानी जीव किस प्रकार उदयागत कर्मके परवश वर्तता रहता है इसका उक्त कथनसे समर्थन होने पर भी आदिदेव भगवान् ऋषभदेवका उदाहरण उपस्थित कर (पृ० ११९) यह भी तो कहा जा सकता है कि उदयागत कर्मका फल भोगनेमें ज्ञानी भी तो विवश है। ऐसी अवस्थामें यह क्यों

१. पुराकृतं कर्म योग्यता च दैवम् । उभयं अदृष्टम् । पुरुषार्थः पुनः इहचेष्टितं दृष्टम् ।

२. आप्तमीमांसा ९१ ।

कहते हो कि उदयागत कर्मका फल भोगनेमें अज्ञानी ही विवश है, ज्ञानी नहीं।

समाधान यह है कि कर्मकी उदय-उदीरणा अज्ञानीके भी होती है और ज्ञानीके भी होती है। परन्तु इन दोनोंमें इतना ही अन्तर है कि अज्ञानी रागरूपी रससे लिप्त होकर कर्मके फलको भोगता है और ज्ञानी रागरूपी रससे लिप्त नहीं होता, इसलिये ज्ञानीके कर्मकी उदय-उदीरणा होने पर भी वह परमार्थसे उसका भोक्ता नहीं होता, ज्ञाता ही रहता है।

भगवान् ऋषभदेवको छह माहके उपवासके बाद छह माह तक भले ही आहारका लाभ न हुआ हो, पर उस अवस्थामें भी एक क्षणके लिये भी उनके विकल परिणाम नहीं हुए, प्रत्युत वे उसके ज्ञाता-दृष्टा ही बने रहे (११८)। यह है ज्ञानीकी भूमिका। ज्ञानी भी हो और कर्मोदयके वश ही अर्थात् परमार्थसे अपने कर्मफलका ज्ञाता न होकर अपनेको उसका भोक्ता भी मानता रहे ये दो बातें एक साथ नहीं बन सकतीं। इसीलिये पद्य २४६ में आचार्यदेव कहते हैं कि जो योगी है उसके जैसे पाप कर्मका भोग नहीं होता, वैसे ही पुण्यकर्मका भी भोग नहीं होता, वे दोनों निष्फल होकर स्वयं झड़ जाते हैं।

अब आगे हम यही देखेंगे कि वे दोनों निष्फल होकर कैसे झड़ जाते हैं। जहाँ भी आगममें मोक्षमार्गकी चर्चा आई है वहाँ यह तो स्वीकार किया ही है कि यदि कोई लौकिक प्रयोजनके बिना आत्महित बुद्धिसे स्वाध्याय आदि शुभ कर्ममें प्रवृत्त होता है तो उसके पाप कर्मके अनुभागकी प्रतिसमय अनन्तगुणी हानि होने लगती है और उस समय होनेवाले विशुद्ध परिणामके बलसे सातावेदनीय आदि परावर्तमान पुण्य प्रकृतियोंका ही बन्ध होने लगता है। परिणामोंकी यह भूमिका मोक्षमार्गके अनुरूप शुभ परिणामोंके निमित्तसे तो होती ही है। साथ ही जो स्वभाव सन्मुख होकर साक्षात् मोक्षमार्ग पर आरूढ होनेके लिये आत्मपुरुषार्थको जागृत करने लगता है उसके न केवल यह भूमिका बनती है, किन्तु इसके साथ ही यथासम्भव शुद्धोपयोगके बलसे शुभ और अशुभ कर्मोंकी निर्जरा भी होने लगती है। इसी तथ्यको ध्वनित करते हुए आचार्यदेवने पद्य २५७ में जो यह कहा है कि पीछे उदयमें आने योग्य कर्मको तीव्र तपके बलसे जो साधु उदयमें लाकर उसकी निर्जरा करता है वह कर्म यदि स्वयं ही उदयको प्राप्त हो जाता है तो इसमें साधुकी क्या हानि है। तो इस द्वारा आचार्यदेवने अप्रशस्त कर्मोंके अनुभाग-काण्डकघात और प्रशस्त तथा अप्रशस्त दोनों प्रकारके कर्मोंके स्थितिकाण्डकघातके साथ गुणश्रेणि

निर्जरा और गुणसंक्रमका ही निर्देश कर दिया है, क्योंकि ऐसा नियम है कि जो संज्ञी, पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त चारों गतिका जीव क्षयोपशमलब्धि, विशुद्धि-लब्धि, देशनालब्धि और प्रायोग्यलब्धिपूर्वक सर्वविशुद्ध ज्ञायकस्वभाव आत्माके सन्मुख होकर तीन करण परिणाम करता है उसके स्वयं ही उदयागत कर्मकी तो पूर्वोक्त विधिसे हानि होने ही लगती है, जिन कर्मोंका उस समय उदय नहीं पाया जाता उन कर्मोंका भी स्वयं ही काण्डकघात होकर गुणश्रेणिनिर्जरा होने लगती है। एक ओर आत्मा स्वोन्मुख होकर स्वयंको प्राप्त करनेका अनन्त पुरुषार्थ करता है और दूसरी ओर संचित कर्मोंकी निर्झरा स्वयं होने लगती है। इसके साथ नवीन बन्धमें जो उत्तरोत्तर हानि होने लगती है वह अलग। यह उस आत्मा की कथा है जो सबसे पहले उदयागत कर्मकी उपेक्षा कर आत्माको प्राप्त करनेका पुरुषार्थ करता है। इससे सिद्ध है कि जहाँ संसारकी परिपाटीमें दैवकी मुख्यता है और पुरुषार्थ गौण है। वहीं राग, द्वेष और मोहके परवश होकर अनादि कालसे भूले हुए जीवके अपने स्वभावभूत आत्माकी प्राप्तिमें पुरुषार्थ मुख्य है और दैव गौण है। इतना अवश्य है कि जो व्यक्ति उन्नतिके शिखरपर चढ़कर भी अणुमात्र रागका पक्ष लेता है उसका मध्यान्हके सूर्यके समान पतन होना अवश्यभावी है। इसी बातको ध्यानमें रखकर आचार्यदेवने राग-द्वेषके परवश न होनेका इसारा करते हुए साधुके प्रति ये उद्गार प्रगट करते हुए कहा है—भले ही तीन गुप्तियोंका दृढतासे पालन करो, धैर्यपूर्वक हिताहितके विचारमें भले ही सावधान बने रहो, इतना सब तो हो, फिर भी कहीं मुनिपदके योग्य नित्य-नैमित्तिक क्रियामें असावधानतावश कोई दोष लग जाय तो उसका मुनिपदसे पतन होना अवश्यभावी है (२४८)। इसलिये आत्महित चाहनेवालोंको चाहिये कि वे बाह्य संयोग आदिके बह्पणमें स्वयंको न रिझाकर आत्मलाभकी दिशामें प्रयत्नशील बननेके उपायमें लगे। दैव अर्थात् पुराकृत कर्मकी उपेक्षाकर आत्महितके कार्यमें लगनेका इसके सिवाय अन्य कोई मार्ग नहीं प्रतीत होता इतना सुनिश्चित है।

९. साधुका आगामाभ्यास प्रथम कर्तव्य

मोक्षमार्गमें आचार्य परम्परासे प्राप्त सम्यक् श्रुतकी प्रतिष्ठा सर्वोपरि है। जो साधु अपने मनरूपी मर्कटको अपने वशमें रखना चाहता है उसे अपने चित्तको सम्यक् श्रुतके अभ्यासमें नियमसे लगाना चाहिये। श्रुत-स्कन्ध हरे-भरे, फूल-पत्तों से लदे हुए एक वृक्षके समान है। जैसे वृक्षमें अनेक

शाखा-उपशाखाएँ होती हैं, फूल-फल होते हैं वैसे ही श्रुत भी अनेकान्त स्वरूप पदार्थकी नय-उपनयका आश्रय लेकर व्याख्या करनेमें प्रवीण है (१६९)। यह हम श्रुतके बलसे ही जानते हैं कि जो वस्तु एक अपेक्षासे तत्स्वरूप है वही वस्तु दूसरी अपेक्षासे अतत्स्वरूप भी है। यह विश्व अनादि-अनन्त भी है यह हम इसीसे समझते हैं (१७०)। न कोई वस्तु सर्वथा स्थायी है, और न सर्वथा क्षणविनाशीक ही है (१७१)। किन्तु एक ही समयमें वह उत्पाद-व्यय और ध्रौव्यस्वरूप त्रयात्मक सिद्ध होती है (१७१)। इसप्रकार विश्वमें जितने भी पदार्थ हैं उनके सामान्य स्वरूपके निर्णय करनेमें सम्यक् श्रुतकी जितनी उपयोगिता है, प्रत्येक पदार्थके असाधारण स्वरूपके निर्णय करनेमें भी श्रुतकी उतनी ही उपयोगिता है। यह भी हम श्रुतसे ही जानते हैं कि प्रत्येक आत्मा ज्ञानस्वभाव है, इसलिये स्वभावसे च्युत न होकर उसमें रमना ही उसकी प्राप्ति है और वही उसका मोक्ष है (१७४)।

इस समय रयणसार हमारे सामने है। उसमें प्रक्षिप्त गाथाओंको चुन-चुनकर यदि अलग कर दिया जाय तो उसे भी आचार्य कुन्दकुन्दके आगमानुसारी रचनाओंमें वही स्थान प्राप्त है जो स्थान समयप्राभृत और प्रवचनसार आदिका स्वीकार किया गया है। उसमें श्रावक और साधुके मुख्य कार्योंका निर्देश करते हुए लिखा है कि जैसे श्रावकधर्ममें दान और पूजा मुख्य हैं। इनके बिना वह श्रावक नहीं हो सकता। वैसे ही मुनिधर्ममें ध्यान और अध्ययन ये दो कार्य मुख्य हैं। इनके बिना मुनि मुनि नहीं।^१ यही कारण है कि प्रवचनसारमें आचार्य कुन्दकुन्द साधुको आगमचक्षु स्वीकार करते हुए (२३४) कहते हैं कि नाना प्रकारके गुण-पर्यायोंसे युक्त जितने भी पदार्थ हैं वे सब आगमसिद्ध हैं, ऐसा जो जानते हैं और अनुभवते हैं वस्तुतः वे ही साधुपदसे अलंकृत सच्चे साधु हैं (२३५)। कारण कि जिनकी आगमके अनुसार जीवादि पदार्थोंमें श्रद्धा नहीं है वे बाह्यमें साधु होकर भी सिद्धिको प्राप्त करनेके अधिकारी नहीं होते यह स्पष्ट है (२३७)।

मोक्षमार्गमें आगम सर्वोपरि है। उसके हार्दको समझे बिना कोई भी संसारी प्राणी मोक्षमार्गके प्रथम सोपानस्वरूप सम्यग्दर्शनको भी प्राप्त नहीं कर सकता। ग्रन्थकारने सम्यग्दर्शनके जिन दस भेदोंका ग्रन्थके प्रारम्भमें उल्लेख किया है उनमेंसे अवगाढ़ सम्यग्दर्शन तो सकल श्रुतधर श्रुतकेवलीके ही होता है। इससे ही उसकी प्रारम्भमें श्रुताधारता स्पष्ट हो जाती है।

१. दाणं पूया मुक्खं सावयधम्मे ण सावया तेण विणा ।

ज्ञाणाज्ज्ञयणं मुक्खं जइधम्मे तं विणा तहा सो वि ॥रयण० गा० १०॥

परमावगाढ, सम्यग्दर्शन मुख्यतया केवलीके माना गया है सो वे तो श्रुतके जनक ही हैं। जिससे यह सहज ही ध्वनित होता है कि जो श्रुतके अध्ययन, मननपूर्वक सम्यग्दर्शनको प्राप्त करता है वही उसका समग्रभावसे उपदेष्टा हो सकता है। अब रहे सम्यग्दर्शनके शेष आठ भेद सो उनकी प्राप्तिके मूलमें भी किसी न किसी रूपमें श्रुतके अभ्यासकी सर्वोपरिता स्वीकार की गई है। वह भी स्वयं नहीं, किन्तु पूरी तरह आम्नायके ज्ञाता गुरुकी सन्निधिपूर्वक ही स्वीकार की गई है। समग्र आगमपर दृष्टिपात करनेसे यही तथ्य फलित होता है(११-१४)।

१०. मोक्षमार्गका गुरु कैसा होता है

आगममें मोक्षमार्गका गुरु कैसा होना चाहिये इसका स्पष्टरूपसे निर्देश करते हुए रत्नकरण्डश्रावकाचारमें लिखा है कि जिसमें अणुमात्र भी विषय-सम्बन्धी आशा नहीं पाई जाती, जो आरम्भ और परिग्रहसे रहित है तथा जो ज्ञान, ध्यान और तपमें लीन है, मोक्षमार्गमें उसे ही गुरु माना गया है (४)। यद्यपि इस ग्रन्थमें गुरुका सीधा लक्षण तो दृष्टिगोचर नहीं होता। पर इसमें यत्तिपतिमें सम्यक् श्रुतका अभ्यास, निर्दोष वृत्ति, पर प्रतिबोधन करनेमें प्रवीणता, मोक्षमार्गका प्रवर्तन, ईर्षारहित वृत्ति, भिक्षावृत्तिमें दीनताका अभाव और लोकज्ञता आदि जिन गुणोंका विधान किया गया है (६) उससे मोक्षमार्गका गुरु कैसा होना चाहिये यह स्पष्ट ज्ञात हो जाता है। आगे (६६-६७) पद्योंमें जिन विशेषताओंका निर्देश किया गया है उनपर दृष्टिपात करनेसे भी उक्त तथ्यका ही समर्थन होता है। इतना अवश्य है कि शिष्योंकी सम्हाल करनेमें उसे प्रमादी नहीं होना चाहिए (१४१-१४२)। और न स्नेहालु या शिष्योंके दोषोंके प्रति दुर्लक्ष्य करनेवाला होना चाहिये।

यह मोक्षमार्गके गुरुका संक्षेपमें स्वरूप निर्देश है। यह हो सकता है कि क्वचित्, कदाचित् उसमें मूलगुणोंके पालनमें या उत्तरगुणोंका समग्रभाव से परिशीलन करनेमें कुछ कमी देखी जाय या शरीर संस्कार आदि रूप प्रवृत्ति भी दृष्टिगोचर हो तो भी इतनेमात्रसे उसका मुनिपद सर्वथा खण्डित नहीं हो जाता। यही कारण है कि नैगमादिनयोंकी अपेक्षा तत्त्वार्थसूत्रमें पुलाक, वकुश और कुशील इन तीन प्रकारके मुनियोंको भी निग्रन्थरूपमें स्वीकार किया गया है।

यहाँ यह कहा जा सकता है कि जिन मुनियोंमें मूलगुणों और उत्तर-गुणोंमें कमी देखी जाय उन्हें मुनि मानना कहाँ तक उचित है। प्रश्न

मौलिक है और पुराना भी । ग्रन्थकारने तो इस विषयकी विशेष चर्चा नहीं की । मात्र इतना ही लिखा है कि जैसे मृगगण हिंस्र प्राणियोंके भयवश रात्रिमें नगरके समीप आ जाते हैं वैसे ही इस कालमें खेद है कि मुनिजन भी भयवश रात्रिमें नगरके समीप आ जाते हैं ।^१ किन्तु इस विषयकी विशेष चर्चा सोमदेवसूरि और पं० आशाधरजीने विशेषरूपसे की है । ग्यारहवीं शताब्दिके विद्वान् सोमदेवसूरि लिखते हैं कि जिस प्रकार जिनेन्द्रदेवकी लेपादिसे युक्त जितप्रतिमा पूजी जाती है वैसे ही पूर्वकालके मुनियोंकी छाया मानकर वर्तमानकालके मुनि पूज्य हैं । मुनियोंको मात्र भोजन ही तो देना है, इसमें वे सन्त हैं कि असन्त इसकी क्या परीक्षा करनी ।^२ १३ वीं शताब्दिके विद्वान् पं० आशाधरजी भी इसी मतके जान पड़ते हैं । वे भी इसी बातका समर्थन करते हुए लिखते हैं कि 'जिस प्रकार प्रतिमाओंमें जिनदेवकी स्थापना की जाती है उसी प्रकार पूर्वकालीन मुनियोंकी इस कालके मुनियोंमें स्थापनाकर भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिये । अधिक खोद-विनोद करनेमें कोई लाभ नहीं ।'^३

इस प्रकार हम देखते हैं कि मुनियोंके आचार सम्बन्धी यह प्रश्न उत्तरोत्तर जटिल होता गया है । वर्तमानमें जो मुनि हैं उन्हें हम मुनि न मानें और मनमें वर्तमान मुनियोंमें पिछले मुनियोंकी स्थापनाकर बाह्यमें उनकी पूजा करें, आहार दें, उनका उपदेश सुनें ऐसा करना कहाँ तक उचित है ? इस विषयपर समर्थ आचार्योंके वचनोंसे कुछ प्रकाश पड़ता है या नहीं यह हमें देखना है ।

तत्त्वार्थसूत्रके अनुसार निर्ग्रन्थोंके उत्तर भेदों पर विशद प्रकाश डालते हुए मूलगुण आदिकी अपेक्षा कमीवाले मुनियोंके विषयमें तत्त्वार्थवार्तिकमें जो कुछ कहा गया है उसे यहाँ हम शंका-समाधानके रूपमें अविकल दे देना चाहते हैं । यथा—

शंका—जैसे गृहस्थ चारित्रिके भेदसे निर्ग्रन्थ नहीं कहलाता वैसे ही पुलाकादिकमें भी चारित्रिका भेद होनेसे निर्ग्रन्थपना नहीं बन सकता ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि जैसे चारित्र और अध्ययन आदिका भेद होनेपर भी जातिसे वे सब ब्राह्मण कहलाते हैं वैसे ही पुलाकादिक भी निर्ग्रन्थ कहलाते हैं ।

१. इतस्ततश्च त्रस्यन्तो विभावयां यथा मृगाः ।

वनाद्विशन्त्युपग्रामं कलौ कष्टं तपस्विनः ॥१९७॥

२. यशस्तिलकचम्पू, उत्तरखण्ड, ४०५ ।

३. सागारधर्माभूत अ० २ श्लो० ६४ ।

इसके कारणका निर्देश करते हुए वहाँ बतलाया है कि 'यद्यपि निश्चयनयकी अपेक्षा गुणहीनोंमें उक्त संज्ञाकी प्रवृत्ति नहीं होती, परन्तु संग्रह और व्यवहारनयकी अपेक्षा निर्ग्रन्थके समस्त भेदोंका उसमें संग्रह हो जाता है। इसका विशेष खुलासा करते हुए वहाँ पुनः लिखा है कि बात यह है कि उक्त पुलाक, वकुश और कुशील इनमें वस्त्र, आभूषण और आयुध आदि नहीं पाये जाते। मात्र सम्यग्दर्शन और निर्ग्रन्थ रूपकी समानता देखकर ही उन्हें निर्ग्रन्थ स्वीकर किया गया है।

शंका—इस पर पुनः शंका हुई कि जिन्होंने ब्रतोंको भंग किया है ऐसे व्यक्तियोंमें भी यदि निर्ग्रन्थ शब्दका प्रयोग करते हैं तो श्रावकोंको भी निर्ग्रन्थ कहना चाहिए ?

समाधान—श्रावकोंमें निर्ग्रन्थ रूपका अभाव है, इस कारण उनमें निर्ग्रन्थ शब्दकी प्रवृत्ति नहीं होती। हमें तो निर्ग्रन्थ रूप प्रमाण है।

शंका—यदि आपको निर्ग्रन्थ रूप प्रमाण है तो अन्य जो उस रूपवाले हैं उनमें निर्ग्रन्थपनेकी प्राप्ति होती है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि उनमें सम्यग्दर्शन नहीं पाया जाता, इसलिए उन्हें निर्ग्रन्थ नहीं माना जा सकता। किन्तु जिनमें सम्यग्दर्शनके साथ नग्नता दिखाई देती है उनमें निर्ग्रन्थ व्यवहार करना उचित है। केवल नग्नता देखकर निर्ग्रन्थ व्यवहार करना उचित नहीं।

श्लोकवार्तिककारका भी यही अभिप्राय है।

इन दोनों समर्थ आचार्योंका यह अभिप्राय उस प्रकाशस्तम्भके समान है जो विशाल और गहरे समुद्रमें प्रकाश और मार्गदर्शन दोनोंका काम करता है। इस समय मुनि, आर्यिका, श्रावक और श्राविका सबके लिए इस मंगलमय अभिप्रायके अनुसार चलनेकी बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि इस अभिप्रायके मूलमें सम्यग्दर्शन मुख्य है। वह आत्मधर्मका आधार स्तम्भ है। इसमें यही तो कहा गया है कि क्वचित् कदाचित् बाह्य चारित्र्यमें परिस्थिति वश यदि किसी प्रकार की कमी आ भी जाय तो उतनी हानि नहीं, जितनी कि सम्यग्दर्शनसे च्युत होनेपर इस जीवको उठानी पड़ती है। इसी बातको ध्यानमें रखकर आचार्य कुन्दकुन्द दर्शनप्राभृतमें कहते हैं—

दंसणभट्टा भट्ठा दंसणभट्ठस्स णत्थि णिव्वाणं ।

सिज्झंति चरियभट्ठा दंसणभट्ठा ण सिज्झंति ॥३॥

इसका अर्थ करते हुए पण्डितप्रवर जयचन्दजी छावड़ा लिखते हैं—
जो पुरुष दर्शनसे भ्रष्ट हैं वे भ्रष्ट हैं, जो दर्शनसे भ्रष्ट हैं उनको निर्वाण

नहीं होता, क्योंकि यह प्रसिद्ध है कि जो चारित्र्य भ्रष्ट हैं वे तो सिद्धिको प्राप्त हो जाते हैं, परन्तु जो दर्शनभ्रष्ट हैं वे सिद्धिको प्राप्त नहीं होते ॥३॥

इसी बातको भावार्थमें स्पष्ट करते हुए वे पुनः कहते हैं—जैसे वृक्षकी शाखा आदि कट जाये और जड़ बनी रहे तो शाखा आदि शीघ्र ही पुनः उग आयेंगे और फल लगेंगे, किन्तु जड़ उखड़ जानेपर शाखा आदि कैसे होंगे ? इसी प्रकार धर्मका मूल दर्शन जानना ॥३॥

यह सब शास्त्रोंका निचोड़ है। जीवनमें जिनागमके अनुसार अनेक प्रकारके जीवाजीवादि पदार्थोंके सम्यक् निर्णय पूर्वक हेय-उपादेयका जानना ही सम्यग्दृष्टिका लक्षण है^१। इसके होनेपर व्रत, संयम नियमका आचरण करना ही इष्ट फलको देनेवाला होता है, अन्यथा वे न होनेके समान है, क्योंकि केवल उनके होनेसे संसारका छेद नहीं होता।

इस पूरे कथनका सार यह है कि कदाचित् दूसरेकी बलजवरीसे पाँच मूलगुणों और रात्रि भोजन त्यागरूप व्रतमें दोष लग जाय या क्वचित् कदाचित् उपकरण और शरीरके संस्कार आदिका परिणाम हो जाय या कदाचित् किसी साधुके उत्तरगुणोंमें विराधना हो जाय तो भी उसके द्रव्यालिंगकी अपेक्षा इस प्रकारकी विविधता होनेपर भी वह साधुपदसे च्युत नहीं होता। ऐसा होनेपर भी उसके संयमस्थानोंसे सर्वथा पतन नहीं होता। जघन्यादिके भेदसे उसके संयमस्थान बने रहते हैं^२। यही कारण है कि आगममें ऐसे मुनियोंको भी स्वीकार कर उनकी गुरु पदपर प्रतिष्ठा की गई है। स्वपक्षके समर्थनमें यह दो आचार्योंका अभिप्राय है जो अनुकरणीय है।

११. मुनिपदके अयोग्य आचारका निषेध

किन्तु लोकमें ऐसे मुनियोंकी कमी नहीं जो गुरुपर्व क्रमसे प्राप्त आगमकी अवहेलना कर उत्सूत्र आचरण करनेमें हिचकिचाहटका अनुभव नहीं करते। ऐसे मुनियोंको ध्यानमें रखकर ग्रन्थकारने ये उद्गार प्रकट किये हैं कि ग्रहण किये गये तपको स्त्रियोंके कटाक्षरूपी लुटेरों द्वारा यदि लूट लिया जाता है तो जन्म परम्पराको बढ़ानेवाले उस तपकी अपेक्षा गृहस्थ होकर जीवन यापन करना ही श्रेष्ठ है (१९८)। वे इतना ही कह कर नहीं रह जाते। वे पुनः उसे समझाते हुए कहते हैं कि साधो ! यह

१. सूत्रपाहुड गा० ५ ।

२. तत्त्वार्थवार्तिक अ० ९ सू० ४७ ।

शरीर और स्त्री दोनों एक डग भी निश्चयसे तेरे साथ जानेवाले नहीं हैं। इनमें अनुराग कर तू धोखा खा रहा है। इस शरीरसे जो तूने गाढ़ स्नेह कर रखा है और इस कारण विषयोंमें अपनेको उलझा रखा है उसे छोड़, इसीमें तेरा कल्याण है (१९९)। हम यह जानते हैं कि सर्वथा भिन्न दो पदार्थ मिलकर एक नहीं हो सकते। फिर भी तू पूर्वोपाजित किसी कर्मके अधीन होकर इन शरीर आदि पर पदार्थोंमें अभेद बुद्धि करके तन्मय हो रहा है। पर वास्तवमें वे तुझ स्वरूप हैं नहीं। फिर भी तू उनमें ममत्व-बुद्धि करके इस संसाररूपी वनमें छेदे-भेदे जानेकी चिन्ता न करके भटक रहा है (२००)। विचार कर यदि तू देखेगा तो यह निश्चय करनेमें देर नहीं लगेगी कि ये माता-पिता और कुटुम्बीजन तेरे कोई नहीं हैं। इनका सम्बन्ध शरीर तक ही सीमित है। अतः शरीर सहित इनमें अनुराग करनेसे क्या लाभ ? उसे छोड़।

परमार्थसे देखा जाय तो तू कर्मादि पर वस्तुके सम्बन्धसे रहित होनेके कारण शुद्ध है, ज्ञेयरूप समस्त विषयोंका ज्ञाता है तथा रूप-रसादिसे रहित ज्ञानमूर्ति है। यह तेरा सहज स्वरूप है। फिर भी इस शरीरमें अनुरागवश तू इस द्वारा अपवित्र किया जा रहा है। सो ठीक ही है, कारण कि यह अपवित्र जड़ शरीर लोकमें ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे अपवित्र नहीं करता (२०२), अतः इस शरीरके स्वभावको हेय जानकर उसमें साहसपूर्वक मूर्च्छाको छोड़ देना यही तेरा प्रधान कर्तव्य है। यह मोह बीजके समान है। बीजसे ही वृक्षकी जड़ और अंकुर उत्पन्न होते हैं। मोहकाभी वही काम है। राग-द्वेषकी उत्पत्तिका मूल कारण यह मोह ही है। एकबार पर पदार्थोंमें अहंबुद्धिका त्याग हो जानेपर राग-द्वेष स्वयं काल पा कर विलयको प्राप्त हो जाते हैं (१८१)।

इन्द्रियाँ पाँच हैं—स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र। उनमें स्पर्शन और रसना ये दो इन्द्रियाँ सबसे प्रबल हैं। कदाचित् शेष इन्द्रियोंके विषयोंसे यह विरक्त भी हो जाय, पर इन दो इन्द्रियोंके विषयसे विरक्त होना आसान नहीं है। हमने देखा है कि साधु इष्ट और गरिष्ठ भोजन लेता है तो भी वह उतना अपवादका पात्र नहीं होता जितना कि स्पर्शन-जन्य दोषके कारण उसे न केवल अपवादका पात्र होना पड़ता है, अपितु लोकमें उसकी प्रताड़ना भी की जाती है। यही कारण है कि इस ग्रन्थमें स्त्रीके दोष दिखा कर साधुको किसी भी प्रकारसे स्त्री सम्पर्कसे दूर रहनेकी शिक्षा पद-पदपर दी गई है। और कहा गया है कि मन तो

नपुंसक है। वह विषयका उपभोग क्या करेगा। उसमें यह सामर्थ्य ही नहीं (१३७)।

यद्यपि हम यह जानते हैं कि प्राचीन कालमें भी ऐसे पण्डित और साधु होते रहे हैं जिन्होंने अपने मलिन चारित्र्य द्वारा निर्मल जैनमार्गको मलिन करनेमें कोई कोर-कसर नहीं रख छोड़ी^१। मूलाचारमें ऐसे साधुओंको पाँच प्रकारका बतलाया गया है। उनके नाम हैं—पार्श्वस्थ, कुशील, संसक्त, अपगतसंज्ञ और मृगचरित्र। वहाँ इन्हें संघ बाह्य कह कर इनकी वन्दना करनेका भी निषेध किया गया है^२। लिंगपाहुडमें भी आचार्य कुन्दकुन्दने ऐसे मुनियोंको मुनिपदके अयोग्य कहा है^३। अतः समग्र ग्रन्थका सार यह है कि साधु जैसे ऊँचे पदको ग्रहण कर हर प्रकारसे उसकी संभाल करनी चाहिये। बालक तो पालना आदिसे गिरनेसे डरता है, फिर साधु संयम जैसे महान् पदका अधिकारी होकर भी उससे गिरनेमें भय न करे यह आश्चर्यकी बात है^४।

१२. अन्तिम निवेदन

यह लघुकाय ग्रन्थ होनेपर भी विषयकी दृष्टिसे सर्वांगपूर्ण है। इसमें न केवल मोक्षमार्गकी प्ररूपणा द्रष्टिगोचर होती है अपि तु 'बिन जानेतैं दोष गुणनको कैसे तजिये गहिये।' इस नीतिके अनुसार इसमें बन्धमार्ग और उसके फलको भी दिखलाया गया है। जीवका पराश्रित परिणाम ही बन्धमार्ग है और जीवका स्वाश्रित परिणाम ही मोक्षमार्ग है यह वस्तुस्थिति है। ऐसा होते हुए भी चाहे बन्धमार्ग हो या मोक्षमार्ग हो, दोनोंमें बाह्य और इतर सामग्रीकी समग्रता रहती ही है। उसके होनेमें बाधा नहीं आती, क्योंकि प्रत्येक समयमें जो भी पर्याय होती है वह स्वभावदृष्टि से स्वयं होकर भी कार्य-कारणकी दृष्टिसे स्व और परके निमित्तसे ही होती है यह नियम है। जिनागम भी यही है। फरक मात्र दृष्टिका है। परसे मेरा भला-बुरा होता है यदि ऐसी दृष्टिवाला है तो वह अज्ञानी है, मिथ्यादृष्टि है और यदि मेरा भला-बुरा करनेवाला मैं स्वयं हूँ, पर तो निमित्तमात्र है ऐसी दृष्टिवाला है तो वह या तो ज्ञानी

१. पण्डितै भ्रष्टचारित्रैः वठरैश्च तपोधनैः ।

शासनं जिनचन्द्रस्य निर्मलं मलिनोक्तम् ॥

२. मूलाचार षडावश्यक अधिकार गा० ९५ ।

३. देखो गाथा १४, १७, २० आदि ।

४. आत्मानुशासन प० १६६ ।

है या ज्ञानमार्गके सन्मुख है। इस ग्रन्थमें सम्यग्दर्शनको प्रमुखता देनेका यही कारण है, ज्ञान, चारित्र और तप उसके अनुबंगी है। उसके बिना ये सब इष्टफलको नहीं फलते। इसका अर्थ यह नहीं कि इनकी उपेक्षा की जाय।

इतना अवश्य है कि ज्ञानमार्गके सन्मुख हुए प्राणीकी अज्ञानभावके साथ विषय-कषायमें अरुचि होनी ही चाहिये। विषय-कषायमें अरुचिका अर्थ है स्त्री, भोजन, भाजन, मकान आदि जो बाह्य पदार्थ हैं उनमें अपने चित्तको नहीं रमाना। इसमें जो पद-पदपर स्त्रियोंमें दोषदर्शनका निर्देश दृष्टिगोचर होता है उसका प्रयोजन स्त्री निन्दासे नहीं है। इसके कर्ता भदन्त गुणभद्रसूरि वीतराग वनवासी सन्त हैं। वे भला ऐसा क्यों करते। उनके सामने तो साधुओंकी किसी प्रकार साधुता बनी रहे, वे रुद्रादिकी तरह उन्मार्गगामी न हो जायें, मात्र इस प्रयोजनसे इस शास्त्रकी रचना की है। इसलिये इसे स्त्री निन्दाकी दृष्टिसे नहीं देखना चाहिये। जान पड़ता है कि शिथिलाचारमें पगे हुए साधु इससे कैसे विरक्त हों इस महान् प्रयोजनको ध्यानमें रखकर ही उन्होंने हितबुद्धिसे लघुकाय इस ग्रन्थकी रचना की है। यह अनेक छन्दोंमें लिखा गया है। उनका विवरण इस प्रकार है—

क्रम	छन्दनाम	संख्या	क्रम	छन्दनाम	संख्या
१	अनुष्टुभ्	१०३	८	पृथ्वी	८
२	शार्दूलविक्रीडित	५७	९	र घरा	६
३	वसन्ततिलका	२६	१०	मन्दाक्रान्ता	३
४	आर्या	२१	११	वंशस्थ	३
५	शिखरिणी	१५	१२	उपेन्द्रवज्रा	१
६	हरिणी	१४	१३	वैतालीय	१
७	मालिनी	९	१४	रथोद्धता	१
			१५	गीति	२

कुल छन्द २७० हैं। इनके अतिरिक्त भाषा टीकामें पं० जी ने अन्य प्राकृत ग्रंथोंसे प्रकृत विषयकी पुष्टिमें ३ गाथाएँ भी उद्धृत की हैं।

इस ग्रंथके लिखते समय यह बहुत सम्भव है कि भर्तृहरिका शतकत्रय ग्रंथकारके सामने रहा हो। तुलनाके लिये देखिये जैन संस्कृति संरक्षक संघ सोलापुरसे प्रकाशित आत्मानुशासन। और भी बहुत सी बातें हैं जिनके कारण उत्कृष्ट काव्यमें इसकी परिगणना की जाती है।

हमें प्रसन्नता है कि वर्णी संस्थानसे इसका प्रकाशन हो रहा है। इसके सम्पादनमें डॉ० फूलचन्द जैन प्रेमी जैनदर्शनविभागाध्यक्ष प्राध्यापक सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी और प्रिय बन्धु पं० हीरालाल जी गंगवाल बी० ए०, एल० एल० बी० इन्दौरका यथासम्भव पूरा सहयोग मिला है इसके लिये हम उक्त दोनों विद्वानोंके हृदयसे आभारी हैं। इसी प्रकार ब्र० नेमिनाथका भी इसमें भरपूर सहयोग मिला है।

मेरा स्वास्थ्य अब उतना अच्छा नहीं रहता। उम्रकी दृष्टिसे भी वैयाख वदी ४ को ही मैं ८३वें वर्षमें प्रवेश कर गया हूँ। फिर भी अपने मित्रोंको और खासकर प्रो० जमुनालालजी इन्दौरको मैंने स्वयं इसकी प्रस्तावना लिख देनेकी स्वीकृति दी थी। तथा मान्य पं० नेमिचन्द जी पाटनी जयपुरने मुझे वर्णी संस्थानसे इस ग्रन्थके प्रकाचित करनेकी छूट दी थी। इतना ही नहीं इसके प्रकाशनमें भाई श्री पं० राजमल्ल जी भोपालका यथासम्भव सहयोग मिला है। इसके लिये मैं इन सबका भी हृदयसे आभारी हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि कतिपय आवश्यक विषयोंको ध्यानमें रखकर मैंने आगम और कालक्रमके अनुसार सन्मार्गमें होनेवाले परिवर्तनको ध्यानमें रखकर संक्षेपमें इसकी प्रस्तावना लिखी है। आशा है विद्वज्जन उसे उसी दृष्टिसे पढ़ेंगे। विज्ञेषु किमधिकम्।

१३. ग्रन्थकर्ता

आत्मानुशासन भदन्त गुणभद्र सूरिकी अमर कृति है। इसमें कुल २७० पद्य हैं। अन्तिम पद्य श्री नाभिसूनु ऋषभ जिनका अन्तिम मंगलाचरणके रूपमें आया है। किन्तु संस्कृत टीकाकारने जिस प्रतिपरसे इस ग्रन्थकी टीका लिखी है, सम्भवतः उस प्रतिमें इस पद्यके नहीं रहनेसे इसपर संस्कृत टीका नहीं लिखी जा सकी। यही कारण है कि वर्तमानमें इसमें कुल २६९ पद्य माने जाते हैं।

२६९वें पद्यमें भदन्त गुणभद्रने अपने नामका उल्लेख कर स्वयंको आचार्य जिनसेनके चरणोंके स्मरणके आधीन चित्तवाला सूचित किया है। लगता है कि इनकी शिक्षा दीक्षा आचार्य जिनसेनके सानिध्यमें ही हुई होगी। क्योंकि यह बात इसलिये भी ठीक प्रतीत होती है, कारण कि आ० जिनसेनके अवशिष्ट रहे महापुराणके कार्यको इन्होंने ही सम्पन्न किया है।

वैसे पं० परमानन्दजीने इन्हें आचार्य जिनसेनके सधर्मा (गुरुभाई) और दशरथ गुरुके शिष्य लिखा है^१। किन्तु डॉ० नेमिचन्दजी शास्त्रीके

१. जैन धर्मका प्राचीन इतिहास द्वि० भा०, पृ० १८२।

अनुसार तो इनके प्रमुख गुरु आचार्य जिनसेन ही थे। इतना अवश्य है कि भदन्त गुणभद्रने आचार्य दशरथको भी अपना गुरु माना है^१। इनका जन्मस्थान दक्षिण आरकट जिलेका 'तिरुम रुडकुण्डम' माना जाता है।

लगता है कि आचार्य जिनसेनके कालमें ही ये साहित्य साधनामें लग गये थे। आचार्य जिनसेनके अधूरे रहे महापुराणको इन्होंने उनके बाद शक सम्वत् ८२० में सम्पन्न किया है। ऐसा उत्तर पुराणकी प्रशस्तिसे ज्ञात होता है, इसलिए बहुत सम्भव है कि उसके बाद ही इन्होंने आत्मानुशासनको मूर्तरूप दिया हो। इनकी तीसरी रचना जिनदत्तचरित काव्य है। इन तीनके अतिरिक्त इनकी और कोई रचना हो ऐसा हमें ज्ञात नहीं होता। आत्मानुशासनकी कथ्यवस्तुके अवलोकनसे ही यह ज्ञात होता है कि ये साहित्य साधनाके साथ ज्ञानाराधनामें भी सतत तल्लीन रहते थे। अन्यथा उनके मुखसे ऐसे उद्गार कभी प्रकट नहीं होते कि 'आत्मा ज्ञान-स्वभाव है और स्वभावकी प्राप्ति ही मोक्ष है। जिसे मोक्षको प्राप्त करनेकी इच्छा है, उसे ज्ञानभावना करनी चाहिये (१७४) ज्ञानभावनाका फल ज्ञान ही है। आदि।

भाषा टीकाकार

इस ग्रंथपर दो टीकाएँ हिन्दीमें लिखी गई हैं और एक टीका संस्कृतमें। संस्कृत टीका पंजिकाके रूपमें लिखी गई है। हिन्दी टीकाओंमें स्व० श्री पं० बंशीधर शा० सोलापुर जी द्वारा लिखित टीका हमारे सामने नहीं है। मात्र श्री पं० बालचन्द्रजी द्वारा लिखी गई और जैन संस्कृति संरक्षक संघ सोलापुर द्वारा प्रकाशित हुई टीका हमारे सामने अवश्य है। यद्यपि यह सर्वांगपूर्ण हैं, फिर भी हमने जिन दो कारणोंसे आचार्यकल्प पं० टोडर-मल्लजो द्वारा लिखित टीकाको वर्णी संस्थानसे प्रकाशित करनेका निर्णय लिया वे हैं—

(१) ढूंढारी बोली भी हिन्दी भाषाका एक उपभेद है। जैसे हम प्राकृत संस्कृत और अपभ्रंश भाषाओंकी सुरक्षाकी ओर पूरा ध्यान देते हैं वैसे ही हमें विविध प्रदेशोंमें बोली जानेवाली इन हिन्दी भाषाके उपभेदोंकी भी सुरक्षा करनी चाहिये। और उनकी सुरक्षाका सर्वोत्तम उपाय है उन बोलियोंमें लिखे गये साहित्यकी सुरक्षा करना तथा प्रकाशमें लाना।

१. तीर्थङ्कर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा ३, पृ० ८।

२. वही पृ० ८।

(२) यह तो आत्मानुशासन पर काम करनेवाले सभी विद्वानोंने स्वीकर किया है कि इस समय हिन्दीमें जितनी भी टीकाएँ प्रचलित हैं वे सब टीकाएँ आ० क० पं० टोडरमल्लजी द्वारा लिखित टीकाके प्रति आभारी हैं ।

इसके प्रकाशनके ये दो कारण तो हैं ही । साथ ही वह सरस और ग्रन्थके हार्दको स्पष्ट करनेवाली भी है । इसमें प्रायः ऐसा एक भी पद्य नहीं है जिसका अर्थ लिखनेके बाद भावार्थ द्वारा उसे स्पष्ट नहीं किया गया हो । मात्र २२० वे पद्यके तीसरे चरणका अर्थ लिखनेमें पण्डित जी मौन रहे आये । उसे उन्होंने स्पर्श नहीं किया । सम्भवतः उस समय उनके विरुद्ध जो वातावरण तैयार हो रहा था उसकी इससे सूचना मिलती जान पड़ती है ।

अपने कालके आगमधर विद्वानोंमें पं० जी सर्वोपरि हैं । जिन मनीषियोंने इन्हें आचार्यकल्प पदसे अलंकृत किया है, वह सोच समझकर ही किया है । यह इन्हींका काम है कि इन्होंने गोम्मटसार जीवकाण्ड, कर्मकाण्ड, लब्धिसार क्षपणासार जैसे गुरुतर ग्रन्थोंको पठनीय बनाया । जैनधर्मके हार्दको स्पष्ट करनेके अभिप्रायसे मोक्षमार्ग प्रकाशक जैसे अपूर्व ग्रन्थकी रचना की । मुलतानके जैनबन्धुओंका समाधान करनेके अभिप्रायसे लोकमें 'रहस्यपूर्ण चिट्ठीके' नामसे प्रसिद्ध चिट्ठी लिखी । त्रिलोकसार, पुरुषार्थसिद्धचुपाय और प्रस्तुत ग्रन्थ आत्मानुशासनकी सुन्दर, सरस और आगमानुकूल टीकाएँ लिखीं । जैसे लोकमें यह प्रसिद्धि है कि भगवद् वाणीके हार्दको स्पष्ट करनेके अभिप्रायसे यदि भगवान् कुन्दकुन्दने समयसार जैसे अध्यात्म ग्रन्थकी रचना न की होती तो आज पूरा विश्व गाढ़ अज्ञानान्धकारमें डूबा होता । वैसे ही यह कहना भी उपयुक्त प्रतीत होता है कि यदि जयपुरने आचार्यकल्प पं० टोडरमल्लको जन्म न दिया होता तो इस कालमें सिद्धान्तके रहस्यको जाननेवाले विद्वानोंका अभाव ही बना रहता । उनके द्वारा किये गये कार्योंको पूर्वाचार्यों द्वारा किये गये कार्योंसे कम नहीं आँका जा सकता । आगममें यह वचन आया है— 'द्रव्यानुसारि चरणं चरणानुसारि द्रव्यम्' उसके हार्दको इस कालमें जिस महानुभावने उद्घाटित किया है वे और कोई नहीं, पंडितप्रवर टोडरमल्लजी ही हैं । उसके लिये हृदयके कपाटको खोलकर मोक्षमार्गप्रकाशकके ७ वें अध्यायका स्वाध्याय करना उतना ही आवश्यक है जितना कि

वर्तमान पर्यायिके संधारण करनेके लिये श्वासोच्छ्वासको लेते रहना आवश्यक है ।

डा० हुकमचन्द्र भारिल्ल जयपुरने 'पण्डित टोडरमल व्यक्तित्व और कृतित्व' नामसे एक शोधप्रबन्ध लिखा है । उससे मालूम पड़ता है कि इनका वास्तव्य काल वि० सं० १७७३-७४ से लेकर १८२३-२४ तक रहा है । अधिकतर समय इनका साहित्य साधनामें ही व्यतीत हुआ है । विशेष जानकारीके लिये डा० भारिल्ल द्वारा लिखित 'पण्डित टोडरमल व्यक्तित्व और कृतित्व' ग्रन्थका अवलोकन करना चाहिये ।

फूलचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री
वाराणसी

दिनांक २५-८-८३

दो शब्द

भारतीय सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, तत्त्वज्ञान एवं विज्ञान जैसे विविध विषयोंकी बहुमूल्य सामग्री प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, देशी तथा दक्षिण भारतीय भाषाओंके विपुल जैन वाङ्मयमें उपलब्ध है। किन्तु इस दिशामें अनुसंधान, प्रकाशन, अन्तरशास्त्रीय अध्ययन एवं सम्पादन की जितनी अपेक्षा है उतना कार्य हो नहीं पा रहा है। इसके लिए आवश्यक है अपने ज्ञानके प्रतीकोंके युगानुकूल सहज एवं व्यावहारिक प्रस्तुति में सक्षम उत्क्रान्त प्रतिभाओं की। हमारे महान् जैनाचार्योंने जीवनके अन्तः और बाह्य इन दोनों पहलुओंको खूब बारीकीसे देखा, समझा तथा अनुभव किया और पर-कल्याणकी भावनासे ओतप्रोत हो वाणी एवं लेखनी द्वारा प्रकट किया। प्रस्तुत कृतिके मूल ग्रन्थकार भदन्त गुणभद्र (नवीं शती) भी इसी परम्पराके आचार्योंमें से एक थे।

प्रस्तुत ग्रन्थ आत्मतत्त्वकी श्रद्धा करानेवाला अनुपम काव्य ग्रन्थ है। वैसे प्रत्येक साहित्य बाह्यरूपमें अपने देश और कालकी सीमासे किसी न किसी रूपमें बँधा होता है। किन्तु उसके अन्तर्जगतमें सामञ्जस्य सर्वकल्याण, आध्यात्मिक-विकास तथा सत्-चित् एवं आनन्दके जो स्थायी तत्त्व निहित रहते हैं वे देश तथा कालातीत होते हैं। सुभाषितमय इस सम्पूर्ण ग्रन्थमें भी काव्योचित विविध दृष्टान्तों, अलंकारों एवं छन्दोंके माध्यमसे जीवन-उत्कर्षके लिए मर्मकी बात सहजरूपमें कही गई है। इस ग्रन्थका प्रत्येक श्लोक अपने आपमें स्वतन्त्र काव्य भी है। इस कृति की यह भी विशेषता है कि अध्यात्म-विद्यासे सम्बन्धित प्रायः सभी विषयों को प्रमुख आधार बनाकर सुभाषितों द्वारा सहृदयोंके कोमलतम अन्तस् को बड़ी सूक्ष्मता एवं कलात्मकतासे छूनेका सफल प्रयास इस ग्रन्थमें हुआ है। मानवोचित गुणोंका पाथेय जुटाने, उसे दिग्भ्रमित होनेसे बचाने तथा सही मार्गदर्शन करते रहनेकी प्रशस्त पृष्ठभूमिके सूत्र इस ग्रन्थके प्राण हैं। जीवन-उत्कर्षकी ये अनुभूत प्रणालियाँ मुमुक्षु जीवको शान्ति और आनन्द प्रदान करती हैं। यही कारण है कि यह ग्रन्थ आरम्भसे ही सभीके आकर्षणका केन्द्र रहा है। इसी महत्तासे प्रभावित हो कुछ आचार्यों एवं विद्वानोंने इस ग्रन्थ पर व्याख्या लिखकर अपनी लेखनीको सार्थक बनाया है।

इस ग्रन्थकी विविध विशेषताओंसे प्रभावित हो पण्डित टोडर-मलजी (१८वीं शती)ने देशभाषामें इसका सरल अनुवाद किया। यह

अनुवाद मिश्रित प्राचीन हिन्दी भाषाका सुन्दर उदाहरण है, जिसमें राजस्थानके हूंदार प्रदेशकी हूंदारी भाषा, ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली का पुट है। आज भी देशके कोने-कोनेमें स्थित जैन मंदिरोंमें नियमित रूप से चलनेवाले प्रवचन, स्वाध्याय एवं तत्त्व चर्चाओं आदिमें इस भाषाके शास्त्र भी बड़ी रुचिके साथ पढ़े जाते हैं। इस दृष्टिसे इस भाषाका अपना माधुर्य और वैशिष्ट्य है। पं० टोडरमलजीके लेखनका प्रमुख उद्देश्य उच्च आध्यात्मिक एवं सैद्धान्तिक ज्ञानको प्रचलित देश-भाषामें सरल ढंगसे प्रस्तुत करना था। गहरेसे गहरे तथ्योंको भी बड़ी ही सहज रीतिमें व्यक्त करनेकी उनकी विशेषता है। क्योंकि किसी कविके अन्तर्मनको पूरी तरह समझकर उसकी भावग्राही व्याख्या करना भी अपने-आपमें काफी कठिन कार्य है, किन्तु अद्भुत प्रतिभा और विविध शास्त्रोंके तलस्पर्शी ज्ञानके धनी पं० टोडरमलजी इस गुरुतर दायित्वके निर्वाहमें खरे उतरे तथा मूल रचयिताके परे भावोंको समीचीन रूपमें प्रस्तुतकर इस ग्रन्थमें अन्तर्निहित विशेषताओंकी पूरी तरह प्रकाशन किया है।

प्रस्तुत ग्रन्थके मार्गदर्शन तथा सम्पादनका प्रमुख कार्य जैन सिद्धान्त के मर्मज्ञ विद्वान् सिद्धान्ताचार्य पण्डित फूलचन्द्रजी शास्त्री द्वारा सम्पन्न हुआ है। सम्पादकीय वक्तव्यमें आपने जैन तत्त्वज्ञानसे सम्बन्धित जिन विषयोंपर जिस गहनता, प्रामाणिकता एवं आधिकारिक रूपमें लिखा, उसका अपना स्वतन्त्र महत्त्व है। वस्तुतः आदरणीय पण्डितजीका सम्पूर्ण जीवन ही एक जीवट व्यक्तित्वके रूपमें हमारे सामने है। जैन धर्म-दर्शन एवं सिद्धान्तसे सम्बन्धित ग्रन्थोंके अध्ययन, मनन, चिन्तन, सम्पादन, अनुवाद, स्वतंत्र लेखन तथा प्रवचन आदि प्रवृत्तियोंसे उनका जीवन ओत-प्रोत है। इन्हीं प्रवृत्तियोंके द्वारा जैन धर्म-दर्शन और उनके साहित्यका संवर्धन, संरक्षण तथा प्रचार-प्रसार ही सम्पूर्ण जीवनका एकमात्र ध्येय बनाकर चलनेवाले ऐसे विद्वान् विरले होते हैं।

मुझे श्रद्धेय पण्डितजी जैसे गरिमामण्डित वयोवृद्ध विद्वान्के सानिध्य में उन्हींके निर्देशसे इस ग्रन्थके सम्पादनमें सहयोग करने एवं बहुत कुछ सीखने-समझनेका जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसे मैं परम गौरवकी वस्तु मानता हुआ आनन्दका अनुभव कर रहा हूँ।

डॉ० फूलचन्द्र जैन प्रेमी

अध्यक्ष

जैन दर्शन विभाग,

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय,

वाराणसी

रक्षाबन्धन पर्व

दिनांक २३-८-१९८३.

विषय सूची

मंगलाचरणपूर्वक आत्मानुशासन के कथनकी प्रतिज्ञा	१
पापहारी सुखकारी शिक्षा देनेकी सूचना	२
उक्त शिक्षासे भयभीत न होने की प्रेरणा	३
यथार्थ उपदेशकोंकी दुर्लभता	४
गणी वक्ताका स्वरूप	५-६
अधिकारी श्रोताका स्वरूप	७
पाप-पुण्यके त्यागपूर्वक धर्माचरणकी प्रेरणा	८
धर्मादिमें उत्तरोत्तर कारणता के निर्देशपूर्वक आप्तकी उपासनाकी शिक्षा	९
मूढतारहित सम्यग्दर्शन और उसके भेद-प्रभेद	१०
सम्यग्दर्शनके दश भेदोंके नामों के साथ उनका स्वरूप कथन	११-१५
सम्यग्दर्शनके कारण शमादिककी पूज्यताका निर्देश	१५
इष्ट प्रयोजनकी सिद्धिके लिये सुकुमार क्रिया करनेकी सूचना	१६-१७
धर्म जीवनका आवश्यक अंग है इसकी सिद्धि	१८-२१
सर्वत्र धर्मकी उपादेयता	२२
पुण्य और पापमें सर्वत्र आत्मपरिणाम ही मुख्य कारण हैं	२३
धर्मको भूलना वृक्षकी जड़ उखाड़कर उसके फल भोगनेके समान है	२४
धर्मकी उपयोगिताके साथ उसके बिना होनेवाला दुष्परिणाम	२५-२६
धर्मको भूलना ही पापका कारण है, सुखानुभव नहीं	२७
धर्माचरण ही सुखप्रद, पाप कार्य नहीं	२८-२९
धर्म और यश आदि प्रयोजनको ध्यानमें रखकर परनिन्दा आदि करनेका निषेध	३०
सोदाहरण पुण्य करनेकी प्रेरणा	३१
इन्द्रके उदाहरणद्वारा जीवनमें दैवकी मुख्यताकी सिद्धि	३२
पृथिवी आदिके उदाहरणद्वारा आप्त ही निःस्वार्थ जीवनयापन करने-वाले सत्पुरुष हैं उसका उल्लेख	३३
इन्द्रियसुखकी अनुपादेयताकी सकारण सिद्धि	३४-३९
परिव्राजकके लांडूके उदाहरणको जानकर विषयसेवनसे हँसीका पात्र बनना उचित नहीं	४०

अन्धेके रस्सी चलने तथा हाथीके स्नान करनेके समान गृहस्थाश्रम- की व्यर्थताका समर्थन	४१
सोदाहरण आशाग्रहके निग्रह करनेपर ही सुखकी प्राप्तिका निर्देश	४२
तृष्णायुक्त सुख सुखाभास ही है	४३
उदाहरणद्वारा दैवकी लीलाका समर्थन	४४
नदीके उदाहरणद्वारा न्यायपूर्वक धनसे सम्पत्ति नहीं बढ़नेका समर्थन	४५
यथार्थ धर्म, सुख, ज्ञान और गतिका निर्देश	४६
वर्तमान कष्टकी अपेक्षा परलोकके लिये कष्ट सहना हितकर	४७
आन्तरिक शान्तिके लिये राग-द्वेषका परिहार करना आवश्यक	४८
यही तृष्णा नदीके पार होनेका उपाय	४९
पुनः पुनः भोगे गये भोगोंको भोगकर भी तृष्णा शान्तिके बिना आन्तरिक शान्ति असम्भव	५०
भावी जीवनकी चिन्ता किये बिना कामी पुरुष क्या क्या निन्द्य कार्य नहीं करता	५१
नश्वर विषयोंको आँख खोलकर देखनेका निर्देश	५२
अतीत दुःखोंको भले ही भूल जाय, वर्तमान दुःख और उनके कारणोंका तो स्मरणकर, उनकी प्राप्तिमें कितना कष्ट है	५३
अपनी स्थिति समझे बिना ही यह प्राणी विषयाभिलाषा क्यों करता है	५४
कीचड़में फसे हुए प्यासे बैलके समान तृष्णाकी वृद्धि केवल संक्लेश- का कारण होती है	५५
ईंधनके बिना अग्निके समान विषयोंके बिना भी तृष्णाका शान्त होना असम्भव	५६
मोहनिद्राके वशीभूत हुए प्राणीकी दशा	५७-५८
बन्दीगृहके समान शरीरमें प्रीति करना व्यर्थ है	५९
न कोई शरण है और न कोई मित्र इत्यादि जानकर प्रमादके बिना धर्मका सेवन करना ही श्रेयस्कर	६०-६१
दीपककी शिखाके समान नष्ट होनेवाले भोगोंकी आशा करना व्यर्थ	६२
अग्निसे वेष्टित एरंडमें फसे हुए कीड़ेके समान शरीरमें फसकर तू व्यर्थ दुःख भोग रहा है	६३
इन्द्रियोंके दास होनेकी अपेक्षा तू ही उन्हें दास बनाकर शाश्वत सुखकी उपासनामें लग	६४
संसारमें धनी व निर्धन कोई भी सुखी नहीं है	६५
स्वाधीन सुखके कारण तपस्वियोंकी प्रशंसा	६६-६८

पतन होनेवाले शरीरमें अपना आग्रह रखना व्यर्थ है	६९
इससे अनिश्चर पदकी प्राप्ति सम्भव	७०
दुर्बुद्धिजनोंका लक्षण	७१-७२
जीवन-मरणका लक्षण	७३
उससे संसारी जीवकी रक्षा होना सम्भव नहीं	७४-७५
संसारमें विधिसे बलवान् कोई नहीं, वही सब कुछ	७६-७८
मृत्युसे रहित स्थानादिमें जीवोंका रहना योग्य	७९
स्त्रीका शरीर प्रीतिके योग्य नहीं	८०
काने गन्नेके समान मनुष्य शरीरको जानकर उसे धर्मका साधन बना सारभूत करनेका निर्देश	८१
मरनेकी शंका और जीनेकी आशाके साथ कितने कालतक यह जीव इस शरीरमें टिक सकता है	८२
बन्धुजनोंको आत्महितमें सहकारी मानना व्यर्थ	८३-८४
धनरूपी ईधनसे तृष्णारूपी अग्निके भड़कनेपर भी अज्ञानी जीव इसमें शान्ति मानता है	८५
वृद्धावस्थामें धवल बालोंके मिससे मानों बुद्धिकी शुद्धि ही निकल रही है, अतः विचारा परलोकके हितमें कैसे विचार कर सकता है	८६
संसारमें पड़े हुए जीवको मोहरूप मगर-मच्छसे संरक्षण मिलना कठिन है	८७
घोर तपश्चरणका उदाहरणपूर्वक निर्देश	८८
बालपन आदि तीनों पनोंकी वृत्तिमें धर्मासाधनके क्षण कम	८९-९१
विषयी प्राणीकी प्रवृत्तिमें 'परिचितेष्ववज्ञा' का कोई मतलब नहीं	९२
भ्रमरके समान व्यसनीकी दशा होती है	९३
सुबुद्धिको पाकर प्रमाद करना अविवेकका लक्षण है	९४
धर्मकी उपेक्षाकर धनीके पीछे लगना योग्य नहीं	९५
कृष्णराजके भाण्डागारके तुल्य धर्मका स्वरूप सबको गम्य नहीं	९६
शरीरको आपदाका स्थान बता यतिजन सबको संसारसे विरक्त करते हैं	९७-९८
गर्भ और जन्मके दुःखसे डरकर प्राणी मरणसे भय करता है	९९
इस प्राणीकी अजाकृपाणीय और सुखके लिये अन्धकवर्तकीयकी सी दशा हो रही है	१००

अपनेको ज्ञानी पण्डित माननेवाले भी कामके परवश हैं,	१०१
दाताके तीन प्रकार	१०२
विरक्तके परिग्रहत्यागमें उदाहरण	१०३
परिग्रहके त्यागमें अज्ञानी, पुरुषार्थी और ज्ञानीकी वृत्ति	१०४
विवेकी शरीरादिको त्यजने योग्य अनुभवते हैं	१०५
अज्ञान आदिकी प्रवृत्तिका और विरक्तिका फलनिरूपण	१०६
दया-दान आदिमें प्रवृत्त होनेका फल परम पद	१०७
कुटीप्रवेशके फलके समान परिग्रह त्यागका फल मोक्ष	१०८
कौमार ब्रह्मचारी कौन यह जानकर उसे प्रणाम करनेकी शिक्षा	१०९
योगिगम्य परमात्मा बननेके रहस्यका कथन	११०
मनुष्य पर्यायकी अस्थिरता जानकर इस पर्यायमें तपद्वारा मोक्ष	
प्राप्ति सम्भव है, अतः तप करनेकी प्रेरणा	१११
परमार्थसे समाधिमें कष्टका लेश नहीं	११२
अन्य सबकी हेयता जान तपकी उपादेयताका कथन	११३
अनादि रागादिको जीतनेमें समर्थ तापसंहारक तपमें रमनेकी शिक्षा	११४
समाधिसे वर्तमान पर्यायको सार्थक करनेवाले सन्यासीकी प्रशंसा	११५
वैराग्य और तपके कारणभूत ज्ञानकी महिमा	११६-११७
विधिका विलास अलंध्य है इसका आदि जिनके उदाहरणद्वारा	
समर्थन	११८-११९
संयमी दीपकके समान कर्मरूपी कज्जलका वमन करता है	१२०-१२१
आगमज्ञानसे अशुभसे शुभरूप होकर शुद्ध होता है, उदाहरणद्वारा	
इसका समर्थन	१२२
श्रुतनिमित्तक राग भी प्रभातके संध्यारागके समान अभ्युदयका	
कारण है	१२३
उदाहरणद्वारा अधोगतिके कारण रागका निषेध	१२४
जो मार्गमें सामग्री लगती है मोक्षके पथिकके पास वह सब है, अतः	
उसे मोक्ष प्राप्त करना कठिन नहीं	१२५
स्त्रीविषयक राग मोक्षमार्गमें बाधक है इसका सोदाहरण सकारण	
निर्देश	१२६-१२६
शब्दशास्त्रकी दृष्टिसे नपुंसक मनकी बलवत्ता	१२७
राज्यकी अपेक्षा तप क्यों पूज्य है, इसका निर्देश	१२८
स्थानभ्रष्ट पुष्पके समान गुणक्षति लघुताका कारण	१२९

चन्द्रमाके लांछनके समान एक भी दोष निन्दाका कारण होता है	१४०
दोषोंको आच्छादित करनेवाले गुरुकी अपेक्षा दोषदर्शी दुर्जन ही गुरु है	१४१
कठोर गुरुकृतियाँ भव्यकै मनको आह्लादित करनेवाली होती हैं—	१४२
इस समय सच्चे धर्मोपदेष्टा तो दुर्लभ हैं ही, उसे कहने और सुनने वाले भी दुर्लभ हैं	१४३
किसके द्वारा की गई निन्दा प्रीतिकर और किसके द्वारा की गई स्तुति अप्रीतिकर होती है इस बातका निर्देश	१४४
ग्रहण किसे करना और त्यागना किसे इसका निर्णय	१४५
कौन हितको और कौन अहितको करनेवाले होते हैं	१४६
गुण-दोष और उनके कारणोंको जाननेवाला ही विद्वान् है	१४७
बुद्धिमान् और निर्बुद्धिमें सकारण अन्तरका निर्देश	१४८
इस समय समीचीन आचरण करनेवाले विरल हैं	१४९
वेषधारी साधुओंके संसर्गसे दूर रहनेकी शिक्षा	१५०
साधु अप्रार्थ्य वृत्ति होता है, उसका याचना करना व्यर्थ है	१५१
अविवेकी दीन और अभिमानीको देखे बिना ही परमाणु सबसे छोटा और आकाशको सबसे बड़ा कहता है	१५२
तराजूके उदाहरणद्वारा याचक और अयाचकमें भेदका समर्थन	१५३-१५४
धनीसे निर्धनपना क्यों श्रेष्ठ है इसका समर्थन	१५५
मानधन आशारूपी खानको भर देता है	१५६-१५७
आहार ग्रहणमें लज्जाशील साधु परिग्रहको ग्रहण कैसे कर सकता है	१५८
साधुका रागद्वेषके वश होना कलिका ही प्रभाव है	१५९
अपनेको भूल कर्मके फलमें सन्तुष्ट होना योग्य नहीं	१६०
तपश्चर्याके फलस्वरूप लौकिक अल्प फलमें क्यों सन्तुष्ट होता है	१६१
साधुका जीवन दैवकी बलवत्तासे परे होता है	१६२
दैवका वश कहाँ चलता है और कहाँ नहीं चलता	१६३
कौन साधु स्तुतिका और कौन साधु निन्दाके पात्र है	१६४
तप छोड़ विषयमें फँसना आश्चर्यकारी है	१६५
तपसे च्युत होनेवाला साधु बालकसे भी गया बीता है	१६६
शुद्धिके कारणरूप तपको अन्य पुरुष मैला कर देते हैं	१६७
संयमको छोड़नेवाले साधुका अमृत पीकर उसे वमन करनेके समान है	१६८
बाह्य शत्रुके समान राग-द्वेष अन्तरंग शत्रुको भी जीतो	१६९

राग-द्वेषको जीतनेके लिये मनको आगमाभ्यासमें रमाओ	१७०
आगमाभ्यासमें मनको रमानेकी विधिकी निर्देश	१७१-१७३
ज्ञानभावना क्यों करनी चाहिये इसका निर्देश	१७४
ज्ञान भावनाका फल केवलज्ञान ही है, अन्य नहीं	१७५
शास्त्राभ्याससे भव्य और अभव्यकी दशा क्या होती है इसका निर्देश	१७६
ध्यानका फल राग-द्वेषका परिहार	१७७
मथानी के उदाहरण द्वारा संसार परिभ्रमणके कारणका निर्देश	१७८-१७९
तत्त्वज्ञानका अभ्यास ही मोक्षका कारण	१८०
शुभ, अशुभ और दोनोंसे निवृत्त होनेका फल	१८१
ज्ञानअग्निके द्वारा संसारके बीज राग-द्वेषको जला देना चाहिये	१८२
मोह और पुरातन फोड़ेमें कोई अन्तर नहीं	१८३
सुबुद्धि जन मित्र तथा पुत्रादिके न होनेपर शोक नहीं करते	१८४-१८५
हानिके होनेपर शोक नहीं करना सुखी होनेका उपाय	१८६
सकल संन्यासका नाम ही सुख है, उससे विपरीतपनेका नाम दुःख है	१८७
जन्म और मरण इन दोनोंमें अन्तर नहीं	१८८
तप और श्रुतका फल राग-द्वेषकी निवृत्ति है, लाभ पूजादि नहीं	१८९-१९०
विषयाभिलाषा महान् अनर्थकी जनक	१९१-१९२
विषयविरक्ति ही अध्यात्मी होनेका उपाय	१९३
शत्रुके समान जानकर शरीरको क्षीण करनेकी शिक्षा	१९४
अनर्थ परम्पराका मूल कारण शरीर	१९५
जो शरीरको पोषते हैं, विषय सेवते हैं वे मानो विष खाकर जीना चाहते हैं	१९६
कष्ट है कि इस कालमें मुनि गाँवके पास रात्रि बिताते हैं	१९७
संसारके कारण कुतपसे गृहस्थ वने रहना उत्तम है	१९८
साधुका स्वार्थको भूलकर स्त्रीकी संगति करना महादुःखका मूल है	१९९
शरीरमें अभेद बुद्धिका फल ही संसारमें भटकना है	२००
जन्म, जरा, मृत्युसे व्याप्त शरीरमें आस्था रखना आश्चर्यकारी है	२०१
शुचिर्भूत आत्मा शरीरके संयोगसे ही अशुचि हुआ है, धिक् है उसे	२०२
शरीर अशुचि है, मैं शुचि हूँ ऐसे भेदज्ञानसे शरीरका त्याग करना बड़े साहसका काम है	२०३
मुनि रोगके होनेपर खेद नहीं करते तथा अपना कार्य जानकर शरीरको त्याग देते हैं	२०४

मात्र गृहस्थ योग्य उपचार करते हैं, फिर भी अप्रतीकार्य जानकर उपवासादि विधिसे उसे त्याग देते हैं	२०५
अज्ञानीका सुख शिरके भार कंधेपर ले लेनेके समान है शरीरको प्रतीकारके अयोग्य देखकर उद्वेग नहीं करना ही प्रति- क्रिया है	२०६ २०७
शरीर ग्रहणका नाम संसार, उसमें आसक्तिका त्याग करना ही मुक्ति है	२०८
जो अपने छोटे आचरणसे आत्माको अपूज्य बना देता है उस शरीरको धिक्कार हो	१०९
ज्ञानी शरीर, कर्म और आत्माको भिन्न-भिन्न जानता है	२१०-२११
कषायादिकको न जीतना ही अज्ञता है	२१२
उत्तम गुणोंके बाधक कषायोंको जीतनेके लिये प्रयत्न करो	२१३
क्रोधादि और उपशान्त भावमें चूहे-बिल्लीके समान जाति विरोध है, उससे दोनों लोकोंकी हानि होती है	२१४
कषायोंको जीतनेके लिये मात्सर्य भावके त्यागकी शिक्षा क्रोधसे होनेवाली कार्य हानिका सोदाहरण समर्थन	११५ २१६
मानमें बाहुबलीको उदाहरण रूपमें उपस्थित करनेकी परम्परा है वर्तमानमें गुण रहित होकर भी अहंकारसे अभिभूत पाये जाते हैं	२१७ २१८
अपनेसे उत्तरोत्तर अधिक गुणवाले होनेपर भी मान करते हैं	२१९
थोड़ा भी छल विषके समान है इसकी सोदाहरण निन्दा मायासे भयभीत रहनेकी प्रेरणा	२२० २२१
कपट व्यवहार स्वयंके छिपानेपर भी वह प्रगट हो जाता है लोभवश चमरमृगकी परवशता	२२२ २२३
निकट संसारीको ही विषयविरवित आदि गुण प्राप्त होते हैं	२२४
जिन्होंने आत्माके सारको जान लिया है वे ही क्लेश जालसे मुक्त होते हैं	२२५
संसारसे विमुक्त जीव मुक्तिके भाजन कैसे नहीं होते, होते ही हैं रत्नत्रयधारीको ही संसारसे भयभीत होकर इन्द्रिय चोरोसे बचना चाहिये	२२६ २२७
पीछी आदि संयमके साधन हैं उनमें मोह करना व्यर्थ है	२२८
धीर बुद्धि साधु आत्माकी प्राप्तिमें ही अपनेको कृतकृत्य मानता है ज्ञानके गर्ववश आशा रूप शत्रुको अल्प गिनना योग्य नहीं	२२९ २३०

ज्ञान-चारित्रसे युक्त साधुको संसारसे राग छोड़नेका उदाहरणद्वारा समर्थन	२३१
कण्टका कारण पुनः पुनः राग-द्वेषकी प्राप्ति	२३२
मोक्षप्राप्तिके पूर्व प्राणी दुखी ही रहता है	२३३
मोक्षप्राप्तिके उपायभूत रत्नत्रयका समर्थन	२३४
मोक्षके इच्छुकको यह अभोग्य है यह भोग्य है ऐसे विकल्पके त्यागका अभ्यास करना चाहिये	२३५
अविनाशी पद क्या है इसका स्पष्टीकरण	२३६
प्रवृत्ति और निवृत्तिका स्वरूप	२३७
कौन भावना भाने योग्य हैं और कौन नहीं	२३८
तीन युगलोंमें आदिके तीन व्यवहारमें प्रयोजनीय	२३९
अशुभके छूटनेपर पाप और दुःख स्वयं छूट जाते हैं तथा शुभकी परिसमाप्ति शुद्धमें होकर अन्तमें परमपद प्राप्त होता है	२४०
आत्मा है और वह संसारके कारणोंसे वर्तमानमें बद्ध है, अन्तमें रत्नत्रय पाकर वह मुक्त होता है	२४१
ममेदं भाव ईतिके समान	२४२
भवभ्रमणका कारण और उससे छूटनेका उपाय	२४३
पर वस्तुमें आसक्तिरूप अज्ञानको छोड़ विवेकका होना ही विवेकी जनोंकी कुशलता है	२४४
बन्ध और मोक्षका क्रम	२४५
योगीका स्वरूप निर्देश	२४६
गुणयुक्त तपमें साधारणसी भी क्षति उपेक्षा करने योग्य नहीं जैसे घरमें छिद्र होना योग्य नहीं वैसे ही यतिका गुप्ति आदिमें असावधान रहना योग्य नहीं	२४८
परदोष कथन हितकारी नहीं	२४९
दोषदर्शी महात्माके पदको नहीं प्राप्त होता	२५०
योगीको अपना पहलेका जीवन अज्ञानता पूर्ण प्रतीत होता है	२५१
शरीरमें भी स्पृहा रहित योगियोंका आशाबेलिको पुष्ट करना कैसे योग्य हो सकता है	२५२
जब शरीर ही आत्मासे जुदा है तो अन्य पदार्थ तो जुदे हैं ही	२५३
मोक्षार्थी संतापके कारणरूप शरीरसे मोह छोड़कर परम सुखी हुए हैं	२५४
अनादि कालीन मोहके त्यागीका ही परलोक विशुद्ध होता है	२५५
परमें मूर्छा रहित साधुके ऐसा कौन पदार्थ है जो सुखका साधन न बने	२५६

विषय सूची

४३

कर्मके उदय-उदीरणासे साधु खेदखिन्न नहीं होते	२५७
निर्भय साधु गिरिगुफा आदिमें ध्यान करते हैं	२५८
मोक्षार्थी निस्पृह साधुओंका जीवन और मंगलकामना	२५९-२६२
जो सांसारिक सुख-दुःखसे उदासीन रहते हैं सब ही मणिके समान प्रकाशरूप रहते हैं	२६३
साधुओंका आचार आश्चर्यका स्थान है	२६४
वैशेषिकोंका मुक्तिमें गुणोंका अभाव मानना मिथ्या है	२६५
जीवका स्वरूप	२६६
सिद्धोंके युक्तिपूर्वक सुखका समर्थन	२६७
आत्मानुशासनको जानकर उसके चिन्तवनका फल	२६८
गुरुके स्मरणपूर्वक कर्तारूपमें स्वयंके नामका उल्लेख	२६९
आदिजिन हम सबके लिये मंगल स्वरूप होनेकी कामना	२७०



॥ श्री परमात्मने नमः ॥

आचार्यवर्य श्रीगुणभद्रस्वामिप्रणीत

आत्मानुशासन

आ० क० श्री पं० टोडरमलजी रचित

हिंदी वचनिका सहित

❀

हिन्दीकारका मंगलाचरण

दोहा—श्रीजिनशासन गुरु नमो, नानाविध सुखकार ।

आतमहित उपदेशतँ, करै मंगलाचार ॥ १ ॥

॥ सवैया ॥

सोहै जिनशासनमें आत्मानुशासन श्रुत

जाकी दुःखहारी सुखकारी सांचीं शासना,

जाको गुणभद्र कर्ता गुणभद्र जाको जानि

भद्र गुणधारी भव्य करत उपासना ।

ऐसे सार शास्त्रको प्रकाशे, अर्थ जीवनिको

बनै उपकार नाशै मिथ्या भ्रमवासना,

तातँ देश भाषा करि अर्थको प्रकाश करौं

जातँ मन्दबुद्धिहूके होत अर्थ भासना ॥ २ ॥

अथ श्री गुणभद्र नामा मुनि अपना धर्मभाई लोकसेन मुनि विषय-विमोहित भया ताका संबोधनका मिस करि सर्वजीवनिकों उपकारी जो भला मार्ग ताका उपदेश देनेका अभिलाषी होत संता निर्विघ्न शास्त्रकी संपूर्णता आदि अनेक फलकू बांछता अपने इष्ट देव को नमस्कार करता संता प्रथम ही लक्ष्मी इत्यादि सूत्र कहै हैं:—

आर्या छंद

लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हृदि वीरम् ।

आत्मानुशासनमहं वक्ष्ये मोक्षाय भव्यानाम् ॥१॥

अर्थ:—मैं जु हौं शास्त्र कर्ता गुणभद्र सो वीर कहिये वर्द्धमान तीर्थकर देव अथवा कर्मशत्रु नाशनेकों सुभट वा विशिष्टाई कहिए^१ लक्ष्मी ताकों “राति” कहिये ग्रहैं ऐसा सर्व अरइतादिक ताहि अपना हृदय विषैं अवधारण करि आत्माको हितरूप शिक्षाका दैनहारा ऐसा जु आत्मानुशासन नामा शास्त्र ताहि कहूंगा ।

ऐसे अपने इष्टदेवका ध्यान रूप मंगलाचरण करि शास्त्र करनेकी प्रतिज्ञा करी । कैसा है वीर, आत्मस्वभावरूप वा अतिशय रूप जो लक्ष्मी ताके निवास करनेका स्थान है, मंदिर है । बहुरि कैसा है, विलीन कहिये विनष्ट भया^२ है विलय कहिये पाप स्वभाव, ताका नाश जाके, ऐसा है । अविनाशी स्वरूप को प्राप्त भया है । ऐसे इनि विशेषणनि करि अपना इष्टदेवका वीर ऐसा नाम सार्थक दिखाया । बहुरि ताका सर्वोत्कृष्टपना प्रकट किया । बहुरि जो यहु शास्त्र कहौंगा सो भव्य जीवनिकै मोक्ष होने-कै अर्थ कहौंगा, अन्य किछू मान लोभादिकका प्रयोजन नाहीं है । याहीं तैं हित अभिलाषा जीवनिको उपादेय है । आगैं शास्त्रका अर्थ विषैं शिष्यनिका भयकों दूर करि जैसी प्रवृत्ति पाइए हैं सो ही अंग या विषै है, ताका भाव कों दिखावता “दुःखात्” इत्यादि सूत्र कहै हैं :—

आर्या छन्द

दुःखाद्विभेषि नितरामभिवाञ्छसि सुखमतोऽहमप्यात्मन् ।

दुःखापहारि सुखकरमनुशास्मि तवानुमतमेव ॥२॥

अर्थ—हे आत्मा ! तं अतिशय करि दुःखतैं डरै है । अर सुखकों सर्व प्रकार चाहै है, यातैं मैं भी दुःखका हरनहारा, सुखका करनहारा ऐसा जो वाञ्छित अर्थ है तिस ही कौं उपदेशौ हौं ।

भावार्थ—काहूके ऐसा भय होयगा कि श्री गुरु सुखकों छुडाय मोकू कष्ट साधन बतावेगै । बहुरि इस भयतैं शास्त्र विषैं अनादर कौं कहैं हैं, ऐसा भय मति करै । दुःख दूर करिनैका, सुख पावनैका तेरा अभिप्राय है तिस ही प्रयोजन लीयैं हम तोकों सांचा उपाय उपदेशैं हैं ।

आगैं सो^३ उपदेशरूप वचन यद्यपि कदाचित् तोकों कड़वा भी लागै तो तूँ तिसितैं डरे मति ऐसा कहै है—

१. विशिष्ट कहिए मु० १-११

२. विलै भया ज० पू० १-५

३. आगे कहैं हैं सो मु० २-२८

४. ऐसा उपदेशका सूत्र कहै मु० २-१८

आर्या

यद्यपि कदाचिदस्मिन् विपाकमधुरं तदात्वकटु किञ्चित् ।

त्वं तस्मान्मा भैषीर्यथातुरो भेषजादुग्रात् ॥३॥

अर्थ—यद्यपि इस शास्त्रविषै कहीं उपदेश किछू तत्काल कड़वा लागै तो तू तिसतै डरै मति । वह उपदेश कैसा है ? फल—काल विषै मीठा है । जैसे रोगी उग्र कड़वा औषधतै नाहीं डरै ।

भावार्थ—जैसे स्याना रोगी यद्यपि ग्रहण कालविषै कोई औषध किछू कड़वा भी लागै तो भी तिसतै सुख होनेरूप मीठा फल होता जानि तिसतै डरै नाहीं, ताकाँ आदरतै ग्रहण करै है । तैसेँ तू स्याना संसारी है सो यद्यपि ग्रहण काल विषै कोई इस शास्त्रका उपदेश किछू असुहावना भी लागै तो भी तिसतै सुख होनेरूप मीठा फल जानि तिसतै डरै मति, तोकाँ आदर तै ग्रहण करना योग्य है ।

आगँ कोई तर्क करै कि उपदेश दाता तो बहुत हैं तातैँ तुम्हारा निष्फल खेद करने करि कहा साध्य है, ऐसैँ पूछैँ उत्तर कहैँ हैं :—

आर्या

जना घनाश्च वाचालाः सुलभाःस्युर्वृथोत्थिताः ।

दुर्लभा ह्यन्तरार्द्रास्ते जगदभ्युज्जिहीर्षवः ॥४॥

अर्थ—मनुष्य तौ खोटा उपदेशादिरूप वचन कहनहारै अर मेघ खोटा गर्जन करनहारै बहुरि मनुष्य तौ निरर्थक महंतता करि उद्धति भये अर मेघ निरर्थक बादलारूप उठै, ऐसे तो मनुष्य वा मेघ सुलभ हैं । बहुरि मनुष्य तो अंतरंग धर्म बुद्धि करि भीजै अर मेघ अंतरंग जल करि भीजै, बहुरि मनुष्य तो संसार दुःख तैँ जीवनिका उद्धार करनेकी इच्छाकोँ धारे अर मेघ अन्नादिक उपजावनै तैँ लोकका उद्धार करनेका कारणपणां को धारे, ऐसैँ मनुष्य वा मेघ दुर्लभ हैं ।

भावार्थ—उपदेश दाता बहुत हैं, परन्तु हम जैसे धर्म बुद्धि तैँ जीवनि-का उद्धार करने कूँ उपदेश देवैँगे तैसेँ उपदेश देनहारै थोरे हैं । तातैँ हमारा उद्यम निरर्थक नाहीं है ।

आगे ऐसैँ हैं तो कैसे गुणनि करि संयुक्त उपदेश दाता होय है, ऐसा प्रश्न होत संतैँ “प्राज्ञ” इत्यादि दोय श्लोक कहैँ हैं :—

शार्दूलविक्रीडित छंद ।

प्राज्ञः प्राप्तसमस्तशास्त्रहृदयः प्रव्यक्तलोकस्थितिः,
 प्रास्ताशः प्रतिभापरः प्रशमवान् प्रागेव दृष्टोत्तरः ।
 प्रायः प्रश्नसहः प्रभुः परमनोहारी परानिन्दया,
 ब्रूयाद्धर्मकथां गणी गुणनिधिः प्रस्पष्टमिष्टाक्षरः ॥५॥

अर्थ—ऐसा गणी सभानायक होइ सो धर्म कथा कों कहै । कैसा ? बुद्धिवान होइ, जातैं बुद्धिहीनका वक्तापणां बनें नांही । बहुरि पाया है समस्त शास्त्रनिका रहस्य जिहिं ऐसा होइ; जातैं अनेक अंग जानैं बिनां यथार्थ अर्थ भासै नाहीं । बहुरि प्रकट है लोकव्यवहार जाकै ऐसा होइ; जातैं लोकरीति जानैं बिना लोक विरुद्ध हो है । बहुरि प्रकर्षणैं अस्त भई है आशा जाकै ऐसा होइ; जातैं आशावाला रंजायमान मन किया चाहै, यथार्थ अर्थ प्ररूपै नाही । बहुरि कान्ति करि उत्कृष्ट होइ; जातैं शोभायमान न भए महंतपनों शोभै नाहीं । बहुरि उपशम परिणाम युक्त होइ; जातैं तीव्रकर्षाई सर्वकों अनिष्ट निंदाका स्थान हो है । बहुरि प्रश्न कीएं पहलैं ही देख्या है उत्तर जानैं ऐसा होइ; जातैं आप ही प्रश्न उत्तर करि समाधान करै तो श्रोतानिकै उपदेश की दृढता होइ, बहुरि प्रचुर प्रश्ननिका सहनहारा होइ; जातैं प्रश्न किये खेद खिन्न होइ तो श्रोता प्रश्न न करि सकै, तब तिति का संदेह कैसे दूर होइ । बहुरि प्रभु होइ; जातैं जाकौ आपतैं ऊँचा जानौ ताहीका कह्या मानिए है । बहुरि औरनिके मनका हरनहारा होइ; जातैं जो असुहावना लागै ताकी सीख कैसे मानै । बहुरि गुणनिका निधान होइ; जातैं गुण बिना नायकपनों शोभै नाहीं । बहुरि स्पष्ट अर मीठे जाकै उपदेशरूप वचन होइ; जातैं प्रगट वचन बिना समझै नाहीं, मीठा बोले बिना रुचि न होइ । ऐसा गणी^१ होइ सो औरनिकी निंदा वा औरनि करि निन्द्य न होइ, ऐसी रीति करि धर्म कथा कों कहै ।

भावार्थ—आप विषैं इतनैं गुण होइ तब शास्त्र कहने का अधिकारी होनां योग्य है ।

१. अक्षर ज० उ० ५-१

२. गुणी ज० उ० ५-२

हरिणी छंद ।

श्रुतमविकलं शुद्धा वृत्तिः परप्रतिबोधने,
परणतिरूद्योगो मार्गप्रवर्तनसद्विधौ ।
बुधनुतिरनुत्सेको लोकज्ञता मृदुताऽस्पृहा,
यतिपतिगुणा यस्मिन्नन्ये च सोऽस्तु गुरुः सताम् ॥६॥

अर्थ—जिस विषे ऐसे गुण होइ, संपूर्ण संदेह रहित तो शास्त्र ज्ञान होइ । बहुरि शुद्ध दोषरहित यथायोग्य मन वचन कायकी प्रवृत्ति होइ । बहुरि औरनिका संबोधनविषे परिणाम होइ । बहुरि जिनमार्गका प्रवर्तनविषेकी भली विधिविषे भला उद्यम होय । बहुरि ज्ञानीनि करि कीन्ही हुई नमन क्रिया होइ वा अधिक ज्ञानीनिका विनय करि नमन होइ । बहुरि उद्वतपनाति करि रहित होइ । बहुरि लोकरीतिका ज्ञातापना होइ । बहुरि कोमलपना होइ । बहुरि वांछारहितपना होइ । ऐसे ये गुण होइ । बहुरि और भी ऐसे ही यतीश्वरसम्बन्धी गुण जा विषे होइ, सो सत्पुरुषनिका उपदेशदाता गुरु होहु ।

भावार्थ—पूर्वोक्त गुण सहित गुरु होइ सो सत्पुरुषनिका भला करै ताते हमारा भी यहु आशीर्वाद है जो ऐसा ही उपदेश दाता गुरु होहु जाकरि जीवनिका बुरा होइ सो उपदेशदाता गुरु काहूके मति होहु ।

आगे ऐसा उपदेशक होय तो शिष्य कैसा हो है ऐसे पूछे होय कहै हैं:—

शार्दूलविक्रिडित छंद

भव्यः किं कुशलं ममेति विमृशन् दुःखाद्भृशं भीतवान्
सौरुयैषी श्रवणादिबुद्धिविभवः श्रुत्वा विचार्य स्फुटम् ।
धर्मं शर्मकरं दयागुणमय युक्त्यागमाभ्यां स्थितं
गृह्णन्धर्मकथां श्रुतावधिकृतः शास्यो निरस्ताग्रहः ॥७॥

अर्थ—जो ऐसा शिष्य है सो धर्मकथा सुननेविषे अधिकारी किया है । कैसा ? प्रथम तो भव्य होइ; जाते जाका भवितव्य भला होनेका न होइ तो सुनना कैसे कार्यकारी होइ ? बहुरि मेरा कल्याण कहा है ऐसा विचारता होइ; जाते जाके अपना भला बुरा होनेका विचार नाहीं सो

काहेको सीख सुनै । बहुरि दुःखतैं अतिशय करि डरता होइ, जातैं जाकै नरकादिकका भय नाहीं सो पाप छोड़ने का शास्त्र काहे को सुनै । बहुरि सुखका अभिलाषी होइ, जातैं आगामी सुख चाहै तो धर्म साधनका शास्त्र सुनै । बहुरि श्रवण आदि बुद्धिका विभव जाके पाइये ऐसा होइ । तातैं सुननेकी इच्छाका नाम शुश्रूषा^१ है । सुननेका नाम श्रवण है । मनकरि जाननेका नाम ग्रहण है । न भूलने का नाम धारणा है । विशेष विचार करनेका नाम विज्ञान है । प्रश्नोत्तर करि निर्णय करना ताका नाम ऊहापोह है । तत्त्व श्रद्धानके अभिप्रायका नाम तत्त्वाभिनिवेश है । ऐसैं ए बुद्धिके गुण हैं सो जाके पाइए है, जातैं इनि बिना शिष्यपना^२ बनें नाहीं । बहुरि सुखकारी, दया गुणमई, अनुमान आगम करि सिद्ध भया ऐसा जो धर्म ताकाँ सुनि करि, विचार करि ग्रहण करता होइ; जातैं ऐसा ही धर्म, ऐसै ही शिष्यकै कार्यकारी हो है । बहुरि नष्ट भया है खोटा हठ जाकै ऐसा होइ; जातैं हठ करि आपाथापी होइ ताकाँ सीख लागै नाहीं ।

भावार्थ—ऐसा गुण सहित होइ सोई धर्म कथाके सुननेका अधिकारी होइ, वाहूका भला होइ । इनि गुणनि विनां धर्म कथाका सुनना कार्यकारी न हो है ।

आगैं कहै हैं—ऐसा शिष्य है सो गुरु उपदेशतैं सुखका अर्थीपना करि धर्म उपार्जन ही के अर्थि प्रवर्तौ; जातैं ऐसा न्याय है—

आर्या छंद

पादाद्दुःखं धर्मात्सुखमिति सर्वजनसुप्रसिद्धमिदम् ।

तस्माद्विहाय पापं चरतु सुखार्थी सदा धर्मम् ॥८॥

अर्थ—पाप तैं दुःख हो है, धर्म तैं सुख हो है । ऐसैं यहु वचन सर्व जननि विषैं भले प्रकार प्रसिद्ध है । सर्व ही ऐसैं मानै हैं, वा कहै हैं । तातैं सुखका अर्थी है जाकाँ सुख चाहिये सो पाप को छोड़ि सदाकाल धर्म-कू आचरौ^३ ।

भावार्थ—पापका फल दुःख अरु धर्मका फल सुख ऐसे हम ही नाहीं कहैं हैं, सर्व कहैं हैं । तातैं जो सुख चाहिये है तो पाप छोड़ि धर्म कार्य करो ।

१. शुश्रूषि ज० उ० ७-३

२. सिद्धपावना ज० उ० ७-६

३. आचरै ज० पू० ८-६

आगे कहै हैं—विशेष सुखकी प्राप्तिका अर्थी हूवा धर्मको अंगीकार करता सर्व ही जीव हैं ताहि विचार करि कोई आप्त जो यथार्थ उपदेशदाता सो अपना आश्रय करना; जातैं सुखकी प्राप्तिका मूल कारण आप्त है, सोई कहै है—

शार्दूलविक्रीडित छंद

सर्वःप्रेप्सति सत्सुखाप्तिमचिरात् सा सर्वकर्मक्षयात्
सद्वृत्तात् स च तच्च बोधनियतं सोऽप्यागमात् स श्रुतेः ।
सा चाप्तात् स च सर्वदोषरहितो रागादयस्तेऽप्यतः
तं युक्त्या सुविचार्यसर्वसुखदं सन्तः श्रयन्तु श्रिये ॥९॥

अर्थ—सर्व जीव भला सुखकी प्राप्तिकों शीघ्र वांछै हैं । सो यह वांछा प्रत्यक्ष भासै है । बहुरि सुखकी प्राप्ति सर्व कर्मके नाश तैं हो है, जातैं सुखका रोकनहारा कोई कर्म है ताका नाश भए बिना सुख कैसें होई । बहुरि सो कर्मका क्षय सम्यक्चारित्र तैं हो है । जातैं बुरा आचरण तैं निपजा कर्म सो भला आचरण बिना कैसे नष्ट होइ । बहुरि सो सम्यक् चारित्र ज्ञानतैं निश्चित है । जातैं ज्ञान बिना बुरा भला आचरणका निश्चय कैसे होइ । बहुरि सो ज्ञान आगमतैं हो है । जातैं आगम बिना बुरा भलाका ज्ञान होता नाहीं । बहुरि आगम है सो श्रुति जो अर्थप्रकाशक मूल उपदेश तिस बिना होता नाहीं । जातैं आगम रचना कोई अनुसारतैं हो है । बहुरि श्रुति है सो आप्त जो यथार्थ उपदेशदाता तिसतैं हो है । जातैं उपदेश दाता बिना उपदेश कैसें कोइ । बहुरि सो आप्त सर्व दोष रहित है । जातैं दोष सहित आप्त होता नाहीं । बहुरि दोष रागादि हैं । जातैं राग, द्वेष, काम, क्रोध, क्षुधा, निद्रा आदि होतैं यथार्थ उपदेश देइ सकै नाहीं । तातैं एई आप्तपना के घातक दोष हैं । ऐसैं अनुक्रम कहा । यातैं सत्पुरुष हैं ते युक्ति करि भलैं विचारि सर्व सुखका दाता जो आप्त ताका सुखरूप लक्ष्मके अर्थ आश्रय करौ ।

भावार्थ—जाकों सुख चाहिये सो पहलैं आप्तका निश्चय करि वाका उपदेश्या मार्गकों अंगीकार करै ।

आगैं तिस आप्तकी^१ सिद्धि होत संतै तिस भगवान आप्तकरि सत्पुरुषनिको उपाय सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप इनि च्यारि आराधनारूप

१. तिहितै मु० ९-१२

२. आत्मा ज० पू० ९-४

दिखाया है। तहां सम्यग्दर्शन आराधना पहलैं ताकौं दिखावता संता सूत्र कहै है—

शादूल विक्रीडित छन्द ।

श्रद्धानं द्विविधं त्रिधा दशविधं मौढ्याद्यपोढं सदा,
संवेगादिविवर्धितं भवहरं त्र्यज्ञानशुद्धिप्रदम् ।
निश्चिन्वन् नवसप्ततत्त्वमचलप्रासादमारोहतां,
सोपानं प्रथमं विनेयविदुषामाद्येयमाराधना ॥१०॥

अर्थ—श्रद्धान जो सम्यग्दर्शन, विपरीत अभिप्राय रहित आत्मा का स्वरूप सो दोग प्रकार है—उपदेशादि वाह्य निमित्त विना होइ सो निसर्गज है। अर उपदेशादि वाह्य निमित्ततैं होइ सो अधिगमज है। अथवा सो श्रद्धान तीन प्रकार है दर्शनमोहका उपशमतैं होइ सो औपशमिक है, क्षयतैं होइ सो क्षायिक है। क्षयोपशमतैं होइ सो क्षायोपशमिक है। अथवा सो श्रद्धान दश प्रकार है—आज्ञा सम्यक्त्वादि इहां ही दश भेद कहेंगे। बहुरि सो श्रद्धान कैसा है, सदा काल मूढता आदि पच्चीस दोषनिकरि रहित है। तहां लोकमूढ, समयमूढ, देवमूढ इनि भेदनितैं तीन मूढता अर जाति, कुल आदि आठ मद अर मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्र^१ अर इनिकै धारक जीव ऐसैं छह अनायतन। अथवा असर्वज्ञ, असर्वज्ञ-स्थान, असर्वज्ञका ज्ञान, असर्वज्ञका ज्ञानयुक्त पुरुष, असर्वज्ञका आचरण, असर्वज्ञका आचरणसहित पुरुष ऐसै छह अनायतन हैं। ए सम्यक्त्वके स्थान नाहीं, तातैं इनिको अनायतन कहिये हैं। बहुरि शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढदृष्टि, च्यारि तो ए, अर उपगूहन, स्थितीकरण, वात्सल्य, प्रभावनाका अभाव सो च्यारि ए ऐसै आठ भये। ऐसैं सम्यग्दर्शनके पच्चीस दोष हैं, तिनिकरि जो रहित होइ सोई निर्मल श्रद्धान है। जातैं इनि दोषनिकों लगे सम्यक्त्वका अभाव होइ, कैसे सम्यक्त्व मैला होई। बहुरि सो श्रद्धान कैसाहै? संवेगादि गुणानिकरि निर्मलपनातैं वर्द्धमान है, वा या करि संवेगादि गुण बधै हैं। इहां संसारतैं भय वा धर्म, धर्मका फलकों देखि हर्ष करना ताका नाम संवेग है। आदि शब्दतैं निन्दा, गर्हा आदि जानना। बहुरि सो श्रद्धान संसारका हरनहारा है। बहुरि कुमति, कुश्रुत, विभंगरूप तीन अज्ञान तिनिकौं शुद्धताका दैनहारा है। कुज्ञान थे तेई सम्यक्त्व भए सुज्ञान हो है। बहुरि जीव, अजीव, आस्रव, बंध, संवर,

१. मिथ्या दर्शन चारित्र ज० उ० १०-४

निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप ए नव तत्त्व अथवा पुण्य पाप गर्भित किये सात तत्त्व तिनिका निश्चय करता है। बहुरि जहाँतैं जीव न चले ऐसा प्रासाद मोक्षमंदिर ताकों चढ़ते ऐसे जे शिष्यनिविषैं पंडित बुद्धिवान तिनकों पहला सिवाण है। याकों पहलै भये पीछे अन्य साधन हो है। बहुरि च्यारि आराधनाविषै यहू प्रथम आराधना है। ऐसा श्रद्धान है।

भावार्थ—ऐसा श्रद्धानका स्वरूप वा महिमा जानि अंगीकार करनां। तहाँ औपशमिक सम्यक्त्व तौ जैसे कादा जाके नीचे बैठ्या ऐसा जल ऊपरि निर्मल होइ तैसा जानना। अर क्षायिक सम्यक्त्व हरितमणि समान सर्वथा निर्मल जानना। अर क्षायोपशमिक ऊगता सूर्यवत् किछू रागमलसहित जानना।

अब दश प्रकार सम्यक्त्वका सूचनैके अर्थि आज्ञा इत्यादि संग्रहरूप सूत्र कहै हैं—

आर्या छन्द

आज्ञामार्गसमुद्भवमुपदेशात् सूत्रबीजसंक्षेपात् ।

विस्तारार्थाभ्यां भवमवपरमावादिगाढं च ॥११॥

अर्थ—आज्ञा अर मार्गतैं उत्पन्न, बहुरि उपदेशतैं उत्पन्न, बहुरि सूत्र अर बीजतैं अर संक्षेपत उत्पन्न, बहुरि विस्तार अर अर्थनितैं उत्पन्न ऐसे आठ तो ए भये। बहुरि अव अर परमाव^१ है आदि विषै जाके ऐसा गाढ सो अवगाढ परमावगाढ दोय ये भये, ऐसे दश सम्यक्त्वके भेद जाननैं।

भावार्थ—हेय, उपादेय तत्त्वनिविषै विपरीत अभिप्राय रहित सो सम्यक्त्व एक प्रकार है। ताहीके आज्ञादिक आठ कारणनितैं उपजनेकी अपेक्षा आठ भेद किये हैं। अर ज्ञानकी प्रकर्षताका सहकारकरि विशेषपनाकी अपेक्षा अवगाढ परमावगाढ ए दोय भेद किये हैं। ऐसैं ए दश भेद जाननैं।

आगे इसहीका विशेष वर्णनके अर्थि आज्ञा सम्यक्त्व इत्यादि तीन काव्य कहै हैं—

शृग्धरा छन्द

आज्ञासम्यक्त्वमुक्तं यदुत विरुचितं वीतरागाज्ञायैव

त्यक्तग्रन्थप्रपञ्चं शिवममृतपथं श्रद्धन्मोहशान्तेः ॥

मार्गश्रद्धानमाहुः पुरुषवरपुराणोपदेशोपजाता,

या संज्ञानागमाब्धिप्रसृतिभिरुपदेशादिरादेशि दृष्टिः ॥१२॥

१. अवरि अपरमाव ज० उ० ११-५ ।

अर्थ—हे भव्य ! जो शास्त्र-पठन बिना वीतरागकी आज्ञा ही करि, वचन सुननें ही करि श्रद्धान होइ सो आज्ञा सम्यक्त्व कहा है। बहुरि ग्रन्थ विस्तारका सुननें बिना बाह्याभ्यंतर परिग्रहरहित ऐसा कल्याणरूप मोक्षका मार्ग ताहि दर्शनमोहकी शांति होनें तैं श्रद्धान करता जो होइ ताहि मार्गश्रद्धान कहै हैं। बहुरि उत्कृष्ट पुरुष तीर्थकरादिक तिनके पुराणनिका उपदेशतैं जो निपजी सो सम्यग्ज्ञानकरि आगम समुद्रविषै प्रवीण पुरुषनिकरि उपदेश है आदि विषै जाकै, ऐसी दृष्टि कही है, यहु उपदेश सम्यक्त्व है।

स्रग्धरा छंद

आकर्ण्यचारसूत्रं मुनिचरणविधेः सूचनं श्रद्धानः

सूक्तासौ सूत्रदृष्टिर्दूरधिगमगतेरर्थसार्थस्य बीजैः ।

कैश्चिज्जातोपलब्धेरसमशमवशाद् बीजदृष्टिः पदार्थान्

संक्षेपेणैव बुद्ध्वा रुचिमुपगतवान् साधु संक्षेपदृष्टिः ॥१३॥

अर्थ—मुनिके आचरणका विधानकों प्रतिपादन करता जो आचारसूत्र ताहि मुनि करि श्रद्धान करता जो होइ सो सूत्रदृष्टि भले प्रकार कही है। यह सूत्र सम्यक्त्व है। बहुरि केई बीज जे गणितज्ञानकों कारण तिन करि अनुपमदर्शनमोहका उपशमके वशतैं दुष्कर है जाननेकी गति जांकी ऐसा जु पदार्थनिका समूह, ताकी भई है उपलब्धि श्रद्धानरूप परिणति जाकै ऐसा करणानुयोगका ज्ञानी भव्य ताकै बीजदृष्टि हो है। यहु बीज सम्यक्त्व जानना। बहुरि पदार्थनिको संक्षेपपनें ही करि जानि श्रद्धानकों प्राप्त भया सो भली संक्षेपदृष्टि है। यहु संक्षेप सम्यक्त्व जानना।

स्रग्धरा छंद

यः श्रुत्वा द्वादशाङ्गीं कृतरुचिरथ तं विद्धि विस्तारदृष्टिः,

संजातार्थात् कुतश्चित् प्रवचनवचनान्यन्तरेणार्थदृष्टिः ।

दृष्टिः साङ्गाङ्गबाह्यप्रवचनमवगाह्योत्थिता यावगाढः

कैवल्यालोकितार्थे रूचिरिह परमावादिगाढेति रूढा ॥१४॥

अर्थ—अब जो द्वादशांगरूप वानीकों सुनि कीन्हीं जो रुचि श्रद्धान ताहि विस्तार दृष्टि हे भव्य ! तू जानि। यहु विस्तार सम्यक्त्व है। बहुरि जैनशास्त्रके वचननि बिना कोई अर्थका निमित्ततैं भई सो अर्थदृष्टि है। यहु अर्थसम्यक्त्व जानना। बहुरि अंग अर अंगबाह्यसहित जैनशास्त्र ताकों

अवगाहि करि जो निपजी सो अवगाढदृष्टि है। यहु अवगाढसम्यक्त्व जाननां। बहुरि केवलज्ञानकरि अवलोक्या पदार्थविषै श्रद्धान सो इहाँ परमावगाढदृष्टि प्रसिद्ध है। यहु परमावगाढसम्यक्त्व जाननां। ऐसे ए दश भेद कहे।

भावार्थ—इहाँ दश भेद सम्यक्त्वके कहे। तहाँ वीतराग वचननि ही तँ श्रद्धान होइ सो आज्ञासम्यक्त्व है। मोक्षमार्गके ही श्रद्धानतँ होइ सो मार्गसम्यक्त्व है। उत्तम पुरुषनिका पुराणादिक सुननेतँ श्रद्धान होइ सो उपदेशसम्यक्त्व है। मुनिका आचार सुननेतँ श्रद्धान होइ सो सूत्रसम्यक्त्व है। बीज गणितादि^१ करि करणानुयोग^२के निमित्ततँ श्रद्धान होइ सो बीज-सम्यक्त्व है। संक्षेपनै पदार्थनिका श्रद्धानतँ होइ सो संक्षेपसम्यक्त्व है। द्वादशांगकों सुनि श्रद्धान होइ सो विस्तारसम्यक्त्व है। कोई दृष्टान्तादिरूप^३ पदार्थतँ श्रद्धान होइ सो अर्थ सम्यक्त्व है। श्रुतकेवलीके श्रद्धान होइ सो अवगाढसम्यक्त्व है। केवलज्ञानीके श्रद्धान है सो परमावगाढ सम्यक्त्व है। ऐसै एक सम्यक्त्वके अन्य निमित्ततँ दश भेद जाननँ।

इहाँ प्रश्नः—जो चारि प्रकार आराधनाविषै सम्यक्त्व आराधना पहले काहै तँ करिए है ऐसे पूछँ कहै हैं—

आर्या छंद

शमबोधवृत्ततपसां पाषाणस्येव गौरवं पुंमः ।

पूज्यं महामणेरिव तदेव सम्यक्त्वसंयुक्तम् ॥१५॥

अर्थ—पुरुष आत्मा ताकै मंदकषायरूप उपशम परिणाम, शास्त्राभ्यासरूप ज्ञान, पापत्यजनरूप चारित्र, अनशनादिरूप तप इनिकों महंत-पणों है सो पाषाणका बोझ समान है। विशेष फलका दाता नाहीं। बहुरि सोई सम्यक्त्वसंयुक्त होइ तो महामणिका गुरुत्ववत् पूजनीक है। बहुत फलका दाता महिमायोग्य है।

भावार्थ—जैसे पाषाणकी अर मणिकी यद्यपि एक जाति है, तथापि कांतिकै विशेषतँ पाषाणका बहुत भार वहै तौ भी महिमा न पावै। अर मणिका स्तोक भार वहै तौ बहुत महिमा योग्य होइ। तैसेँ मिथ्यात्व और सम्यक्त्वसहित क्रियानिकी यद्यपि एक जाति है तथापि अभिप्रायके विशेषतँ

१. उपदेशसम्यक्त्व है। बीजगणितादि ज० पू० १४ ७

२. करणानुयोग ज० पू० १४-७

३. दृष्टादिरूप मु० १४-५

मिथ्यात्वसहित क्रियाका बहुत भार वहै तो भी महिमा न पावे । अरु सम्यक्त्व सहित क्रियाका किञ्चित् भी भार वहै तो बहुत महिमा योग्य हो है ।

आगें ऐसै सम्यक्त्व आराधना विषै प्रवर्ते है ऐसा जो आराधकताका स्वरूपकों कहि ताका भयकों दूरि करता संता सूत्र कहै है—

आर्या छंद

मिथ्यात्वातं क्वतो हिताहितप्राप्त्यनाप्तिमुग्धस्य ।

वालस्येव तवेयं सुकुमारैव क्रिया क्रियते ॥१६॥

अर्थ—मिथ्यात्वरूप महारोगसंयुक्त अरु हित-अहितकी प्राप्ति-अप्राप्ति-विषै मूर्ख ऐसा बालक समान जो तूँ सो तेरी यह सुकुमाल ही क्रिया करिये है ।

भावार्थ—हे शिष्य ! जैसे रोगी हित-अहितकों न जानता बालकताका कोमल ही प्रतीकार करिये, तैसेँ तूँ मिथ्यात्वसहित हित-अहितकों नाहीं पहचानता अज्ञानी है बालक समान । सो तुझको कोमल धर्मका साधन उपदेशिए है । इहाँ ऐसा रहस्य है—पुष्ट होइ वा हित प्राप्ति अहित-नाशका लोभ होइ वा बड़ी अवस्था होइ तौ कठोर साधन भी साधै । तीनों न होइ तब उसतैँ सधता भासै सोई साधन बताइए है । तैसेँ श्रद्धानवन्त होइ वा मोक्षकी प्राप्ति बंधका नाशका इच्छुक होइ, वा बड़ी पदवीका धारक होइ तौ कठिन^२ धर्म भी साधै । तीनों तेरै नाहीं, ताते तुझितैँ सधता भासै है सोई सम्यक्त्वादिरूप कोमल धर्मका साधन बतावै है ।

आगें अब चरित्र आराधनाका विचारका अनुक्रमकों करता आचार्य सो तिसका आराधक कौँ योग्य ऐसी ही सुगम अणुव्रत चरित्र आराधनां कौँ दिखावता संता सूत्र कहै है—

आर्या छंद

विषयविषमाशनोत्थितमोहज्वरजनिततीव्रतृष्णस्य ।

निःशक्तिकस्य भवतः प्रायः पेयाद्युपक्रमः श्रेयान् ॥१७॥

अर्थ—विषयरूपी विषम भोजनतैँ उत्पन्न भया मोहरूपी ज्वर जा^३ करि उत्पन्न भई है तीव्र तृष्णा जाकैँ, ऐसा शक्ति रहित भया जो तूँ सो तेरे पेय आदि अनुक्रम है सोई कल्याणकारी है ।

१. अज्ञानी है, सो ज० पू० १६-६ ।

२. इच्छुक होइ तो कठिन मु०, १७-२१

३. ज्वर जाकैँ ऐसा शक्ति रहित ज० उ० १७-६ ।

भावार्थ—जैसे काहूके विरुद्ध भोजनतैं ज्वर भया ता करि तृषा बहुत भई, बहुरि सामर्थ्य घटि गया, ताकों पीवनें योग्य आदि भोजनका अनुक्रम सोई गुणकारी है। गरिष्ठ भोजन करै, अर पचै नाहीं तब उलटा रोग बधै तैसे हे शिष्य ! तेरे विषय वासनातैं मोह उत्पन्न भया, ताकरि परवस्तुकी तृष्णा भई। बहुरि आतम शक्ति घटि गई तांको अणुव्रतरूप साधनका अनुक्रम सोई गुणकारी है। मुनिपद ग्रहण करै अर सधै नाहीं तब उलटा संसार बधै। इहाँ प्रयोजन यहु है यावत् अंतरंग राग परिणाम रहै तावत अनुक्रमतैं थोरा-थोरा साधनकरि धर्म बधावनां।

आगै यहु तिस चारित्र आराधनाका प्रारंभ किसकों करनां योग्य है—

आर्या छंद

सुखितस्य दुखितस्य च संसारे धर्मएव तव कार्यः ।

सुखितस्य तदभिवृद्धयै दुःखभुजस्तदुपघाताय ॥१८॥

अर्थ—संसार^१ विषै सुखी वा दुखी जो तू सो तुझकों धर्म ही करनां योग्य है। सुखीकै तौ तिस सुख की बधवारीकै अर्थ है। अर दुःख भोगताकै तिस दुःखका नाशकै अर्थ है।

भावार्थ—जैसे जाकै पूंजी होइ ताकों भी धन कुमावना योग्य है, अर जाके ऋण होइ तांकों भी धन कुमावना ही योग्य है। पूंजी होइ अर धन कुमावै तो पूंजी की वृद्धि होइ, अर ऋण होइ अर धन कुमावै तो ऋण का नाश होइ। तैसें जाकै पुण्य उदय तैं सुख पाईए है ताकों भी धर्म ही करनां योग्य है। अर जाकै पाप उदय तैं दुख पाईये है ताकों भी धर्म करनां योग्य है। सुखी होइ^२ धर्म करै तैं सुख बधवारी होइ। दुखी होइ धर्म करै तो दुःखका नाश होइ। तातैं सर्व अवस्था विषै धर्मका साधन भला है, यहु तात्पर्य जाननां।

आगैं विषय सुख है सो धर्मका फल है यातैं धर्म की रक्षा कर्ता पुरुष करि विषय सुख भोगवना योग्य है। सोही कहै है—

(आर्या छंद)

धर्मारामतरूणां फलानि सर्वेन्द्रियार्थसौख्यानि ।

संरक्ष्य तांस्ततस्तान्युच्चिन्तु यैस्तैरुपायैस्त्वम् ॥१९॥

१. संसारी विषै ज० पू० १८-५ ।

२. अभाव हो है—वर्तः सुखस्य ज० उ० १९-९

अर्थ—समस्त इन्द्रिय विषयनिकै सुख है तै धर्मरूपी जो बाग ताकै सम्यक्त्व संयमादिक वृक्ष तिनिके फल हैं। तातैं तू जिहिं तिहिं उपायनिकरि तिन वृक्षनिकों राखि तिनका फलनिको चूटि ग्रहण करिहू।

भावार्थ—जैसे स्याना पुरुष है सो जिन बागनिका वृक्षनिके चोखे फल लागै तिन वृक्षनिकी तो रक्षा करै अर उनके फल लागै तिनिको ग्रहण करै। तैसैं तू विवेकी है तौ जिन धर्मका अंगनिका सुखरूप फल निपजै तिस धर्मके अंगनिकी तो रक्षा करि अर उनका फल सुख निपजे ताकौ भोगि। ऐसे ही किये सुखका विच्छेद न हो है। इहाँ विषय सुखकी प्राप्ति कै अर्थधर्मकौ आचरता जो जीव ताकै विषय सुखका अभाव हो है। ऐसी आशाकाकरि तू धर्मतैं विमुख मति होहु जातैं ऐसा न्याय है—

आर्या छंद

धर्मःसुखस्य हेतुर्हतुर्न विराधकः स्वकार्यस्य ।

तस्मात् सुखभंगभिया मा भूर्धर्मस्य विमुखस्त्वम् ॥२०॥

अर्थ—धर्म है सो सुखका कारण है। बहुरि सुखका कारण होइ सो अपने कार्यका विरोधी होइ नाहीं। तातैं तू सुखका भंग होने का भय करि धर्म तैं विमुख मति होहु।

भावार्थ—लोकविषै यह प्रसिद्ध है जिस कार्यका जो कारण, होइ सो तिस कार्यका सो कारण विरोधी नाश करणहारा न होइ। इहाँ सुख तो कार्य है अर धर्म कारण है, सो धर्म सुखका भंग कैसे करेगा? क्योंकि सुख तो धर्मका फल है। सो अपने फलकों आपही कैसे घातें? तातैं^१ धर्मका साधन करता “मेरा सुख विषै भंग होगा” ऐसा भयकरि धर्म विषै अनादर मति करें। कारण तैं कार्य की वृद्धि ही हो है, तातैं धर्मसाधै सुखकी वृद्धि ही हो है, ऐसा निश्चय करि धर्मविषै प्रीति ही करनी योग्य है।

आगैं इस ही अर्थ करैं दृष्टान्तद्वारा करि दृढ़ करता संता सूत्र कहै है—

आर्या छंद

धर्माद्वाप्तविभवो धर्म प्रतिपाल्य भोगमनुभवतु ।

बीजाद्वाप्तधान्यः कृषीवलस्तस्य बीजमिव ॥२१॥

१. कैसे करेमा तातैं ज० पू० २०-४

अर्थ—धर्म तें पाया है सुखसंपदारूप विभव जानें, ऐसा जीव है सो धर्मको पालिकरि भोगको भोगवो । जैसे बीज तें पाया है अन्न जिहि ऐसा खितहड़ है, सो तिस अन्नका बीजको राखै ।

भावार्थ—जैसे अन्न निपजै है सो बीज बोएँ निपजै है । बीज बिना खेदखिन्न भयें भी अन्न निपजै नाही । तातै स्याना खितहड़ ऐसे बिचारेः— जो मेरे बोजतें अन्न भया है सो अब भी बीज राखै मेरे आगें भी अन्नकी प्राप्ति होसी । तातें बीज कौं राखि अन्न भोगवना । तैसेँ सुख हो है सो धर्म किये हो है । धर्म बिना खेदखिन्न भयें भी सुख होइ नाही । तातें तू स्याना है सो ऐसे बिचारि जो मेरे धर्मका फल तें सुख भया है सो अब भी धर्म साधै मेरे आगामी सुखकी प्राप्ति होसी । तातै धर्मको राखि सुख भोगवना । बहुरि ऐसैं विचारि जैसे धर्म रहै तैसेँ पुण्य का उदय तें निपज्या सुखकौं भोगवो ।

आगे धर्मतें कैसा फल पाइए है ऐसे पूछे कहे है—

आर्या छंद

संकल्प्यं कल्पवृक्षस्य चिन्त्यं चिन्तामणेरपि ।

असंकल्प्यमसंचिन्त्यं फलं धर्मादवाप्यते ॥२२॥

अर्थ—कल्पवृक्षका तो संकल्प योग्य जाकों वचनकरि जाचिये ऐसा फल है । बहुरि चिन्तामणिका भी चितवन योग्य मनकरि जाकों जाचिये ऐसा ही फल है । बहुरि धर्मतें संकल्प योग्य नाही, अर चितवन योग्य नाही । ऐसा कोई अद्भुत फल पाइए है ।

भावार्थ—लोकविषै कल्पवृक्ष चिन्तामणिकौं उत्तम फलके दाता बताइए है सौ वै तो वचन मनकरि जाकौं जाचै ऐसा किंचित् विषय सामग्रीरूप ही फलको निपजावै है । बहुरि धर्म है सो वचन मन गोचर नाही, ऐसा अद्भुत सुखरूप मोक्ष फलकौं निपजावै है । तातें कल्पवृक्ष चिन्तामणि तें भी धर्मकी प्राप्तिकौं उत्तम जानि याका साधन विषै तत्पर रहना योग्य है । आगें ऐसा धर्म काहै तें उपार्जन करिए है ऐसे पूछै कहै है—

आर्या छंद

परिणाममेव कारणमाहुः खलुः पुण्यपापयो प्राज्ञाः ।

तस्मात् पापापचयः पुण्योपचयश्च सुविधेयः ॥२३॥

अर्थ—बुद्धिवंत हैं ते निश्चयकरि पुण्य पापका कारण परिणाम ही कौ कहै हैं । तातें पापका नाश अर पुण्यका संचय भले प्रकार करना योग्य है ।

भावार्थ—कोई शरीरकी सामर्थ्य न होनेकरि, कोई धनादिक न होने करि, कोई सहायादिक न होनेकरि धर्म साधन न होता मानै है सो यहु भ्रम है। परको दोष लगाइ उपदेशको निरर्थक करो मति, तुम सुनौ। पुण्य अर पापका कारण परिणाम ही है। जातै पर का किया पुण्य पाप होता नाहीं। अपने ही परिणामनितै पुण्य पाप हो है, तातै अशुभ परिणाम छाँडना शुभ परिणाम करना। ऐसे तुमको पापका नाश, पुण्य का संचय करना योग्य है।

आगै जे जीव धर्मका संचय को न करत संते विषय सुखनि को भोगवै हैं तिनकी निंदा दिखावतां सूत्र कहै है—

आर्या छंद

कृत्वा धर्मविघातं विषयसुखान्यनुभवन्ति ये मोहात् ।

आच्छिद्य तरून्मूलात् फलानि गृह्णन्ति ते पापाः ॥२४॥

अर्थ—जे जीव मोह भ्रमतै धर्मका घातकरि विषय सुखनिकों भोगवै हैं ते पापी मूल तै वृक्षनिकों छेदि करि फलनि कों ग्रहै हैं।

भावार्थ—जैसे कोई पापी फल ही कों चाहै परंतु रौद्रभावनि तै वृक्षकों जड़तै काटि जे फल हाथि लागै तिनकों ग्रहण करै, तैसे मोही जीव सुख ही कों चाहै। परंतु पाप बुद्धितै धर्मका घात करि जो सुख उदै आवै ताको भोगवै। इहाँ इतना समझना जैसे वृक्ष कों काटो वा राखो फल तो जेता पाइए है तितना ही हाथि लागै। वृक्षकों काटें आगामी फलप्राप्ति होनी नाहीं, राखै आगामी फल प्राप्ति होइ। तैसे धर्मको राखौ वा घातौ। सुख तो जेता उदय होना है सो ही होसी। धर्म कों घातें आगामी सुख प्राप्ति होनी नाहीं। राखै आगामी सुखकी प्राप्ति हो है। इहाँ प्रश्न जो धर्म का घात करि सुखका भोगवना कहा, अर धर्मकों राखि सुखका भोगना कहा, ता का उत्तर। धर्म का अवसर विषै भी पापरूप रहना, अन्यायरूप पाप कार्य करना मिले विषयनितै घने विषयनि की तृष्णा करनी, कषाय-परिणाम तीव्र राखनै। इत्यादि प्रवृत्ति लिए विषय-सुखका भोगवनां सो तौ धर्मका घातकरि सुखका भोगवनां जाननां। बहुरि धर्मका अवसर विषै धर्म साधना। अन्यायरूप पापकार्य न करना। मिले विषयनि विषै संतोष-रूप रहना। कषाय बहुत न करनी इत्यादि प्रवृत्ति लिए। किछू विषयसुख का जो भोगवना सो धर्म राखि सुखका भोगवना जानना। बहुरि जहाँ कषाय ही न होइ तहाँ विषय सामग्रीका त्याग किये दुख सामग्री मिले भी निराकुल रहे है। हाँ तहाँ परमार्थ धर्मकों राखि परमार्थ सुखका भोग-

वना जानना । इहाँ तर्क—जो यह उपदेश छिपावनेमात्र है । व्यक्तरूप नहीं, जातें तिस विषयसुखका भोगवने विषै धर्म उपार्जन करने को सर्वथा असमर्थपनों है ऐसे तर्क किये कहै हैं:—

आर्या छंद

कर्तृत्वहेतुकर्तृत्वानुमतैः स्मरणचरणवचनेषु ।

यः सर्वथाभिगम्यः स कथं धर्मो न संग्राह्यः ॥२५॥

अर्थ—कर्तापिनों सो कृत, अर हेतुकों कर्तापिनों सो कारित, कर्ताका अनुसारी अभिप्राय सो अनुमोदन, इनि तीनों करि स्मरण, मनका विचार अरू आचरण चरण, काय करि अंगीकार अर वचनभाषा करि बोलना इनि विषै जो धर्म सर्व प्रकार पावनें योग्य है सो धर्म कैसे संग्रह न करना ?

भावार्थ—जो एक ही प्रकार धर्म होता होइ तौ सर्व विषयनिका त्याग किये ही धर्महोइ परन्तु यावत्सर्व विषयका त्याग न होइ सकै तावत् अनेक प्रकार करि थोरा थोरा धर्म ही का संचय करना । जैसे अनेक व्यापारनि करि धन भेला करै तैसे अनेक प्रकार धर्म साधनिकरि धर्मका संचय करना । सो धर्मका संचय नव प्रकार हो है । मन करि धर्म करना, करावना, अनुमोदना । वचन करि धर्म करना, करावना, अनुमोदना । काय करि धर्म करना, करावना, अनुमोदना । बहुरि धर्मके अनेक अंग हैं तिन-विषै जो धर्म बनै सोई करना । बहुरि एक भी धर्म थोरा घनां जेता बनै तेताही करना । ऐसे सर्व प्रकार धर्म का संचय हो है, तातें सुलभ है । बहुरि तू कठिनता प्रगटि करि धर्मविषै निरुद्यमी भया चाहै है सो जैसे निरुद्यमी पुरुष दरिद्री होइ दुःख पावै तैसे तू पुण्यहीन होइ नरकादिविषै दुःख पावैगा । तातें धर्मका संग्रह ही करना योग्य है ।

आगें ऐसा धर्म जीवनिका चित्तविषै वर्तमान होत संते बहुरि न वर्तमान होत संते जो फल हो है ताकौ दिखावता संता सूत्र कहै है—

वसन्ततिलका छन्द

धर्मो वसेन्मनसि यावदलं स तावात्,

हन्ता न हन्तुरपि पश्य गतेऽथ तस्मिन् ।

दृष्टा परस्परहतिर्जनकात्मजानां

रक्षा ततोऽस्य जगतःखलु धर्म एव ॥२६॥

अर्थ—हे शिष्य ! तू देखि, यावत् मन विषै अत्यर्थपनें धर्म बसै है, तावत् अपने हननेवालाका भी आप हननेवाला न हो है । बहुरि तिस धर्म-

को गए संतै पिता पुत्रनिके भी परस्पर घात क्रिया देखिए है। तातै प्रकट इस जगतकी रक्षा धर्म ही है।

भावार्थ—धर्म बुद्धि होतै तौ काहू कोई न मारै अर धर्मबुद्धि न होइ तब वह वाकौ मारै। तातै धर्म न होइ तो बलवान् निर्बल कौ मारै। उसतै बलवान् वाकौ मारै। ऐसै सर्व लोक नष्ट होइ। परंतु स्वयमेव लोकविषै धर्मकी प्रवृत्ति है, तातै जीवनिके परस्पर रक्षा करनेके भी परिणाम हैं। तिर्यचादिक भी बिना प्रयोजन छोटे जीवनिकौ भी न मारते देखिए हैं। तातै लोकका रक्षक धर्म ही है। बहुरि जो धर्म लोकका रक्षक है सो ताके साधनेवालाका रक्षक कैसे न होगा ? तातै अपना भी रक्षक धर्म ही कौ जानि ताका सेवन करना योग्य है।

इहाँ प्रश्न:—जो विषय सुखकौ भोगवते प्राणी तिनकै पापका उपजना संभवै है, तातै धर्म कैसे होइ ? ऐसी आशंका करि उत्तर कहै हैं:—

आर्या छन्द

न सुखानुभवात् पापं पापं तद्वेतुघातकारम्भात् ।

नाजीर्णं मिष्टान्नान्ननु तन्मात्राद्यतिक्रमणात् ॥२७॥

अर्थ—सुखके भोगवने तै पाप नाही है। तिस सुखका कारण जु है धर्म ताका घात करनेवाला जो कार्य ताका आरंभ करनेतै पाप हो है। इहाँ दृष्टान्त कहै है :—मिष्ट अन्नका भोजन तै अजीर्ण न हो हैं। तिस भोजनकी मात्रादिकताका उल्लंघन तै अजीर्ण हो है।

भावार्थ—जैसै अजीर्णका कारण मिष्ट भोजन नाही, आसक्तता तै अधिक भोजनादिक अजीर्णका कारण है। तैसै पापका कारण विषयसेवन नाही, धर्मका घात करि बहुत कषायादिककी प्रवृत्ति सो पापका कारण है। इंद्रादिक देव वा भोगभूमिया वा तीर्थकरादिककै विषय सामग्री पाइए है तिन का सेवन भी है। परंतु नरकादिकका कारण पापका बंध होता नाही। बहुरि तंदुल मच्छादिकै बहुत तृष्णातै वा पर्वतादिककै मिथ्यात्वादिकतै बहुत विषयसेवन किये बिना ही धर्मका घात करने करि नरकादिकका कारण पाप बंध हो है। तातै मोतै विषय छूटै नाही, विषय छूटै बिना धर्म होइ नाही, ऐसी आशंका करि धर्मकी अरुचि करनी नाही। इहाँ प्रश्न:—जो ऐसै हैं तो विषय छोरि मुनि पद काहे कौ ग्रहण करै है। ताका समाधान:—नरक तिर्यचादिरूप बंधको कारण जो पाप ताका अभाव तौ गृहस्थ अवस्थाविषै ही साधन किये हो है। परंतु इहाँ स्वर्गादिकका कारण परंपरा मोक्षकौ साधै ऐसा धर्म सधै है। तातै धर्म वृद्धिकरि जो जीव

साक्षात् मोक्ष कौं साध्या चाहै सो सर्वविषय छोरि मुनिपद अंगीकार करै है ।

ऐसै आगै कोऊ तक करै है:—जो शिकार खेलना आदि हिंसादिरूप कार्य ताकै भी धर्मवत् सुखका कारणपनाकी सिद्धि है । जैसे धर्म तैं सुख उपजता कहौ हौ तैसे शिकार आदि कार्यनितैं भी सुख होता देखिये है, तातैं धर्मका घातक आरंभ तैं पाप हो है ऐसा कैसे कहौ हौ ? जातैं पापका कारणकै सुखका कारणपनाका विरोध है । ऐसी आशंका करि ताकौं निराकरण करता संता सूत्र कहै है :—

शादूल विक्रीडित

अप्येतन्मृगयादिकं यदि तव प्रत्यक्षदुःखास्पदं ।

पापैराचरितं पुरातिभयदं सौख्याय संकल्पतः ॥

संकल्पं तमनुज्झितेन्द्रियसुखैरासेविते धीधनै—

धर्म्यै कर्मणि किं करोति न भवान् लोकद्वयश्रेयसि ॥२८॥

अर्थ—जो यह शिकार आदि कार्य हैं सो प्रत्यक्ष दुःखका ठिकाना हैं । बहुरि पापी जीवनकरि आचारया हुवा है । बहुरि आगै नरकादिविषैं बहुत भयका दाता है । ऐसा है तो भी तेरे संकल्प जो मनका उल्लास तातैं सुखकै अर्थ हो है । तिस संकल्पकौ तू धर्म कार्यनिविषैं क्यों न करै है ? कैसा है धर्म कार्य-मिलें हैं इंद्रियसुख जिनकौं ऐसे बुद्धि धनसंयुक्त जीव तिनकरि सेवनीक है । अर इसलोक-परलोकविषैं कल्याणकारी है ।

भावार्थ—शिकारादि कार्य कौं तू सुख का कारण माने है सो है तौ प्रत्यक्ष दुःखका स्थानक, जातैं तहाँ खेद, क्लेश, आकुलता विशेष हो है । परंतु तेरै तिस कार्य करनेका उल्लास भया सो तेरी मानितैं सो कार्य सुखके अर्थ हो है । बहुरि जो दुःखका स्थानक ही तेरी मानितैं सुखके अर्थ भया अर जो खेद, क्लेश, आकुलता घटनेतैं प्रत्यक्ष सुखका स्थानक धर्म-कार्य तिसविषैं तैसी जो मानि करै तो सुखकै अर्थ कैसे न होइ ? बहुरि तू जानेगा शिकार आदि कार्य तो भोगी पुरुषन के करनेके हैं, अर धर्म कार्य योगीनका करनेका है, सो ऐंसे नाहीं, शिकार आदि कार्यको तो अहेड़ी आदि पापी ही करै हैं । अर धर्म कार्यकौं चक्रवर्ती आदि महाभोगी सो आदरैं हैं । बहुरि आगामी भला जातै होइ तिस दुःखविषैं भी सुख मानिये सो शिकार आदि कार्य तौ नरकादि दुःखकौं कारण है । धर्म है सो स्वर्ग

मोक्षके सुखकों कारण हैं। तातें शिकारादि कार्य छोरि सुखके अर्थि धर्म ही अंगीकार करना योग्य है।

आगें शिकार खेलनांविषै आसक्त जे जीव तिनिकै अत्यन्त निर्दयपनां कौं दिखावता संता सूत्र कहै हैं—

अनुष्टुप्छंद

भीतमूर्तीर्गतत्राणा निर्दोषा देहवित्तकाः ।

दन्तलग्नतृणा घ्नन्ति मृगीरन्येषु का कथा ॥२९॥

अर्थ—भयवान है मूर्ति जिनकी, अर रक्षाकरि रहित अर दोषकरि रहित अर शरीर मात्र धनकरि सहित अर दाँतनि विषै लगै हैं तृण जिनिके ऐसी जै हिरणी तिनिकौं मारें है औरनविषै अदयाकी कहा बात है ?

भावार्थ—लोकविषै राजादिक समर्थ पुरुष हैं तै भी एक तो भयवान कौं न मारै, वाकू अपणें शरणें राखै। बहुरि जाका रक्षक न होइ ताकौं न मारै, अनाथकी रक्षा ही करै। बहुरि जामें चोरी आदि दोष नाहीं ताकौं न मारै, शिष्टकी प्रतिपालनां ही करै। बहुरि जाके धन न होइ ताकू न मारै, रंकनिकी सहाय ही करै। बहुरि दाँतां तिणां लियां होइ ताकौं न न मारै। मान छोड़ि निर्भय ही करै। बहुरि स्त्रीकौं न मारै। स्त्री आदि-की हत्या पुरुषार्थका धारी न करै। ऐसे एक-एक वार्ता जाकै पाइये तांकौं भी मारना युक्त नाहीं। सो हरिणीनिविषें तो ए सर्व बात पाइए हैं। तिनकौं भी शिकार खेलने वाले मारे हैं तौ उनके औरनकी दया कैसे होय ? तातें शिकारी पुरुष महानिर्दय महापापी जानने।

आगें हिंसाका त्याग रूप व्रतविषै दृढपनौं करि अनृत स्तेयका त्याग रूप व्रतविषै तिस दृढपनां करनेकौं सूत्र कहै हैं :—

आर्याछन्द

पैशुन्यदन्यदम्भस्तेयानृतपातकादिपरिहारात् ।

लोकद्वयहितमर्जय धर्मार्थयशःसुखार्थम् ॥३०॥

अर्थ—दुष्टता अर दीनता, कपट अर चोरी अर असत्य अर हत्या आदि पातिक इत्यादि पाप कार्यनि का त्याग करनैं तैं हे भव्य ! तू दोऊ लोक सम्बन्धी हितका उपार्जन करि। इहां प्रयोजन कहै हैं। धर्म, अर्थ, जस, सुख, पुण्य इनिके अर्थि ऐसा कार्य करि। एसै हम तकौं प्रेरैं हैं।

१. मुनि हत्या० ज० पू० ३०-४

भावार्थ—अनृत, स्तेय विषै गर्भित ऐसा दुष्टपनां, दीनपनां, ठिगपनां, चोरपनां, असत्य बोलना महापाप रूप पातककार्य करनां इत्यादिक कार्यनि-का त्याग करना योग्य है। इनका त्याग इसलोक-परलोक विषै हितकारी है। जातें इनिके त्यागतें अणुव्रत, महाव्रत रूप धर्म हो है। बहुरि लोक-विषै विश्वास होतें करि धन उपार्जनके निमित्त बनै हैं। बहुरि लोक विरुद्ध कार्य छोड़नें तें जस हो है। बहुरि आकुलता मिटनेतें वा सुखका कारन तें सुख हो है। बहुरि साता वेदनीयादि पुण्यका बन्ध हो है। तातें इस लोक परलोकविषै इनका त्यागकौं हितकारी जानि हे भव्य ! तुम ऐसा कार्य करौ।

इहाँ तर्कः—जो व्रतीनिकै भी उपसर्ग दुःख आयें अपनी रक्षाकै अर्थ हिंसा, अनृत आदि पाप कदाचित् होइ, ऐसा तर्क किए इहाँ सूत्र कहै है.—

(वसन्ततिलका छन्द)

पुण्यं कुरुष्व कृतपुण्यमनीदृशोऽपि

नोपद्रवोऽभिभवति प्रभवेच्च भूत्यै ।

संतापयन् जगदशेषमशीतरश्मिः

पद्मेषु पश्य विदधाति विकासलक्ष्मीम् ॥३१॥

अर्थ—हे भव्य हो ! तुम पुण्यकौं करौ। जातें पुण्य किया तिसको, जिस सारिखा न देख्या ऐसा भी उपद्रव है सो नाहीं पीडे है। बहुरि वह उपद्रव है सो ही विभूति कै अर्थ हो है। तूँ इहाँ दृष्टान्त देखि-समस्त जगतकौं आताप देता ऐसा सूर्य है सो कमलनि विषै विकासरूप लक्ष्मीकूँ करे है।

भावार्थ—उपसर्ग दुःखदायक कारण है सो पुण्यवाननि कौं दुःख देनेको समर्थ नाहीं। जैसे सूर्य औरनिकौं आताप उपजावे, कमलनिको प्रफुल्लित करै। तैसे उपद्रव है सो पाप उदय होइ तिनकूँ दुःख देवै है। जिनकै पुण्यका उदय है तिननिकूँ विभूतिका दाता हो है। सो प्रत्यक्ष देखिये है। जिस उपद्रवविषै सर्वकूँ बड़ा दुःख होई अर कोईके पुण्य उदय होय ताकै तिस उपद्रव ही विषै धनादिकका लाभ हो। तातें धर्मात्मा पुरुष है सो उपसर्ग आएँ भी धर्मको छोडि हिंसादि पाप रूप नाहीं प्रवर्तें हैं।

आगे पुरुषार्थ ही तें शत्रुनिकौं दूरि करि उपसर्ग निवारनिकौं समर्थ-पनां है। तातें पुण्यकरि पूरी परीं^१ किछू सिद्धि नाहीं ऐसी आशंका करि समाधान करने रूप सूत्र कहै हैं।

शार्दूलविक्रीडित छन्द

नेता यत्र बृहस्पतिः प्रहरणं वज्रं सुरा सैनिकाः,
स्वर्गो दुर्गमनुग्रहः खलु हरेरैरावणो वारणः ।
इत्याश्चर्यबलान्वितोऽपि बलभिद्भग्नः परैः संगरे,
तद्व्यक्तं ननु दैवमेव शरणं धिग्धिग्वृथा पौरुषम् ॥३२॥

अर्थ—जहां बृहस्पति तो मन्त्री अर वज्र हथियार अर देव सेनाविषै चाकर, स्वर्ग गढ़ अर हरि जो ईश्वर ताका अनुग्रहसहाय, अर ऐरावत हाथी पाईए ऐसा आश्चर्यकारी बलसहित है तो भी इन्द्र है सो औरनि करि संग्रामविषै हारया । तातैं निश्चय करि यह प्रगट हैः—दैव है , सो ही शरण सहाय है । वृथा निःफल जो पुरुषार्थ है सो ताकू धक्कार है, धिक्कार है ।

भावार्थ—जो जीव पुरुषार्थकरि दुःख निवारना मानि जैसे अपना पुरुषार्थ सबै तैसे उपाय करै है ताकों कहै हैंः—पुरुषार्थ तौ निष्फल है । पुण्य कर्म है ताहीका नाम दैव है, सोई सहाय है । ताकों होतैं पुरुषार्थ भी कार्यकारी हो है । उस बिना पुरुषार्थ किछु कार्यकारी नाहीं । इहां वैष्णव मत अपेक्षा उदाहरण कह्या । जो देवतानिका इन्द्र बलवान है तौ भी दैत्यनि करि संग्राम विषै हारया । अथवा यहीका जैन मत अपेक्षा अर्थ कीजिये तौ इन्द्र नामा विद्याधर भया है वानें मंत्री आदिकका बृहस्पति आदि नाम धरया है, सो बहुत पुरुषार्थकरि संयुक्त भया सो भी रावण करि हारया, तातैं पुरुषार्थकौ निरर्थक जानि पुण्यकर्म ही कार्यकारी जानि पुण्यका साधन करना योग्य है ।

इहां तर्कः—जो हिंसादिकका त्याग देख्या नाहीं ताका आचरण करने-वाला भी असंभव भासै है । जातैं तिनकी पहलैभई वार्तामात्र ही सुननेमें आवै है । ऐसे कहतां पुरुषको उत्तर कहै हैंः—

शार्दूलविक्रीडित छन्द

भर्तारः कुलपर्वता इव भ्रुवो मोहं विहाय स्वयं
रत्नानां निधयः पयोधय इव व्यावृत्तवित्तस्पृहाः ।
स्पृष्टाः कैरपि नो नभो विभ्रुतया विश्वस्य विश्रान्तये ।
सन्त्यद्यापि चिरन्तनान्तिकचराः सन्तः क्रियन्तोऽप्यमी ॥३३॥

अर्थ—चिरकालवर्ती बड़े मुनि तिनिके शिष्य उनके मार्ग विषै प्रवर्तते ऐसे केई सत्पुरुष अब भी प्रत्यक्ष पाईए हैं। कैसे हैं सत्पुरुष—आप मोहको कुलाचलवत् पृथ्वीका भर्ता है। जैसे कुलाचल पर्वत पृथ्वी कौ धारै है अर पृथ्वीविषै मोहकरि^१ रहित, तैसे सन्त पुरुष हितविषै लगाई पृथ्वी-स्थित जीवनिकों पोखै है अर तिन जीवनिविषै मोह करि रहित है। बहुरि कैसे हैं—समुद्रवत् रत्ननिके निधि हैं, अर नाही है धनकी वांछा जिनकै ऐसे भी हैं। जैसे समुद्र मोती आदि रत्ननिकी खानि है अर धनकी वांछा करि रहित है तैसे सन्त पुरुष सम्यग्दर्शन आदि रत्ननिकी खानि हैं अर धनादिककी वांछाकरि रहित है। बहुरि कैसे हैं? आकाशवत् किनिहू करि स्पर्शित नाही हैं। अर विभुता जो परम महंतताकरि सर्व जगतकी विश्रान्तिके अर्थ होइ रहै हैं। जैसे आकाश कोई पदार्थनिकरि लिप्त नाही, अखंडपनाकरि सर्व जगतका रहनेका स्थान है, तैसे सन्त पुरुष कोई पर भावनि करि लिप्त नाही, अर महंतपनाकरि सर्व जगतका दुःख दूर करनेका ठिकाना है। ऐसे केई सत्पुरुष अब भी पाईए हैं।

भावार्थ—जिस कालविषै इस ग्रंथकी रचना भई है तिस कालविषै यथार्थ मुनि धर्मके धारक केई जीव रहि गए अर शिथिलाचारी बहुत भए। तहां काहू ने ऐसी तर्क करी जो मुनिधर्म बहुत कठिन है ताका आचरणकी चौथे कालविषै भई बातें ही सुनिए हैं। परंतु कोई आचरनेवाला तौ दीसता नाही। ताकौ कहै है:—अब भी कोई कोई मुनि धर्मका धारक प्रत्यक्ष पाईए है। तूं धर्म का अभाव करि अपना शिथिलाचारको पुष्ट काहैको करै है। कोई क्षेत्र काल विषै धर्मात्मा थोरे होंहि वा न होंइ तौ धर्मका^२ स्वरूप तो यथावत् ही मानना योग्य है।

आगें इन संतनिकरि आचरया जो मारग तिसतैं जुदा जु यह लोक सो संसारकी स्थिति कौ न देखता संता कहा करै है, सो कहै है:—

शिखरिणी छंद

पिता पुत्रं पुत्रः पितरमभिसंधाय बहुधा ।

विमोहादीहेते सुखलवमवाप्तुं नृपपदम् ॥

अहो मुग्धो लोको मृतिजननदंष्ट्रान्तरगतो ।

न पश्यत्यश्रान्तं तनुमपहरन्तं यमममुम् ॥३४॥

१. मोहकर ज० पू० ३३-५.

२. थोरे होइ तौ धर्मका ज० उ० ३३-७.

अर्थ—पिता तो पुत्रकों अर पुत्र पिता कों बहुत प्रकार ठिग करि मोहते सुखका है अंश जामें ऐसा राजपद पावनैको वांछे है। अहो बड़ा आश्चर्य है मूरख लोग मरण जन्मरूप डाढ़के मध्य प्राप्त भया निरंतर शरीरकों हरता जो यहु यम ताकों नाहीं अवलोकै है।

भावार्थ—जैसे कोई सिंहकी डाढ़विषै आया पशु सो अपना शरीरकों चाबता जो सिंह ताको तौ विचारै^१ नाहीं, अर क्रीड़ा करनेका उपाय करै। तहाँ बड़ा आश्चर्य हो है। तैसे जन्म मरण दशा है सो यमकी डाढ़ है। ताके बीच कालविषै प्राप्त भया यह लोक सो अपना आयुको हरता जो काल ताका तौ विचार ही करै नाहीं अर राज्यादिक पद लेनैका नांनां उपाय करै है सो यहु बड़ा आश्चर्य है। ऐसा मूर्खपनाको छोड़ि यमका चितवनि राखि विषयवांछा करनी योग्य नाहीं है।

आगे विषयनिविषै मोहित जो जीव तांके पुत्रका मारनां आदि अकार्यकी प्रवृत्ति हो है ताविषै कारण कहा है सो कहै हैं:—

अन्धादयं महानन्धो विषयान्धीकृतेक्षणः ।

चक्षुषाऽन्धो न जानाति विषयान्धो न केनचित् ॥३५॥

अर्थ—विषयनि करि अन्ध किया है—सम्यग्ज्ञानरूपी नेत्र जाका ऐसा यहु जीव है सो अन्ध तैं भी महाअंध है। इहाँ हेतु कहै हैं। अंध है सो तो नेत्रनिही करि नाहीं जानै है अर विषयकरि अंध है सो काहूकरि भी न जानै है^२।

भावार्थ—अंधपुरुषकों तौ नेत्रनिही करि नाहीं सूझै है। मन करि बिचारना, कानां करि सुनना इत्यादि ज्ञानतौ वाके पाईए है। बहुरि जो विषयवासनाकरि अंध भया है ताके काहू द्वारै ज्ञान न होइ सकै है। विषयनिविषै दुःख होता नेत्रनि करि दीसै, मनकरि विचारै, भासै, सीख देनैवाला सुनावै इत्यादि ज्ञान होनैके कारन बनै परंतु विषय वासनाकरि ऐसा अंध होइ काहूको गिनै नाहीं। तातैं अंध होना निषिद्ध है। तिसतैं भी विषयनिकरि अंध होना अति निषिद्ध जानना।

आगे कहै हैं किंचित् विषय की वांछा करि तिनिकै अर्थ तेरी प्रवृत्ति है सो यह वांछा तौ सब ही प्राणीनिकै है परंतु या वांछा करि कौनके मनवांछित पदार्थकी सिद्धि भई ? काहूके ही न भई।

१. ताका तो ते विचार ही करै नाहीं मु० ३४-१३.

२. काहू करि न जानै ज० उ० ३५-३.

आशागर्तः प्रतिप्राणि यस्मिन् विश्वमणूपमम् ।

कस्य किं कियदायाति वृथा वो विषयैषिता ॥३६॥

अर्थ—अहो प्राणी ! यह आशारूप औंडा खाडा सब ही प्राणीनके है। जाविषै समस्त त्रैलोक्यकी विभूति अणू समान सूक्ष्म है। जो त्रैलोक्यकी विभूति एक प्राणीके आय परै तौ हूं तृष्णा न भाजै। कौनकै कहा कैतायक आवै। तातैं तेरै विषयकी वांछा वृथा है।

भावार्थ—त्रैलोक्य विषै विभूति तौ अल्प अर एक-एक जीवके आशा रूप गर्त कहिये आ खाड़ा अगाध जाविषै त्रैलोक्यकी विभूति अणू समान है सो एक हू जीवका खाडा कैसे पूर्ण होय। तातैं तेरे विषयकी अभिलाषा वृथा है।

आगैं कहै हैं कि याहीतैं विषय सुखकूं छाँडि करि महा पुण्यके उपाजिवे निमित्त मुनि प्रवर्तैं है। या विषयकै सुखकी प्रवृत्तिकरि भव-भव-विषै नवे नवे शरीर धरै हैं। तातैं जै आत्मा-कल्याणविषै प्रवीण हैं ते विचारि आत्म-कार्यविषै प्रवर्तैं हैं। जो समस्त प्रभाव है सो पुण्यका फल है सो ही दिखावै है।

शार्दूल विक्रीडित छंद

आयुः श्रीवपुरादिकं यदि भवेत् पुण्यं पुरोपाजितं

स्यात् सर्वं न भवेन्न तच्च नितरामायातितेऽप्यात्मनि ।

इत्यार्याः सुविचार्य कार्यकुशलाः कार्येऽत्र मंदोद्यमा

द्रागागामिभवार्थमेव सततं प्रीत्या यतन्तेतराम् ॥३७॥

अर्थ—या जीवके सुर मनुष्यादिविषै दीर्घायु, लक्ष्मी, सुन्दर शरीर जो होय है सो पूर्व जन्म पुण्य उपाजिवे करि हैं। जाने पुण्य उपाज्याहोय ताकै सर्व होय। अर जो पुण्य उपाज्या न होय तो अनेक उद्यम खेद करै तोऊ सर्वथा कछू ही न होय। तातैं कार्यविषै प्रवीण पुरुष विचारि करि या भवके कार्यविषै तो मंद उद्यमी हैं अर शीघ्र ही आगामी भवके अर्थ प्रीति सेती निरंतर अत्यन्त यत्न करेहैं।

भावार्थ—पूर्व भवविषै जानै दया, दीन, तपादिक करि विशेष पुण्य उपाज्या होय ताहीकै दीर्घ आयु, सुन्दर काय, विभूत्यादिक होय है। अर

जानें पुण्य न उपाज्या सो अधिक उद्यम करै, अति खेद खिन्न होइ तोऊ कछू ही न होय, ऐसा विचार विवेकी पुरुष या भव के कार्य विषै तो मंद उद्यमी हैं अर शीघ्र ही पर भवकै सुधारवे अर्थ अति प्रीति करि विशेष यत्न करै हैं ।

आगे कोऊ प्रश्न करै है कि या भवके सुखके साधक जे विषय ते पूर्व पुण्यके प्रसाद तैं आय प्राप्त भये, तिनि विषै काहै को मंद उद्यमी होय, ताका समाधान करै हैं :—

शार्दूल विक्रीडित छंद

कः स्वादो विषयेष्वसौ कटुविषप्रख्येष्वलं दुःखिना

यानन्वेष्टुमिव त्वयाऽशुचिकृतं येनाभिमानामृतम् ।

आज्ञातं करणैर्मनः प्रणिधिभिः पित्तज्वराविष्टवत्

कष्टं रागरसैः सुधीस्त्वमपि सन् व्यत्यासितास्वादनः॥३८॥

अर्थ—कड़वे विष तुल्य जे ए विषय तिनविषै का स्वाद है । तृष्णाकरि अत्यन्त दुःखीकी नाई इन विषयनि कौं भोगवे निमित्त तैं अपनां महंतता रूप अमृत मलीन कीया सो बड़ा कष्ट है । अर मनके^२ सेवक जो ये इन्द्रिय तिनिका आज्ञाकारी होय विषयनिविषै प्रवर्त्या । जैसे पित्तज्वरका वेठ्या जो प्राणी ताहि वस्तुनिका स्वाद विपरीत भासै तैसे तू सुबुद्धि है तौऊ विषयाभिलाषी भया थका राग रस करि विपरीति स्वादी भया ।

भावार्थ—जैसे पित्तज्वर वारे कू वस्तुनिका स्वाद विपरीत भासै तैसे तू रागज्वरकरि विपरीत स्वादी भया । कड़वे विष समान ए विषय तिनविषै कहा स्वाद है ? परन्तु तोहि स्वादु सा भास्या अर इनि ही कू मनोज्ञ जानि दूढत भया । विषयाभिलाषकरि महा दुखी जो तू सो अपना महन्तता-रूप अमृत अशुचि करता भया । जो विषयाभिलाषी होय महंतता सर्वथा न रहे ।

आगे कहै हैं कि विषयासक्त जो तू अर काहू ही वस्तुविषै नाहीं निवर्त्या है चित्त जाका सो तेरे भखिवेकी असामर्थता तैं कछू उबरचा, सो उबरचा, भावनि तैं तौ तू सर्व भक्षी ही भया ।

अनिवृत्तेर्जगत्सर्वं मुखादवशिनष्टि यत् ।

तत्तस्याशक्तितो भोक्तुं वितनोर्भानुसोमवत् ॥३९॥

१. जे विषय तृष्णा करि अत्यन्त मु० ३८-३

२. मलीन कीया अर मनके ज० पू० ३८-६

अर्थ—निवृत्तितैं रहित जो तूं सर्व जगतकी माया ताकै अंगीकार करबे-
की है अभिलाषा जाकै सो भावनितैं तौ तैं कछु ही न छोड्या । अर तेरे
मुख तैं जो कछु बच्या सो भोजनकी अशक्तितैं बच्या । जैसे राहू रवि शशि
कों निगलता हुता सो निगल न सक्या तातैं बचे ।

भावार्थ—यह जीव ऐसा विषयासक्त अर तृष्णातुर है जो सर्व जगतकी
विभूति अर त्रैलोक्यके पिषय याहि प्राप्त होय तोऊ तृष्णा न मिटै । परन्तु
जो कछु उबरयो सो भोगवेकी असमर्थतातैं उवरया । जैसे राहू रवि शशि-
कों भखि न सक्या तातैं उबरै ।

आगे कहै हैं कि दैवयोगतैं करुणारूप भया है चित्त जाका अर मोक्ष
लक्ष्मीकी अभिलाषा करि हिंसाकी निवृत्ति कों इच्छे है ऐसा तूं, सो तोहि
बाल्यावस्था ही तैं सर्वथा परिग्रहका त्याग ही करना, ऐसा दिखावै है :—

शार्दूलविक्रीडित छन्द

साम्राज्यं कथमप्यवाप्य सुचिरात् संसारसारं पुनः

तत्त्यक्त्वैव यदि क्षितीश्वरवराः प्राप्ताः श्रियं शाश्वतीम् ।

त्वं प्रागेव परिग्रहान् परिहर त्याज्यान् गृहीत्वापि ते ।

मा भूमौ तिकमोदकव्यतिकरं सपाद्य हास्यास्पदम् ॥४०॥

अर्थ—हे भव्य ! जैसे अगले बड़े बड़े राजानिमें कोइक पुण्यके उदयकरि
चक्रवर्ति पदका राज्य संसारविषं सार सो चिरकाल भोगि करि शाश्वती
निर्वाण विभूति ताहि प्राप्त भए । निर्वाण पदका कारण परिग्रहका त्याग
ही है । तातैं तू पहली ही परिग्रहका त्यागकरि कुमार अवस्था ही विषै
मुनि पद धरि । बाल ब्रह्मचर्य समान और वस्तु नाहीं । ए परिग्रह तजिबे
योग्य ही हैं । जिनि चक्रवर्तिपद भोग्या तिनिहू तज्या, तब मुक्त भए ।
तातैं जे राज नाहीं करैं, अर विवाह नाहीं करै तिनि समान और नाहीं ।
अर तेरे ऐसी अभिलाषा है जो इनि परिग्रहनि कूं गहि करि बहुरि तजूं
सो ऐसी कामनाकरि तू भेषधारीके लाडू—कीच नाईसी^१ कहवति कराय
लोकनिपैं हास्या मति करावै ।

भावार्थ—एक भौतिक भेषधारी भिक्षाकों भ्रमता हुता सो काहू नैं
ताकै पात्र विषै लाडू डारया सो लेकरि जाय था, मारगमें पग आखट्या
सो लाडू पात्रमें तैं मलीन जायगाँ जाय पड्या । तब तानैं लाडू उठाय

१. लाडू कीसी मु० ४०-९

पात्रमें डारया । तब काहूँ कही तँ बुरा किया, ऐसी जायगांका परचा लाडू न लेनां । तब यह कहता भयाः—तू चुप होय रहू । मैं यह लाडू न भखोंगा । परन्तु आश्रमविषै लेजाय धोय करि डारि द्यूंगा । तब लोगनि बहुत हास्य करी अर कही—तू लाडू न भखै अर धोय करि डारै तो मलीन जायगांका उठाय पात्रमें क्यों डारै ? पड्या ही रहनै दे । सो जैसे लाडूकै उठायवे करि भौतिककीं हास्य भई तैसेँ तू हू कहै है जो मैं परिग्रह सम्पदा भोगि पीछे तजूंगा सो यह माया मलिन जायगांके पडे लाडू समान है । तोहि अंगीकार ही करना योग्य नाहीं । तजनी तौ है ही तो ग्रहण ही काहे-कू करै । जिमि चक्रवर्त्यादि राजानि राज संपदा भोगई तिनहूँ तजी तब मुक्त भये, सो तू कुमार अवस्था ही तँ तजि, ज्यों उनहूँ तँ उत्कृष्ट होइ । जैसे कहू एक पुरुषकै कीच लगा था सो धोयकरि उज्वल भया । अर जो कीच लगावै ही नाहीं सो सर्वोत्कृष्ट है । अर कीच लगाय कर धोया चाहै सो हास्यका स्थानक होय ।

आगँ कहँ हैं कि शाश्वती निर्वाण विभूति ताकै साधक निग्रंथ मुनि ही हैं । गृहस्थावस्थाविषै निर्वाणका साधन न करि सकै, यही दृढ करि दिखावै है—

शार्दूलछन्द

सर्वं धर्ममयं क्वचित् क्वचिदपि प्रायेण पापात्मकं
क्वाप्येतद् द्रव्यत्करोति चरितं प्रज्ञाधनानामपि ।
तस्मादेष तदन्धरज्जुवलनं स्नानं गजस्याथवा
मत्तोन्मत्तविचेष्टितं न हि हितो गेहाश्रमः सर्वथा ॥४१॥

अर्थ—यह गृहस्थाश्रम है सो सर्वथा या जीवकू कल्याणकर्ता नाहीं । जैसे मतवाला आदमी अनेक उन्मत्त चेष्टा करै तैसे यह गृहस्थाश्रम बुद्धि-वान जीवनिहूँ कै अनेक चरित्र करै है । कबहू तौ सामायिक पडिकूना पोसहसंयुक्त उपवासादिककरि जीवकू केवल धर्ममई ही करै है । अर कबहूक स्त्री सेवनादिककरि पापमयी करै है । अर कबहूक पूजा प्रभावना यात्रा चैत्य चैत्यालय निर्मापण इत्यादि कार्यानिकरि पुण्य पाप दोऊमयी करै है । तातँ यह गृहस्थाश्रम आंधेका जेवड़ी बटना, ता समान है, अथवा गज स्नानवत् है, बावरेकी सी चेष्टा है ।

भावार्थ—यह गृहस्थाश्रम जीवकू हितकारी नाहीं । उन्मत्त पुरुषकी चेष्टा है । कबहूँ तौ सर्वथा दयारूप सामायिक पोसह तिनकरि धर्म ही

उपाजें । कबहूक स्त्रीसेवन शृंगारादिक करि पाप ही उपाजें । अर कबहूक पूजा, प्रतिष्ठा, यात्रा, चैत्यालय निर्माण इत्यादि कार्यनि करि विशेष पुण्य अल्प पाप उपाजें है । तातें यह गृहस्थाश्रम तजिबे ही योग्य है, कल्याणकारी नाही । जैसे आंधा जेवडीकू वलै सो उधडती चली जाय, अर हाथी स्नान करै सिर परि धूरि डारै, तातें उन्मत्तचेष्टा है ।

आगै कहै हैं कि शाश्वती मोक्षसंपदा तिसका जो साधक होय सो उपकारी कहिए । यह गृहस्थाश्रम शिवसम्पदाका साधक नाही । तातें या विषै जीवका हित नाही । यह गृहस्थावस्था अर या विषै असि कहिये खड्गवृत्ति अर मसि कहिये स्याही ता करि लिखनीवृत्ति, अर कृषि कहिये खेती अर वाणिज्य कहिये व्यापार सो सब दुःख ही के साधक हैं । इनमें सुखका साधक कोऊ नाही ऐसा दृढ करि दिखावै है—

शार्दूल विक्रीडित छन्द

कृष्ट्वोप्त्वा नृपतीन्निषेव्य बहुशो भ्रान्त्वा वनेऽम्भोनिधौ

किं क्लिश्नासि सुखार्थमत्र सुचिरं हा कष्टमज्ञानतः ।

तैलं त्वं सिकतास्वयं मृगयसे वाञ्छेद्विषाज्जीवितुं

नन्वाशाग्रहनिग्रहात्तव सुखं न ज्ञातमेतत् त्वया ॥४२॥

अर्थ—हे जीव ! तू या गृहस्थाश्रमविषै सुखकै अर्थि कहा क्लेश करै है, यामैं सुख नाही । तू हलसूँ धरती जोति बीज वाहै है अर खड्ग धारण-करि राजानिकू सेवै है, अर लेखन वृत्तिकरि उद्यम करै है, अर वाणिज्य-वृत्तिकरि वन अर समुद्र विषै बहुत भटकै है । अज्ञानतैं चिरकाल ए कष्ट करै है सो हाय हाय ! तू बालू रेतविषै तेल दूढै है । अर विषतैं जीया चाहै है । अहो प्राणी ! आशारूप ग्रह ताके निग्रहतैं ही तोहि सुख है, तूषणाकरि सुख नाही । यह तैं न जाण्या तातैं अजाण हुवा परिश्रम करै है ।

भावार्थ—गृहस्थाश्रमविषै असि, मसि, कृषि, वाणिज्य ए ही उपाय सो सब दुखदाई, इनमें सुख नाही । खेतीका तो प्रगट खेद निजरि ही आवै है । सदा क्लेश, कुग्रामवास, क्रियाकी हीनता, मानभंग, स्वचक्र-परचक्र आदि सप्त ईतिका भय । अर खड्गधारी आजीविकानिमित्त नृपकू सेवै है सो नृपतिसेवा महाकष्टकारी है । जीवकाकै आर्थि जीव ही दे है । अर व्यापारी व्यापारके आर्थि समुद्रनिमैं जहाज बैठे जाय हैं सो कबहूक जहाज ही डूबि जाय है । अर महागंभीर वननिमैं भटकै हैं । इनकै दुख कहाँ लौं कहैं । नाना प्रकारकी हानि-वृद्धिकरि सदा व्याकुल ही रहै हैं ।

१. सिकतासु यन्मृगयसे मु० ४२-१.

अर लेखनीधर लेखा करते करते खेद-खिन्न होय है। अल्प प्रयोजनकै अर्थि सदा पराधीन ही रहै। इनि उपायनिमें तू सुख चाहै है सो बालू रेत में तेल हेरै है। अर विषतैं जीया चाहै है। यह विपरीत बुद्धि तजि, आशारूप खोटा ग्रह तेरै अनादि तैं लाग्या है। या करि तैं कबहू सुख न पाया। अब याके निग्रहतैं सुख है सोतैं अब तक न जान्यां तातैं भव भ्रमण किया।

आगै कहै हैं कि सुखका उपाय संतोष ही है। ठौर ठौर ग्रंथनिमें आशाका निग्रह ही उपदेश्या है सो यह न जानते ए प्राणी विपरीत चेष्टा करै हैं।

आशाहुताशनग्रस्तवस्तुच्चैर्वंशजां जनाः ।

हा किलैत्य सुखच्छायां दुःखधर्मापनोदिनः ॥४३॥

आशारूपी अग्नितैं जरे, कनक कामिनी आदि वस्तुनिकौं निश्चयसेती भले जानि सुखके अर्थि अर तापका निवारिवे अर्थि आयकरि बांसको छाया ग्रहै सो वृथा है, ताकरि घामका आताप न मिटै।

भावार्थ—बांसकी छाया तापहारी नाहीं, विघ्नकारी है। बांस आपसि में घसि जरि उठै तो बैठनिहारो भस्म होय जाय। अर बांसका गोभा निकसनी आवै तो तत्काल शरीर भिदि जाय त्यौं ही विषयका सेवनहारा या भव तौ इनके उपार्जनतैं तथा सेवनतैं अथवा वियोगतैं महा दुखी होय है। सदा तूष्णा करि व्याकुल भया खेदरूप है। अर पर भव नरकनिगोदकूं प्राप्त होय है। ए विषय सर्वथा सुखकारी नाहीं। संसारी जीव विवेक बिना आशारूप अग्निकरि, जरया कनक, कामिनी आदि वस्तुनिका सुख कै अर्थि अनुरागी होय है सो इनिमें रंचमात्र सुख नाहीं। ए भव-भव दुख-दाई हैं। या संसार असार विषैं सुख काहैका ! यह संसारकी माया बांसकी छाया समान है, ग्रहिवे योग्य नाहीं, तजिवे योग्य है।

आगै कहै हैं कि दैवयोगतैं काहूकै तुच्छमात्र सुख प्राप्त भया सो स्थिर नाहीं सो यह बात दृष्टांतकरि दृढ़ करै हैं:—

शार्दूल विक्रीडित छंद

खातेऽभ्यासजलाशयाऽजनि शिला प्रारब्धनिर्वाहिणा

भूयोऽभेदि रसातलावधि ततः कृच्छ्रात् सुतुच्छं क्रिल ।

क्षारं वार्युदगात्तदप्युपहतं पूति कृमिश्रेणिभिः

शुष्कं तच्च पिपासतोऽस्य सहसा कष्टं विधेश्चेष्टितम् ॥४४॥

अर्थ—निश्चयसेती या तृषातुरकी तृषा पूर्ण न होय । उदयागति कष्टकारी है । कोऊ पुरुष जलकी आशाकरि निर्वाण खोदनेका अभ्यास करता भया सो खोदतै संतै शिल निकसी । तब खोदनहारा आरंभके सिद्धि करिवेकूँ बहुरि पातालपर्यन्त खोदता भया । सो बड़े कष्टतै तुच्छ जल निकस्सा सोऊ क्षार अर दुर्गंध कृमिनिकी पंक्ति करि संजुक्त, सोऊ तत्काल सूखि गया । तातै यह उद्यम कहा करै ? उदयकी चेष्टा प्रबल है ।

भावार्थ—कोऊ जाणै मैं उपायकरि अर्थसिद्धि करूँ सो पुण्यके उदय-विना उपायकी सिद्धि न होय । सोई कथन दृष्टान्त करि दृढ करै हैं । काहू एक तृषातुर पुरुषने जलकी आशाकरि भूमि खोदनेका अभ्यास किया सो खोदतै शिला निकसी । तब खेद खिन्न होय अति औंडा पाताल पर्यंत खोद्या । तहाँ रंचमात्र जल निकस्या, सोऊ खारा अर दुर्गंध लटनि करि भरद्या सोहू तत्काल सूखि गया । तातै याका किया कहा होय ? उदयकी चेष्टा बलवान है ।

आगै कोऊ कहै है कि मैं न्याय वृत्तिकरि अर्थका उपार्जन करूँ अर संपदाकी वृद्धिकरि सुख भोगऊँ सो ऐसी बात कहै ताहि समझावै हैं :—

शुद्धैर्धनैर्विवर्धन्ते सतामपि न संपदः ।

नहि स्वच्छाम्बुभिः पूर्णाः कदाचिदाप सिन्धवः ॥४५॥

अहो प्राणी ! न्यायके आचरणकरि उपाज्या जो धन ताहू करि उत्तम पुरुषनि हू के सुख संपदा नाही बढै है । जैसे निर्मल जलकरि कदाचित् भी समुद्र नाही पूर्ण होवै है ।

भावार्थ—अयोग्य आचरण तौ सर्वथा त्याज्य ही है । अर योग्य आचरणकरि उपाज्या जो धन ताहू करि विशेष संपदाकी वृद्धि नाही । जैसे कदाचित् हू निर्मल जलकरि समुद्र नाहां पूर्ण होय है । तातै न्यायो-पाजित धन हू की तृष्णा तजि सर्वथा निःपरिग्रही होहु ।

आगै कहै हैं ऐसी कोऊ मानै है कि जो कछूक संपदाकी वृद्धि होइ सो होहु । तथापि यह गृहस्थपना, धर्म, सुख, ज्ञान अर सुगति इनिका साधन है सो या भाँति मानै ताकूँ समझावै हैं:—

स धर्मो यत्र नाधर्मस्तत्सुखं यत्र नासुखम् ।

तज्ज्ञानं यत्र नाज्ञानं सा गतिर्यत्र नागतिः ॥४६॥

अर्थ—धर्म सोई है जा विषै अधर्म नाही । अर सुख सोई है जा विषै

दुःख नहीं। अर ज्ञान सोई है जो विषे अज्ञान नहीं। अर गति सोई है जहाँ तें बहुरि पाछा आवना नहीं।

भावार्थ—जहाँ लेशमात्र हू हिंसादिक पाप है तहाँ धर्म नहीं, अर जहाँ संक्लेशरूप दुःख है तहाँ सुख नहीं। अर जहाँ संदेहरूप अज्ञान है तहाँ ज्ञान नहीं। अर जहाँ जाइ करि बहुरि पाछा आइए, जन्म-मरण होइ, सो गति नहीं।

आगै कोऊ आशंका करै है—जो ऐसे अविनाशी सुखादिक तो कष्ट-साध्य हैं अर यह धनका उपाजन मुखसाध्य है, तातें याही विषे प्रवृत्ति करिये, सो ऐसी आशंका करनहारेकूं समझावे हैं:—

वसंततिलका छंद

वार्तादिभिर्विषयलोलविचारशून्यं

क्लिश्नासि यन्मुहुरिहार्थपरिग्रहार्थम् ।

तच्चेष्टितं यदि सकृत् परलोकबुद्धया

न प्राप्यते ननु पुनर्जननादि दुःखम् ॥४७॥

अर्थ—हे विषयके लोलुपी ! विचार रहित ! तू जो असि, मसि, कृषि, वाणिज्यादि उद्यमकरि या लोकविषे धनके उपाजिबे अर्थि बारम्बार क्लेश करै है सो ऐसा उपाय जो एक बार परलोकके अर्थि करै तौ बहुरि जन्म-मरणादि दुःख न पावै। अहो ! तू धनका साधन छोड़ि धमका साधन करि।

भावार्थ—जे विषयके लोलुपी हैं अर जिनमें विचार नहीं ते खेती आदि उपायनिकरि धनके अर्थि बारम्बार उद्यम करै हैं सो श्रीगुरु दयाल होय भव्यजीवनिकूं उपदेश दे हैं—अहो ! जैसा तूं धनके अर्थि बारम्बार क्लेश करै है तैसा जो एक बार हू परलोकके अर्थि उद्यम करै तो बहुरि जन्म-मरणादि दुःख न पावै, भव सागर तें तिरै।

आगै परलोकके उपायविषे दृढ़ता उपजायवे अर्थि बाह्य पदार्थनि-विषे राग-द्वेष छुड़ावै है:—

शार्दूल विक्रीडित छंद

संकल्प्येदमनिष्टमिष्टमिदमित्यज्ञातयाथात्म्यको

बाह्ये वस्तुनि किं वृथैव गमयस्यासज्य कालं मुहुः ।

अन्तः शान्तिमुपैहि यावददयप्राप्तान्तकप्रस्फुर-

ज्ज्वालाभीषणजाठरानलमुखे भस्मीभवेन्नो भवान् ॥४८॥

अर्थ—हे जीव ! तू यथार्थ वस्तुकुं नहीं जानै है । यह इष्ट, यह अनिष्ट ऐसी कल्पनाकरि बाह्यवस्तुनिविषै बारम्बार आसक्त होय करि कहा वृथा काल गमावै है । अंतःकरणविषै शांत दशाकौं प्राप्त होहु । जो लग उदयकौं न प्राप्त भया निर्दे काल ताकी दैदीप्यमान ज्वालाकरि भयानक जो ताके मुख विषै भस्म नहीं होय ता पहली अंतःकरणविषै राग-द्वेष करि त्याग करि परम शांतदशाकौं प्राप्त होहु ।

भावार्थ—जे यथार्थ वस्तुका स्वरूप नहीं जानै हैं ते धन स्त्री राज्यादिककूं भले जानै हैं, अर दुःख दारिद्र, रोगादिककूं बुरा जानै है । ऐसी इष्ट-अनिष्ट कल्पनाकरि बाह्य वस्तुनिविषै आसक्त होय वृथा काल गमावै है, सो श्रीगुरु भव्यजीवनिकूं उपदेश दे है । अहो भव्य ! इह इष्ट अनिष्ट कल्पना तजि बाह्य वस्तुनिविषै बारम्बार आसक्त होय कहा वृथा काल गमावै है । जो लग तू कालके भयानक उठराग्निविषै भस्म न होय ता पहली रागद्वेषकूं तजि अन्तःकरणविषै शांत दशाकूं प्राप्त होहु । यह इष्ट अनिष्ट कल्पना मिथ्या है ।

आगे कहै हैं कि यह आशा रूप नदी तोहि बहाय करि भवसमुद्र विषै डारै है तातैं ता थकी तिरिबेका उपाय करि, ऐसा दिखावै हैं:—

शार्दूलविक्रीडित छन्द

आयातोऽस्त्यतिदूरमङ्ग परवानाशासरित्प्रेरितः,
किं नावैषि ननु त्वमेव नितरामेनां तरीतुं क्षमः ।
स्वातन्त्र्यं व्रज यासि तीरमचिरान्नो चेद् दुरन्तान्तक—
ग्राहव्याप्तगभीरवक्त्रविषमे मध्ये भवाब्धेर्भवेः ॥४९॥

अर्थ—हे मित्र ! तू परवस्तुका अभिलाषी भया संता आशा रूप नदीका प्रेरया अनादि कालका अनंत जन्म धरता अति दूरतैं आया है सो तू कहा न जानै है । यह आशा रूप नदी और काहू उपायकरि न तिरि जाय । या आशा रूप नदीकूं आत्मज्ञानकरि तू ही तिरिबे समर्थ है । तातैं अब शीघ्र ही स्वाधीनताकूं प्राप्त होहु । या आशा रूप नदीकूं तिरि, पैली तीर जाहु^१ नातर आशा नदीका प्रेरया भवसागरकै मध्य डूबैगा । कैसा है भवसागर-दुःखकरि है अन्त जाका ऐसा जो काल रूप ग्राह ताका कारया जो गंभीर मुख ताकरि अति भयानक है ।

१. स्वाधीनताकूं तिरि पैली पार जाहु ज० पू० ४९-९.

भावार्थ—भोग-तृष्णारूप आशा नदी ता मैं तू अनादिकाल तैं बह्या चल्या आवै है। सो याकै तिरिबेको आत्मज्ञान करि तू ही समर्थ है, और उपाय नाही। ज्ञान ही सू आशा मिटे। तातैं अब पराधीनता तजि शीघ्र ही स्वतंत्र होहु। आशा नदीकै पार जाहू, नातर संसार समुद्रकै मध्य डूबेगा या संसार सागरकै विषै कालरूप ग्राह अतिप्रबल है। सदा मुख फारै ही रहै है। ताका गंभीर मुख अतिविषम है। जगतकूं निगलै है। तातैं तू कालतैं बच्या चाहै, भवसागरके मध्य न परच्या चाहै तो आशा रूप नदीके पार जाहु।

आगै कहै हैं कि विषयकी वांछाकरि व्याकुल भया जो तू सो अयोग्य हू कू भोगवै है—

शार्दूल विक्रीडित छन्द

आस्वाद्याद्य यदुज्झितं विषयिभिर्व्यावृत्तकौतूहलै-

स्तद्भूयोऽप्यविकृत्सयन्नभिलषस्यप्राप्तपूर्वं यथा ।

जन्तो ! किं तव शान्तिरस्ति न भवान् यावद्दुराश्रामिमा-

महःसंहतिवीरवैरिपृतनाश्रीवैजयन्तीं हरेत् ॥५०॥

अर्थ—या संसारविषै नष्ट भयो है कौतूहल जिनकै ऐसे विषयी जीवनिनैं भोगिकरि जे पदार्थ छाँडे तिनकी तू बहुरि अभिलाषा करै है। ऐसा रागी भया है, जानिये कि मैं पूर्वे ए न पाये, सो ये तो तैं हू अनन्त बार भोगये अर अनंत जीवनि अनंतबार भोगए, सो तोय इनिकी सूगं न आवै। पराई उच्छिष्ट तथा अपनी उच्छिष्ट सूग आवणी है। इनि विषय-निकरि तेरे तथा और जीवनिके कहां शांति है, कब हूं नाही। जौलग ए दुराशा, अपराधके समूहरूप प्रबल बैरी तिनकी सेनाके वैजयंती कहिये जीतिकी ध्वजा समान जो आशा, ताहि तू न हरैं तौलग तेरे शांति नाही।

भावार्थ—शांतिका मूल आशाका परित्याग है। जौलग अपराधरूप बैरीनिकी सेनाको ध्वजा समान यह आशा तू न हरै तौलग शांति कहां? शांति कहां? अर ए भोग वस्तुविषय जीवनि सेय छाँडी अर तैहू अनंत बार सेय सेय छाँड़ी सो इनिकै सेवनतैं तोहि सूग न आवै। तू तो ऐसा रागी भया सेवै है जानिये कि मैं पूर्वे न पाई। यह जगतकी माया, जगतकी जूठि, अर तेरी जूठिका कहा सेवन करै, यह तोकूं उचित नाही।

१. सूग—लानि ।

आगे कहै हैं कि ता आशाकूं न तजतां थका तू अउर कहा किया चाहे है—

शार्दूल विक्रीडित छन्द

भङ्क्त्वा भाविमवांश्च भोगिविषमान् भोगान् बुभुक्षुभृशं
मृत्वापि स्वयमस्तभीतिकरुणः^१ सर्वञ्जिघांसुर्मुधा ।

यद्यत् साधुविगर्हितं हतमतिस्तस्यैव धिक् कामुकः

कामक्रोधमहाग्रहाहितमनाः किं किं न कुर्याज्जनः ॥५१॥

अर्थ—कारे नाग समान प्राणनिके हरनहारे ए भोग तिनिकै भोगवेकी है अति अभिलाषा जाकै ऐसा जो तू सो होनहार भव विगरि अपंडित मरणमरि करि सब सुख वृथा घातता भया । कैसा है तू, आप अविवेकी, परलोकके भयतै रहित, निर्दय, कठोर परिणामी, जो जो साधुनिकरि निच्य वस्तु ताहींका अभिलाषी भया । धिक्कार कामी पुरुषनि कूं । काम, क्रोध, महाग्रह तिनिकै वशि है मन जाका सो प्राणी कहा कहा न करै । सब ही अकार्य करै ।

भावार्थ—ये भोग कारे नाग समान विषके भरे तिनसैं तू अति अभिलाषाकरि कुगतिका बंध किया । परलोकका भय अर जीवनिकी दया न करी सो वृथा अपने वस सुख घाते । धिक्कार होहु या बुद्धिकूं । जो जो वस्तु साधु निदी ताहीका तू अभिलाषी भया । काम, क्रोध, महा भयंकर ग्रह हैं, इनिकै वंशीभूत भया कहा कहा अनर्थ न करै ? जीवहिंसा, असत्य, चोरी, कुशील बहु आरम्भ, धन, तृष्णा इत्यादि अनेक पाप करै । अनर्थके मूल ए विषय कषाय ही हैं ।

आगै कहै हैं कि जगतकी स्थिति क्षणभंगुर ताहि न देख ताकै भोगनि-विषै वांछा होय है—

शार्दूल विक्रीडित छन्द

श्वो यस्याजनि यः स एव दिवसो ह्यस्तस्य संपद्यते

स्थैर्यं नाम न कस्यचिज्जगदिदं कालानिलोन्मूलितम् ।

भ्रातर्भ्रान्तिमपास्य पश्यसि तरां प्रत्यक्षमक्ष्णोर्न किं

येनात्रैव मुहुर्मुहुर्बहुतरं बद्धस्पृहो भ्राम्यसि ॥५२॥

अर्थ—हे भ्रात ! तू भ्रांति तजि, कहा आंखिन करि प्रत्यक्ष न देखे है । यह जगत कालरूप पवनकरि निर्भूल करिए है । वा काहूके स्थिरता

१. संमृत्यापि समस्तभीति मु० ५१-५.

नाम मात्र हू नहीं। जा दिवसका प्रभात होय है सो ही दिवस अस्तकूँ प्राप्त होय है। तातैं तूँ कौन कारण जगत विषैं बारम्बार आशा बाँधि भ्रमै है।

भावार्थ—इह संसारका चरित्र क्षणभंगुर है। जो पर्याय धरै सो नाशकौँ प्राप्त होय है। जैसे दिवसके आरम्भविषैं प्रभात होय अर वही दिवस संध्या समै अस्त होय। यह जगत कालरूप प्रचंड पवनकरि चंचल है। बाल, वृद्ध सब ही यह जानै हैं। तोहि कहा न सूझै है। तूँ या संसार असारविषैं आशा बाँधि काहैकूँ भ्रमण करै है? भ्रांति तजि करि वस्तुका स्वरूप यथार्थ क्यों न जानै? विनश्वर वस्तुविषैं कहा वाँछा करै?

आगै कहै है कि या प्रकार जगतके स्वरूपकूँ क्षण भंगुर न विचारता जो तूँ सो तैं चतुर्गति संसारविषैं अनेक प्रकार दुःख भोगये—

शार्दूल विक्रीडित छन्द

संसारे नरकादिषु स्मृतिपथेष्युद्वेगकारिण्यलं

दुःखानि प्रतिसेवितानि भवता तान्येवमेवासताम्।

तत्तावत्स्मर सस्मरस्मितशितापाङ्गैरनङ्गायुधै—

वर्मानां हिमदग्धमुग्धतरुवद्यत्प्राप्तवान् निर्धनः ॥५३॥

अर्थ—हे जीव ? तैं या संसारविषैं नरकादिक योनिमें अत्यन्त दुःख भोगये ! जिनके स्मरण किये व्याकुलता उपजै। सो उन दुःखनिकी बात तो दूरि ही रहौ, या नर भव ही विषैं निर्धनताका धरनहारा तूँ नाना प्रकारके भोगनिका अभिलाषी कामकरि पूर्ण जे स्त्री तिनिका मंद हास्य अर कामके बाण तिनिके तीक्ष्ण कटाक्ष तिनिकरि बेध्या संता दाहेके मारे बाल वृक्षकी सी दशा कौँ प्राप्त भय; सो ए दुःख ही चितारि।

भावार्थ—तूँ अनादि कालका अविवेकी है सो क्षण-भंगुर जगत की माया सूँ अनुरागकरि संसारविषैं नरक निगोदादिक मैं अनेक दुःखनिका भोगनिनहारा तूँ भया। सो उन दुःखनिकी बाततो दूरि ही रहौ जिनका चितवन ही किये अत्यन्त क्लेश उपजै। अर ये नरभव अति दुर्लभ पाया ताहूँ मैं विषय तृष्णाकरि मुखका लेश न पाया। कामके तीक्ष्ण बाण जे मदोन्मत्त स्त्रीनिकी कटाक्ष तिनिकरि पीड्या, दाहैके झुलसे उगते वृक्षकी सी दशाको प्राप्त भया। सो इह चितारि जगतकी वाँछातैं निवृत्त होहु। जगतकी वाँछा मृगतृष्णावत् है। जैसे कोऊ मृग वनविषैं तृषातुर भाडली-

कों जल जानि दौड्या, सो जल न देखि खेदकूं प्राप्त भया । तैसें तू विषय तृष्णाकरि पीडित कनक, कामिनी आदि वस्तुनिक्कूं सुखके कारण जानि वृथा अभिलाषी भया । तहाँ लेशमात्र हू सुख नाही । काहै तैं, जो ए पदार्थ दुःख ही के कारण हैं । काहूकूं तौ किछू ही न मिले ता करि खेद खिन्न रहै । अर कदाचित् काहूकूं कछूइक मिलै तो मनोवांचित न मिलै ता करि व्याकुल रहै ।^१ अर कदाचित् कोऊ मनकी चाही हू वस्तु मिलि जाय तो थिर नाही । तातैं सदा तृषातुर ही रहै । अर ये इन्द्रिय पाँचूं ही जीवनिकूं दुःखदाई हैं । जिनि अति अनुरागकरि एक एक हू इन्द्रियका विषय सेया ते तृप्ति हू न भये, क्लेश अर नाश कूं प्राप्त भये । हाथी तौ स्पर्श इन्द्रियके अनुराग करि कागद की हथणीकूं साक्षात् जाँणि ताकें निकटि आया सो खाड़े में पड्या, सो पराधीन होय नाना दुःख भोगवता भया । अर रसना इन्द्रियके अभिलाषकरि मीन धीवरके जालमें पड्या सो प्राण ही तैं गया । अर नासिका इन्द्रियके वशि होय भ्रमर कमलकी वासतैं तृप्त न भया सो सूर्यास्त समयमें कमल मुद्रित भया तामें यह रुकि मरण-कूं प्राप्त भया । अर नेत्र इन्द्रियके विषयतैं आसक्त होय पतंग दीपककी शिखाकूं मनोज्ञ जानि पड्या सो भस्म होय गया । करण इन्द्रियकी चाहि-तैं हिरण रागका अनुरागी होय शिकारीके बाणतैं प्राण तजता भया । या भाँति एक एक इन्द्रियकै विषय सेवनतैं या दशा कूं प्राप्त भए । अर जे पाँचूं ही इंद्रियके विषय सेवैं सो भवसमुद्र में दुःख पावै ही पावै । तातैं तू विषयाभिलाष तजि, सुखका कारण वीतराग भावकूं अंगीकार करि ।

आगे कहै है कि संसारविषै परिभ्रमण करता ऐसे चरित्र आपके प्रत्यक्ष देखता तू क्यों न वैराग्य कूँहै प्राप्त होय —
शार्दूल छंद

उत्पन्नोऽस्यसिदोषधातुमलवद्देहोऽसि कोपादिवान्

साधिन्याधिरसि प्रहीणचरितोऽस्यस्यात्मनो वञ्चकः ।

मृत्युव्यात्तमुखान्तरोऽसि जरसा ग्रास्योऽसि जन्मिन् ! वृथा

किं मत्तोऽस्यसि किं हितारिरहिते किं वासि बद्धस्पृहः ॥५४॥

अर्थ—हे अनंत जन्मके धरणहारे ! अज्ञानी जीव ! तू या संसारविषै अनेक जोनिमें उपज्या महा दोषरूप धातु अर मल तिनिकरि युक्त है देह तेरा, अर क्रोध, मान, माया, लोभका धारक तू मनकी चिंता अर तनकी

१. मिलै ता करि व्याकुल रहै ज० उ० ५३-६

व्याधि तिन करि पीड़ित है। हीन आचार जे अभक्ष्य भक्षण अयोग्य आचरण तिनकरि दुराचारी है। आपका ठिगनहारा है। तू जन्म मरणके मुख में पड्या है, जराकरि ग्रसित है। वृथा उमत होय रह्या है। कहा आत्मकल्याणका शत्रु है अकल्याण विषै बांधी है वांछा तैं।

भावार्थ—संसारविषै शरीरका ग्रहणकरि जीव जन्म धरै है। सो संसारका मूल कारण कुबुद्धि, अज्ञानी जीवनिके अनादि तैं है। तातैं देह विषै आत्मबुद्धिकरि नवे नवे शरीर धरै है सो नारकीका शरीर तो महा दुःखरूप अनेक रोगमई है। अर देवनिका शरीर रोग रहित है, परंतु मनकी चिंताकरि महा दुःखरूप है। अर मनुष्य तिर्यंचनिका शरीर अनेक रोगनिका निवास, त्रिदोषरूप सप्त धातु मई महा अपवित्र है। तिनमें मनुष्यका शरीर महा मलिन आधि कहिये मनकी व्यथा, अर व्याधि कहिये शरीरकी पीड़ा, तिन करि युक्त महा दुराचारी, जीवनिका घाती, निर्दय परिणामी, असत्यवादी, पर धनका हरणहारा, पर दाराका रमणहारा, परदाराका रमणहारा, बहु आरंभ परिग्रही, पर विघ्नसंतोषी, ऐसे देहतैं कहा नेह करै ? तू क्रोध, मान, माया, लोभके योगतैं महा अविवेकी अपणां बुरा आप करै है। आत्मघाती आपकूं आप ठिगै है। अनेक जन्म मरण किये अर अब करनैकूं उद्यमी है, जरा करि ग्रसित है तौऊ परलोकका भय नाहीं, सो कहा उन्मत्त भया है। अकल्याणविषै प्रवर्त्या सो कहा आपका बैरी ही है। अब गुरुका उपदेश मानि देहतैं नेह तजि विषय कषायतैं पराङ्मुख होहु। अनाचार तजि, आत्मकल्याणकरि। बंधके कारण रागादि परिणाम तिनिका अभाव करि।

आगै कहै हैं कि आत्माके हितकारी नांही ए विषय तिन विषै तू अनुरागी भया है। परंतु वांछित विषयकी प्राप्ति बिना केवल क्लेश ही भोगवै है—

शार्दूल विक्रीडित छंद

उग्रग्रीष्मकठोरधर्मकिरणस्फूर्जद्गमस्तिप्रभैः

संतप्तः सकलेन्द्रियैरयमहो संवृद्धतृष्णो जनः ।

अप्राप्याभिमत्तं विवेकविमुखः पापप्रयासाकुल-

स्तोयोपान्तदुरन्तकर्दमगतक्षीणोक्षवत् विलश्यते ॥५५॥

अर्थ—यह प्राणी विवेकतैं पराङ्मुख, इन सब इन्द्रियनिकरि तप्तायमान भया। बढी है तृष्णा जाके सो मनवांछित वस्तुनिकूं न पायकरि

अनेक पापरूप उपायकरि व्याकुल होय है, जैसे जलके समीप विषम जो कीच ता विषे फँसा दुर्बल, बूढ़ा बलध कष्ट भोगवै है। कैसे है ए इन्द्रिय, उग्र जो ग्रीष्म ऋतु ता विषे तीव्र जो सूर्य ताकी तप्तायमान जे किरण तिनि समान आतपकारी है।

भावार्थ—जैसी तृष्णाकी बढ़ावनहारी ग्रीष्मके सूर्यकी प्रज्ज्वलित किरण तैसी प्रज्ज्वलित ए इन्द्रिय तिनिकरि बढ़ी है तृष्णा जाकै ऐसा यह अविवेकी प्राणी सो मनबाँछित वस्तुनिकूँ न पाय व्याकुल होय है। जैसे बूढ़ा, दुर्बल बलध तृषातुर जलकै अर्थि सरोवरदिके तीर गया सो जल तक तौ न पहुँच्या अर बीचि ही कीचमैं फँसा क्लेश भोगवै है तैसे विषय के अर्थि उद्यम करि मनवाँछित विषयनिकूँ न पाय क्लेशरूप होय है। विषयतृष्णा महाक्लेशकारी है। यह तृष्णा ज्ञानामृत ही तैं उपसमैं।

आगै कोऊ प्रश्न करै है कि जिनकूँ मनवाँछित विषयनिकी प्राप्ति नाहीं ते तौ क्लेश भोगते कहे सो प्रमाण, परंतु जे इंद्र चक्रवर्त्यादिक तिनकै तो विषय पूर्ण हैं सो क्लेशनिकी शांतता होयगी। या भाँति प्रश्न करै हैं ताहि समझावै हैं।

अनुष्टुप्छंद

लब्धेन्धनोज्वलयग्निः प्रशाम्यति निरन्धनः

ज्वलत्युभयथाप्युच्चैरहो मोहाग्निरुत्कटः ॥५६॥

अर्थ—अहो भव्य जीव हो ! अग्नि है सो इंधनके योगतैं प्रज्ज्वलित होय है, अर इंधनके वियोगतैं बुझि जाय है। अर यह मोहरूप अग्नि अति-प्रबल है। परिग्रहरूपी इंधनके योगतैं तृष्णारूप होय है। अर परिग्रहकी अप्राप्ति तैं व्याकुलतारूप होइ प्रज्वलै है। यह दोऊ प्रकार प्रज्वलित है। तातैं मोहाग्नि समान और अग्नि नाहीं।

भावार्थ—और अग्नि तो इंधनके योगतैं प्रज्ज्वलित होय और इंधनके वियोगतैं बुझि जाय। अर यह मोहाग्नि परिग्रहकै बढ़ते तो तृष्णारूप होय अर परिग्रहके घटते व्याकुलतारूप होय। जब असाताके योगतैं कछू न मिलै तब दुखी होय। अर साताके योगतैं कछू मिलै तब तृष्णा बढ़ती जाय सौ सूँ हजार, हजारसूँ लाख या भाँति अधिक बढ़ती जाय, संतोष बिना सुख नाहीं। तातैं दोऊ प्रकार मोहाग्नि दाहक ही है। कोई विवेकी जीव शांतभावरूप जलकरि याहि उपसमावै तब सुखी होय।

आगै कहै हैं कि विषय सुखके साधक जे स्त्री आदि पदार्थ तिनिविषैं प्रवृत्ति प्राणीनिकै मोहके माहात्म्यतैं है सो मोहकूँ निद्रारूप वर्णन करै हैं—

शार्दूल विक्रीडित छन्द

किं मर्माण्यभिनन्न भीकरतरो दुष्कर्मगमुद्गणः

किं दुःखज्वलनावलीविलसितैर्नालेढि देहश्चिरम् ।

किं गर्जघमत्तूरभैरवरवान्नाकर्णयन्निर्णयं

येनायं न जहाति मोहविहितां निद्रामभद्रां जनः ॥५७॥

अर्थ—कहा पाप कर्मरूप मुन्दर या जीवके मरमकूँ भेदता संता अत्यंत भयकारी नाहीं ? सर्वथा भयकारी ही है अथवा कहा दुःखरूप अग्निकी पंक्तिके प्रज्वलित होनेकरि या देह नाहीं जरै है ? अपितु जरै है । अर कहा गाजता जो यम ताकै वादित्रनिके भयंकर शब्द यह नाहीं सुनै है ? सदा ही सुनै है । कौन कारण यह भौदूजन अकल्याणरूप जो मोह-जनित निद्रा ताहि नांही तजै है ?

भावार्थ—जो महा निद्राके वशि होय सोऊ एते कारण पाय जाग्रत होय हैं जो कोऊ मुद्गरकी चोट मरमकी ठौर दे तो निद्रा जाती रहे अथवा अग्निका आतप देहकूँ लागै तो निद्रा जाती रहे । तथा वादित्रनिके नाद सुनै तौ निद्रा जाती रहे । सो ये अविवेकी जन पापकर्मके उदयरूप मुद्गरनिकरि मरमकी ठौर मारिये है अर दुखरूप अग्निकरि याका देह जरै है अर आजि यह मूवा, आजि यह मूवा ए शब्द यमके वादित्रनिके नाद सोऊ निरंतर सुनै है, तोऊ यह अकल्याणकारिणी मोहनिद्रा नाहीं तजै सो बड़ा अचिरज है ।

आगै कहै हैं कि मोहजनित निद्राके वशतैं यह जीव दुःखरूप असार संसारविषैं रति करै है—

शार्दूल विक्रीडित छन्द

तादात्म्यं तनुभिः सदानुभवनं पाकस्य दुष्कर्मणो

व्यापारः समयं प्रति प्रकृतिभिर्गाढं स्वयं बन्धनम् ।

निद्रा विश्रमणं मृतेः प्रतिभयं शश्वन्मृतिश्च ध्रुवं

जन्मिन् ! जन्मनि ते तथापि रमसे तत्रैव चित्रं महत् ॥५८॥

अर्थ—हे जन्ममरणके धरनहारे संसारी जीव ! तेरे या संसारविषैं निश्चय सेती एते दुःख हैं तौहू संसार ही विषै अनुराग करै है सो यह बड़ा अचिरज है । कौन कौन दुःख हैं सौ चितारि । प्रथम तो महा क्लेशका कारण तेरा शरीर तासूँ तेरा सम्बन्ध है । सदा देहसूँ देहांतर गमन करै

है, अर पाप कर्मके फल दुःख सदा भोगवै है। अर समय समय कर्मकी प्रकृतिनिकरि आप गाढा बँधे हैं, यही व्यापार है। अर निद्राविषै विश्राम करै है अर कालतँ डरै है अर निश्चय सेती निरंतर मरै है।

भावार्थ—जगतकी ऐसी रीति है—जो दुःखका स्थानक होय तहाँ कोऊ न रमै। सो यह संसार सागर महादुःखका निवास ताविषै तू रमै है, सो यह शरीरका धारण सोई दुःख। सबमें उत्कृष्ट मनुष्यका शरीर जाकरि मुक्ति होय, ताहूकी यह दशा। प्रथम तौ पिताका वीर्य अर माताका रुधिर या की उत्पत्ति। अर गर्भवास माह अशुचि तामें निवास, अधोमुख रहना अर गर्भकी अतिउष्मा सहना इत्यादि नाना प्रकारके दुःख। अर गरभतँ निकसतँ महा दुःख। बहुरि बाल अवस्थामें अति अज्ञान दशा सो कछु सुधि ही नाहीं। अर जोबन अवस्थामें काम, क्रोध, लोभ, मान, माया, मोहादि अनेक विकार तिनिकरि सदा व्याकुल अर वृद्ध अवस्थाविषै अतिशिथिलता अर देवनिका शरीर पाया तामें मन की अतिविधा, बड़ी ऋद्धिके धारी देवनिकू देखि आपकू न्यून गिनि दुखी होय, अर आपनी देवांगनानिकू तथा और देवनिकू मरते देखि दुखी होय, अर अपना मरना आवै तब तौ अति ही दुखी होय। अर तिर्यच गतिके अनेक दुःख सों विद्यमान देखिए ही है। अर नारकीनिके दुःखकी कहा बात ? वै तौ दुःखमई ही हैं। तिनिकू छेदन, भेदन, ताडन, तापनादि शरीरके दुःख अर मनकू महाक्लेश अर क्षेत्रजनित शीत-उष्ण, दुर्गधादिकका दुःख, अर सकल रोग तहाँ पाइए। अर परस्पर दुःख, अर तीजे नरक लग असुर कुमारनिका दुःख सो कहां लग कहिये। शरीर दुःख ही का निवास है। पापकर्मका फल क्लेश सदा भोगवना, अर समय समय कर्मकी प्रकृतिनि करि गाडा बंधना, अर निद्राविषै बेसुधि होना, आयुके अन्त मरना, एते दुःखनिमें सुख मानना सो बड़ा अचिरज है। तातँ इनि दुःखनिमें उदास होय सुखका मूल को जगत तँ उदासीनता सोई अंगीकार करि।

आगै कहै हैं कि जा शरीर सूँ एकता मानि अनुराग करै है सो कैसा है यह दिखावै हैं :—

शार्दूलछन्द

अस्थिस्थूलतुलाकलापघटितं नद्धं शिरास्नायुभि—

श्चर्माच्छादितमस्त्रसान्द्रपिशितैलिप्तं सुगुप्तं खलैः ।

कर्मारतिभिरायुरुद्धनिगलालग्नं शरीरालयं

कारागारमवैहि ते हतमते प्रीतिं वृथा मा कृथाः ॥५९॥

अर्थ—हे निर्बुद्धि ! यह शरीररूप घर तेरा बन्दीगृह समान है। यासूँ वृथा प्रीति मति करै। कैसा है शरीररूप बन्दीगृह, अस्थिरूप स्थूल पाषाण तिनिके समूहकरि घड्या है। अर नसा जालरूप बन्धनकरि बेढ्या है। अर चरमसौँ आछाद्या है। अर रुधिर कर सजल जो मांस ता करि लिप्त है। अर दुष्ट कर्मरूप बैरीनिकरि रच्या है। अर आयु कर्मरूप गाढ़ी भारी बेड़ी तिनिकरि युक्त है।

भावार्थ—बन्दीगृह समान और दुःखका कारण नाहीं। सो बन्दीगृह तौ स्थूल पाषाणनिके समूहकरि घडिए है, अर शरीर हाडनिकरि घड्या है। अर बन्दीगृह बन्धनकरि बेढिये है ए नसा जालकरि बेढ्या है। अर वह हू ऊपरि सूँ आच्छादित है, यह चर्मकरि आच्छादित है, अर रुधिर, सहित मांसकरि लीप्या है। वह दुष्टनिकरि रच्या है, यह कर्मरूप दुष्ट बैरीनिकरि रच्या है। अर वह बैडीनिकरि युक्त है, यह आयुरूप बैडिनिकरि युक्त है। सो ऐसा कौन कुबुद्धि है जो बन्दीगृहतै प्रीति करै ? तू महा निर्बुद्धि, जो शरीररूप बन्दीगृहतै प्रीति करै है सो तोहि या सूँ प्रीति उचित नाहीं।

आगे कहै हैं कि शरीर तो बन्दीगृह समान बताया, अर और हू वस्तु घर-कुटुम्बादि जिनसूँ तेरी प्रीति है सो कैसे हैं, यह दिखावे हैं—

मालिनी छन्द

शरणमशरणं वो बन्धवो बन्धमूलं

चिरपरिचितदारा द्वारमापद्गृहाणाम् ।

विपरिमृशत पुत्राः शत्रवः सर्वमेतत्

त्यजत भजत धर्मं निर्मलं शर्मकामाः ॥६०॥

अर्थ—घर तेरा शरणरहित है जहाँ तोहि काऊ बचावनहारा नाहीं। ए बांधव बन्धके मूल हैं। अर जासूँ तेरा अति परिचय है ऐसी जो स्त्री सो आपदारूप घरका द्वार है। अर ए पुत्र शत्रु हैं। ए सर्व परिवार दुःख ही का कारण है। ऐसा तू बिचारि करि इनि सबनि कूँ तजि। जो सुखका अर्थि है तो निर्मल धर्म कूँ भजि।

भावार्थ—या संसार असार विषै तैं सार कहा जान्या ? जिनि जिनि वस्तुनि विषै तूँ राग करै है सो सब दुःखका मूल है। घर तो शरणरहित है, जहाँ कोऊ रक्षक नाहीं, अनेक उपाधिका मूल है। अर ए बांधव बन्ध ही के कारण हैं। इहभव परभव दुःखदाई हैं। अर तूँ स्त्रीं कूँ निपट

निज जानै है सो विपतिके घरका द्वार है। अर पुत्र कूँ अति प्रिय जानै है सो तेरा बैरी है। जन्में तब तौ स्त्रीका जोबन हरै, अर बालक होय तब मिष्ट भोजन हरै, अर समरथ होय तब धन हरै। तातैं पुत्र समान और बैरी नाहीं। तातैं इन सबनिकूँ तजि। सुखका अर्थी है तो एक निर्मल जिन धर्मकूँ भजि।

आगै कहै हैं, कोऊ प्रश्न करै है:—ये गृहादिकतौ हम कूँ उपकारी नाहीं, परन्तु धन तौ उपकारी होयगा, ताका समाधान करै हैं—

शार्दूलछन्द

तत्कृत्यं किमिहेन्धनैरिव धनैराशाग्निसंधुक्षणैः,

संबन्धेन किमङ्ग शश्वदशुभैः संबन्धिभिर्वन्धुभिः ।

किं मोहाहिमहाबिलेन सदृशा देहेन गेहेन वा

देहिन् याहि सुखाय ते समममुं मा गाः प्रमादं मुधा ॥६१॥

अर्थ—हे प्राणी ! तू वृथा ही प्रमादकूँ मति प्राप्त होहु। यह समभाव ताहि सुखके अर्थ प्राप्त होहु। तेरे या धनकरि कहा ? कैसा है धन ? आशारूप अग्निके प्रज्वलित करिबेकूँ ईंधन समान है। अर हे मित्र ! तेरे निरन्तर पापके उपार्जन हारे ए सम्बन्धी अर बन्धु तिनिके ममत्त्वकरि कहा ? अर महामोहरूप सर्पके बिल समान ये देह ता करि कहा ? अथवा घर करि कहा ? तू सुखके अर्थ केवल समभाव कूँ प्राप्त होहु। वृथा ही प्रमादी होय रागादिक भावनिकूँ मत परिनमै।

भावार्थ—या जीवकूँ दुःखके कारण रागादिक अर सुखका कारण एक समभाव, ताहीकै दृढ करिबेकूँ श्रीगुरु भव्य जीवनि कूँ उपदेश दे हैं। हे मित्र ! तन, धन, भ्रात, पुत्र, परिवार, घर अर सब सम्बन्धी दुख ही के कारण हैं, इनमें सुख नाहीं। तू सुखाभिलाषी है तो प्रमादी मति होहु। समभावकूँ भजि। लाभ-अलाभ, जीवन-मरण, बैरी-बन्धु, राव-रंक, संपदा-आपदा सब सम जानि।

१. उष्पओ हरइ कलत्तं बड्ढओ लेइ बड्ढभाई ।

अत्थं हरइ समत्थो पुत्तसमो वैरिओ णत्थि ॥

२. सुखे दुखे वैरिण बन्धुवर्गे योगे वियागे भवने गने वा ।

निराकृताशेषसमत्वबुद्धेः समं मनो मेऽस्तुतवापि नाथ ॥ सामायिक पा० प० ३

आगे या समभावके दृढ़ करिबेके अर्थ राज्य-लक्ष्मीकूँ त्याज्य कहै हैं—

शार्दूलविक्रीडित छन्द

आदावेव महाबलैरधिचलं पट्टेन बद्धा स्वयं
रक्षाध्यक्षभुजासिपञ्जरवृता सामन्तसंरक्षिता ।
लक्ष्मीर्दीपशिखोपमा क्षितिमतां हा पश्यतां नश्यति
प्रायःपातितचामरानिलहतेवान्यत्र काऽशा नृणाम् ॥६२॥

अर्थ—हाय, हाय ! यह राजानिकी लक्ष्मी दीपशिखासमान बाहुल्यता-करि चंचल^१ दुरते जे चमर तिनिकी पवनकरि मानुं देखतैं देखतैं विलय जाय है । जो राज्यलक्ष्मीकी ही यह वार्ता तौ मनुष्यनिकै और लक्ष्मीके रहनेकी कहा आशा ? या राज्यलक्ष्मीकूँ चञ्चल जानि प्रथम ही बलवन्त पुरुषनितैं आप पट्ट बन्धके मिसकरि निश्चल बांधी । अर रक्षाके अधिकारी सामंत तिनकी खड्ग सहित भुजा सो ही भया वज्रपंजर ताकरि भली भांति जाकी रक्षा करी तोऊ न रहै, देखतैं देखतैं जाती रहै ।

भावार्थ—राज्यलक्ष्मी दीपशिखा समान अतिचंचल है । रक्षा करतैं करतैं तत्काल विनशि जाय है । रक्षाके अर्थ बलवन्त पुरुषनि पट्ट बन्धके मिसकरि निश्चल बांधी । अर खड्गके धारी सामन्त तिनिकी भुजारूप जो वज्रपंजर तामैं राखी तोऊ न रही । चक्रवर्तीनिकी लक्ष्मी ही क्षणभंगुर तौ औरनिके रहनेकी कहा आशा ? तातैं लक्ष्मीकूँ विनाशीक जानि अविनाशी विभूतिका उपाय योग्य है । उक्तं च स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षाविषै—

जा सासया ण लच्छी चक्कहराणं पि पुण्णवंत्ताणं ।

सा किं विधेइ रइं इयर जणाणं अपुण्णाणं ॥१०॥

अर्थ—यह लक्ष्मी महा पुन्याधिकारी चक्रवर्त्यादिकनिकै ही शाश्वती न रहै है तो औरनिके कैसे रहै ?

आगे कहै हैं—जा शरीरविषै राज्य-लक्ष्मीका पट्ट बांध्या सो यह शरीर कैसा है, अर या विषै तू कैसे दुःख भोगवे है ?

अनुष्टुप छन्द

दीप्तो भयाग्रवातारिदारूदरगकीटवत् ।

जन्ममृत्युसमाश्लिष्टे शरीरे बत सीदसि ॥६३॥

अर्थ—जैसेँ लागी है दोऊ ओर अग्नि जाके ऐसी जो इरंडकी लकड़ी ताके मध्य प्राप्त भया जो कीट सो अति खेद-खिन्न होय है। तैसेँ ता कीटकी नाई या शरीरविषैँ तू खेद-खिन्न होय है। यह शरीर जन्म-मरण-करि व्याप्त है।

भावार्थ—इरण्डकी लकड़ीकेँ दोऊ ओर अग्नि लागैँ तब मध्य आया कीट कहां जाय, अति खेद-खिन्न होय मरै। तैसेँ जन्म-मरणकरि व्याप्त यह शरीर ता विषैँ तू कीट की नाईँ अति खेद-खिन्न होय जरै है। तातैँ शरीरतैँ ममत्व तजि। जो बहुरि शरीर न धरै। या शरीरसूँ अनुराग सो ही नवे शरीर धरिवेका कारण है। ऐसा जानि महामुनि देहसूँ नेह तज्या।

आगे कहैँ हैं कि वा शरीरके आश्रित जे इन्द्रिय तिनिकैँ बशि होय तू कहा अनेक प्रकारके क्लेश भोगवे है यह शिक्षा दे है—

शार्दूल छन्द

नेत्रादीश्वरचोदितः सकलुषो रूपादिविभ्वाय किं

प्रेष्यः सीदसि कुत्सितव्यतिकरैरंहांस्यलं बृंहयन् ।

नीत्वा तानि भुजिष्यतामकलुषो विश्वं विसृज्यात्मवा-

नात्मानं धिनु सत्सुखी धुतरजाः सद्बृत्तिभिर्निवृत्तः ॥६४॥

अर्थ—हे जीव ! तू कर्मनिके उदयतैँ नेत्रादि इन्द्रियनिका प्रेरणा अति व्याकुल भया रूपादि समस्त विषयनिके अर्थ कहा खेदखिन्न होय है। इन इन्द्रियनिका किंकर ही होय रह्या है। अनेक खोटे आचरणकरि अत्यन्त पापकूँ बढावता संता तिन विषयकूँ भोगकरि तू अनन्ता भव दुखी भया। अब आकुलता तजि ज्ञानी होय समस्त विषयनिका त्यागकरि ध्यानामृततैँ आत्माकूँ पुष्ट करि सुखी होहु। मोहरजकूँ धोय उत्तम वृत्ति करि निवृत्ति होहु।

भावार्थ—यह आत्मा कर्मनिके उदयकरि शरीर कूँ धारै है अर शरीरके योगतैँ इन्द्रियनिके वशि होय विषयनिके अर्थ व्याकुल होय है। अर अनेक दुराचारकरि अत्यन्त पापनिकूँ बढावै है। विषयनिकूँ भीगी कुयोनिमें पड़े है। अर जो ज्ञानवान मलिन भाव तजि आत्माकूँ ध्यानामृत-करि पुष्ट करै है सो महा सुखी होय पाप-रज रहित उत्तम वृत्तिकरि निवृत्ति होय है। तातैँ तू ज्ञानवान होय संसार तैँ निवृत्त होहु।

आगे कोऊ प्रश्न करै है—जतीनीकैँ निर्धनपनैँ तैँ कैसेँ सुखकी प्राप्ति होय ताकूँ कहैँ हैं। जगतके जीव निर्धन अर धनवान सर्व ही दुखी हैं। यती ही महासुखी हैं—

अनुष्टुप् छन्द

अर्थिनो धनमप्राप्य धनिनोप्यवितृप्तितः ।

कष्टं सर्वेषु सीदन्ति परमेको मुनिः सुखी ॥६५॥

परायत्तात् सुखाद् दुःखं स्वायत्तं केवलं वरम् ।

अन्यथा सुखिनामानः कथमासंस्तपस्विनः ॥६६॥

अर्थ—जो निर्धन सब बातनिकै अर्थीति तौ धनबिना महादुःखी हैं । अर जे धनवंत हैं तेऊ तृप्ति बिना तृष्णाकरि महा दुखी हैं । जगतके सब ही जीव क्लेशरूप हैं । निश्चयकरि बिचारिये तो एक सुखी कहिये सन्तोषी मुनि, तेई महा सुखी हैं । पराधीन सुख तैं केवल स्वाधीन दुःख ही श्रेष्ठ है । यों न होय अर अन्यथा होय तो तपस्वी है मुनि ते सुखी ऐसा नाम कैसे पावै ?

भावार्थ—जगतविषै जे जीव हैं ते सर्वदुखी ही हैं । जे निर्धन हैं ते तो सर्व सामग्री रहित हैं । तातैं आपकू दुखी माने हैं । अर जे धनवान हैं तिनिकै तृष्णा बढती अर तृप्ति नाही सो तृप्ति बिना सुख काहे का ? तेऊ महादुखी हैं । शास्त्रमें सुखी नाम मुनि ही का है औरका नाही । जगतका सब सुख पराधीन है । सो पराधीन सुखतैं स्वाधीन दुःख ही श्रेष्ठ है । पराधीनपने में सुख मानै है सो वृथा है । अर जो पराधीनपनेमें सुख होता तो महा तपके करनहारे मुनि सुखी हैं ऐसा नाम काहेकू पावते । तातैं यह तो निश्चय भया—जिनके आशा तेही दुःखी अर जिनके आशा नाही ते सुखी । ऐ संसारी जीव सब हा आशा के दास इन्द्रियनिकै आधीनतातैं दुखी हैं अर मुनि आशाके त्यागी अर मन इन्द्रियनिके जीतनहारे तातैं सदा सुखी ही हैं ।

आगै काव्य दोय करि मुनिके गुणनिकी प्रशंसा करै हैं—

शिखरिणी छन्द

यदेतत्स्वच्छन्दं विहरणमकार्पण्यमशनं

सहायैः संवासः श्रुतमुपशमैकश्रमफलम् ।

मनो मन्दस्पन्दं बहिरपि चिरायाति विमृशन्

न जाने कस्येयं परिणतिरुदारस्य तपसः ॥६७॥

हरिणी छन्द

विरतिरतुला शास्त्रे चिन्ता तथा करुणा परा
मतिरपि सदैकान्तध्वान्तप्रपञ्चविभेदनी ।
अनशनतपश्चर्या चान्ते यथोक्तविधानतो
भवति महतां नाल्पस्येदं फलं तपसो विधेः ॥६८॥

अर्थ—मुनिनिकी कहा महिमा कहिये । जिनके स्वाधीन तो विहार है अर दीनता रहित भोजन है, अर मुनिनिके संघमें^१ निवास है । शान्तभाव ही हैं फल जाका, मनका वेग मन्द हो गया सो आत्मविचार ही में लीन हैं । चिरकाल आत्मविचार करता कबहूक बाह्य क्रियाविषै आवै है । ऐसी मुनिकी परमदशा भई सो हम न जानै यह कौनसे उदार तपकी परणति है । अतुल वैराग, अर शास्त्रका चिन्तवन, सर्वोत्कृष्ट सर्व जीवनकी दया, अर एकान्तवाद एक नयका हठग्राह सोई महा अन्धकार ताकै विस्तारकूँ भेदनहारी सूर्यकी किरण समान है बुद्धि जिनकी, अर अन्तकाल शास्त्रोक्त विधिकरि अनशन धारि शरीर तजना । ए क्रिया सत्पुरुषनिके अल्प तपकी विधिका फल नाहीं, महा तपका फल है ।

भावार्थ—सब ही जीव पराधीन हैं, इन्द्रियनिके वशि हैं । जो गमन हू करै तो कामना अर्थ । अर साधुनका विहार स्वाधीन है । जिनके कोऊ कामना नाहीं । मुनि कूँ वर्षा ऋतु बिना एक स्थान न रहना । एक ठौर रहे लोकनितैं नेह बढे । सो वैराग्यभाव की वृद्धिके अर्थ विहार करै । अर दीनता रहित भोजन करै । जगतके जीवनिका भोजन दीनतारूप है । जे दरिद्री हैं तिनिकै तो प्रगट ही दीनता दीखै है । घरमें तौ सामग्री नाहीं । पर घर तैं ल्याये कार्य सरे तो मिलना कठिन । अर जे धनवान हैं ते नाना वस्तुनिके अभिलाषी सो देश-कालके योगतैं कछू पूर्ण होय कछू न होय तातैं दीनता सहित हैं । एक मुनि ही दीनता रहित हैं, जिनके लाभ-अलाभ, रस-नीरस सब समान हैं । अर मुनिकूँ मुनियूँके संगममें रहना, ता समान कोऊ उत्कृष्ट नाहीं । लोकनिकै कुसंग है । बड़ा कुसंग तो स्त्रीकी संगति है, जाकरि काम-क्रोधादिक उपजे है । अर साधुनिकी संगतितैं काम-क्रोधादि विलाय जाँय । अर लोगनिके और अभ्यास लगी रहे हैं, साधुनिकै श्रुतका ही अभ्यास है । अर शास्त्रके अभ्यासका फल परम-

१. संगम में ज० द० पू० ६७-६८-४

शान्त भाव सो ही जिनके प्रगट भया है और मूढ़ लोग शास्त्र हू के अभ्यासकरि मदोन्मत्त होय हैं। सो यह बड़ा दोष है। मुनिके मनका वेग मन्द होय गया है, लोकनिका मन महा चंचल सदा बाह्य वस्तुनि ही विषै भटकै है। मुनिका मन आत्मविचार विषै लगी रह्या है, कबहुक बाह्य शुभ क्रियाविषै हू आवै है, अशुभ क्रियाका नाम नाहीं। यह दशा मुनियोंकी भई, सो मैं न जानूँ कौनसे उत्कृष्ट तपका फल है। जिनके अतुल वैराग्य संसार, शरीर, भोगतैं अति उदास। जगत के जीव सब ही रागी हैं जिनके राग द्वेष का तीव्र उदय है। अर अत्रत सम्यग्दृष्टि अनन्तानुबन्धीके अभाव तैं यद्यपि मिथ्यादृष्टिनि सौं रागी नाहीं तथापि अप्रत्याख्यानके उदयतै रागी हैं। अर अणुव्रती श्रावक यद्यपि अप्रत्याख्यानके अभावतैं अत्रत सम्यग्दृष्टिनि तैं अधिक हैं तथापि प्रत्याख्यानके उदयतैं अल्प रागी हैं। अर मुनिके प्रत्याख्यानका हू अभाव भया, तातैं विषयानुराग तौ सर्वथा मिथ्या, संज्वलनके उदयतैं कछू इक धर्मानुराग रह्या है सो छठै गुणस्थान है। आगै ऊपरिले गुणस्थाननि विषै वीतरागभाव ही की वृद्धि है। तातैं मुनिकै अतुल वैराग्य ही कहिये। धर्मानुराग है सो वीतराग भाव ही का कारण है। बहुरि मुनिके छठे गुणस्थान शास्त्रका चिन्तवन है। ऊपरले गुणस्थानविषै आत्मध्यान ही है। शास्त्रका ज्ञान मुनियोंका सा औरनिके नाहीं। अज्ञानी जीव तौ विकथा ही विषै आसक्त हैं, शास्त्रका अनुराग नाहीं। अर सम्यग्दृष्टी अत्रती तथा अणुव्रती श्रावक यद्यपि जिनसूत्रके अभ्यासी हैं, तथापि परिग्रहके योगतैं अल्पश्रुती ही हैं, बहुश्रुती नाहीं। शास्त्रके पारगामी बहुश्रुत मुनि ही हैं। अर जीवदया मुनिकी सी औरनिके नाहीं। अर अज्ञानी जीव तो सदा निर्दई हैं। अर अत्रत सम्यग्दृष्टि भावनिकरि तौ दयारूप ही हैं। तथापि बहु आरम्भ परिग्रहके योग तैं दया नाहीं पलै है। अर अणुव्रतीनिकै अल्पारम्भ अल्पपरिग्रहके योगतैं अल्प हिंसा है। त्रसकी तौ सर्वथा हिंसा नाहीं। थावर जीवनिकी हिंसा है। तातैं सर्वथा हिंसा न कहिये। सर्वथा अहिंसा मुनि ही कै है। मुनि महा दयावान हैं। अर मुनिनिकी बुद्धि सदा एकान्तवादरूप अन्धकारके हरनेकूँ सूर्यकी प्रभा समान है। औरनिकी बुद्धि ऐसी प्रकाशरूप नाहीं। यद्यपि सम्यग्दृष्टि श्रावकनिकी बुद्धि एकान्तवादरूप तिमिरतैं रहित स्याद्वाद श्रद्धानकूँ परिणई है तथापि मुनिनिकी शिक्षावृत्य लिये है। स्याद्वाद विद्याके गुरु मुनि ही हैं। अर अन्तकाल मुनियोंके अनशन तपकरि शरीरका तजना है। उत्कृष्ट आराधना मुनियों ही कै है। अणुव्रती श्रावकके मध्य आराधना है। अर अत्रत सम्यग्दृष्टिके जघन्य

आराधना है। और जगवासी जीव आराधना रहित विराधक ही हैं। यह मुनियोंकी अलौकिक वृत्ति कही सो अल्प तपकी विधिका फल नहीं, पूर्ण तपका फल है।

आगै कोऊ प्रश्न करै है कि तप करतें कायक्लेश होय सो अयुक्त है। शरीर धर्मका साधन सो यत्न थकी राखना, ताका समाधान करै है :—

उपायकोटिदूरक्षे स्वतस्तत इतोऽन्यतः

सर्वतः पतनप्राये काये कोऽयं तवाग्रहः ॥६९॥

अवश्यं नश्वरैरेभिरायुःकायादिभिर्यदि ।

शाश्वतं पदमायाति मुधाऽऽयातमवेहि ते ॥७०॥

अर्थ—हे प्राणी ! तेरा या शरीरविषै कौन आग्रह है जो मैं याकी रक्षा करूँ । यह तौ कोटि उपायकरि राख्या न रहै । सर्वथा परिवे ही कूँ सन्मुख है, जैसे डाभकी अणीपर पड़ी ओसकी बूँद परिवेरूप ही है । आप-थकी तथा अन्यथकी या शरीरकी रक्षा न होय । ये आयु कायादिक अवश्य विनाशीक हैं । अर इनके ममत्व तजिबेकरि जो अविनाशी पद तेरे हाथि आवै तो सहजि आया जानि ।

भावार्थ—आयु हू विनश्वर अर काय हू विनश्वर । उत्कृष्ट आयु देव-नारकीनिकी सागर तेतीस सो हू विनश्वर, तौ मनुष्य तिर्यंचनिके अल्प आयु की कहा बात ? अर देवनिका निरोग मनोहर शरीर सो हू कालकै बशि, तीर्थङ्करादि पुराण पुरुषनिका शरीर सोऊ विनाशीक तो औरनिके शरीरकी कहा बात ? तातैं यह निश्चय भया, आयुके अन्त भए शरीर न रहे, अर आयु प्रमाणतैं अधिकी नाहीं । तातै आयुका अर कायका ममत्व तजि अपने अविनाशीक स्वरूपका ध्यान कर । कायकूँ तपसंयममें लगाय आयु धर्मसूँ पूर्ण करै तो अविनाशी पदका पात्र होय । या अल्प आयु अर चंचल कायकै बदलै शाश्वता पद मिलै तो फूटी कोड़ी साटैं चिन्तामणि रत्न आया गिणिए ।

आगै दोय श्लोकनिकरि आयु कौँ विनाशीक दिखावैं हैं—

अनुष्टुप् छन्द

गन्तुमुच्छ्वासनिःश्वासैरभ्यस्यत्येष संततम् ।

लोकः पृथगितो वाञ्छत्यात्मानमजरामरम् ॥७१॥

शिखरिणीछन्द

गलत्यायुः प्रायः प्रकटितघटीयन्त्रसलिलं

खलः कायोऽप्यायुर्गतिमनुपतत्येष सततम् ।

किमस्यान्यैरन्यैर्द्वयमयमिदं जीवितमिह

स्थितो भ्रान्त्या नावि स्वमिव मनुते स्थास्तुमपधीः ॥७२॥

अर्थ—यह आयु जो है सो उश्वासनिश्वासनिकरि निरन्तर गमन करनेका अभ्यास करै है। अर ए अज्ञानी लोक ऐसी आयुतैं आपकौ अजर अमर वांछैं है। बाहुल्यताकरि यह आयु प्रगट ही अरहटकी घड़ीके जलकी नाई छिन-छिन गलै है अर यह काय हू आयुकै लार ही निरन्तर पतन होय है। काय है सो आयुकी सहचरी कहिये लार लगी है। आयु, काय ही की यह बात, तो या जीवके पुत्र, कलत्र, धन, धान्यादि अन्य पर्दार्थनिकरि कहा ? वे तौ प्रगट ही जीवनेके मूल सो दोऊ ही क्षणभंगुर हैं। बुद्धि रहित बहिरात्मा या लोकमें तिष्ठतो संतो भ्रातिकरि^१ आपको थिर मानै है। जैसे नावविषैं तिष्ठ्या भ्रान्तिकरि आपकू थिर मानै।

भावार्थ—नावविषैं तिष्ठता पुरुष चल्या जाय है, परन्तु भ्रान्तिकरि आपकू चालता न जानैं तैसे मूढबुद्धिकी स्वास-निश्वास करि निरन्तर आयु जाय है अर आयुके लार काय जीर्ण होय है तोऊ जानै है में ऐसा ही रहौंगा। जीवके कारण आयु काय, सो ही चंचल तो जीवकी कहा आशा ? जैसे निवाणका नीर अरहटकी घड़ीकरि निरन्तर निकसै तैसे स्वास-निश्वासकरि आयुकी थिति पूरण होय है। अर काय जीर्ण होय है। आयु पूर्ण^२ भए काय न रहे। तातैं आयु काय दोऊनिकू विनश्वर जानि विवेकी ममत्व तजै। आयु कायहीसूँ ममत्व तज्या तब और जे पुत्र-कलत्रादि तिनिसूँ ममत्व कैसे करै ? वै तो प्रगट ही भिन्न हैं।

आगैं कहैं हैं जौं लगि उश्वासलगि जीवना, सो उश्वास ही दुःखरूप है तो प्राणीनि कूँ कहा सुख होय ?

अनुष्टुप छन्द

उच्छ्वासः खेदजन्यत्वाद् दुःखमेषोऽत्र जीवितम् ।

तद्विरामो भवेन्मृत्युर्नृणां भण कुतः सुखम् ॥७३॥

१. बहिरात्मा भ्रांति करि ज० पू० ७१, ७२-९

२. पूरण होय है। आयु पूर्ण वही ज० उ० ७२-५

अर्थ—यह उस्वास खेदकरि उपजै तातैं दुःख ही है अर याहीके होते जीवना है । बहुरि उस्वासके अभावविषै मरना है । कहो जु प्राणीनिकै सुख कहाँतै होय ।

भावार्थ—जहाँ खेद नाही सो सुख, सो उस्वास तो खेद ही करि उत्पन्न है अर उस्वास है ताँ लग ही जीवना । तातैं जीवमें भी सुख नाही । अर स्वास गयें मरनां सो मरवेमें जीव ही नाही तौ सुख कौनके होइ । तातैं कहो जु जीवनिके सुख कहाँतै होय । या शरीरका सम्बन्ध तो दुःख ही का कारण है । देहसूँ नेह तजै वीतराग भावमें सुख होय है सो ही अंगीकार करना ।

आगै कहै हैं कि जन्म मरणके मध्य वतैं ए प्राणी तिनिकै केता काल जीवनेका विश्वास ?

अनुष्टुप्छन्द

जन्मतालद्रुमाज्जन्तुफलानि प्रच्युतान्यधः ।

अप्राप्य मृत्युभूभागमन्तरे स्युः कियच्चिरम् ॥७४॥

अर्थ—जन्मरूप तालकै वृक्षतैं जीवरूप फल पडै सो मृत्यु भूमिहीकौ प्राप्त होहि, अन्तरालमें थोरा ही रहै बहुत न रहे ।

भावार्थ—संसारमें जीवनां थोरा । जैसे वृक्षतैं फल टूटे सो पृथ्वीहीमें पडै, बीचिमें कोलग रहे । तैसे जन्में सो मरे, आयुमें कौलग रहै, थोरा ही रहै । तातैं देहादिक क्षणभंगुर जानि आत्मज्ञानके प्रभावकरि अविनाशी पदका साधन योग्य है ।

आगै कहै हैं कि जंतुनिकी रक्षाकै अर्थि अनादि कालतैं विधिने यतन किया तौऊ रक्षा न करि सक्या ।

हिरणी छन्द

क्षितिजलधिभिः संख्यातीतैर्बहिः पवनैस्त्रिभिः

परिवृत्तमतः खेनाधस्तात् खलासुरनारकान्

उपरि दिविजान् मध्ये कृत्वा नरान् विधिमन्त्रिणा

पतिरपि नृणां त्राता नैको ह्यलंघ्यतमोऽन्तकः ॥७५॥

अर्थ—विधिरूप मंत्रीनै मनुष्यनिकी अनेक उपायकरि रक्षा करी तौऊ न करि सक्या । भीतरिसौँ असंख्यात द्वीप समुद्रानिके कोटमें इनिकूँ राखें— अर असंख्यात ही द्वीप-समुद्रनिकै बाहरि तीन वातवलानिकै कोटकरि

रक्षा करी अर वाकै बाहिर अनन्ता अलोकाकाशकरि वेष्टित किये । अर जे नारकी दुष्टपरिणामी हुते ते अधोलोकमें थापे । अर ऊर्द्धलोकविषे देवनिकूँ थापे । मध्यमें मनुष्यानिकौँ राखै, तोऊ मनुष्य मरणतँ न बचै । तातँ यह निश्चय भया कि मनुष्यनि कौ पति जो विधाता अथवा चक्रवर्ती इन्द्र आदि कोऊ रक्षक नाही^२, ए काल अत्यन्त अलंघ्य है ।

भावार्थ—अनेक उपाय करिये तोऊ कालसूँ न बचिये । मनुष्यनिकौँ हीनबली जानि विधिरूप मन्त्रीनै अनेक रक्षाके उपाय किये । ऊपरिकी रक्षा तौ देवनिकरि करी, अर अधोलोकविषे नारकी थापे अर तीन वातबलामिका वारला कोट अर असंख्यात द्वीप-समुद्रनिका तीसरा मांहिला कोट इत्यादि रक्षाके उपाय किये, परन्तु रक्षा न भई । काल रोक्या न जाय । काल अलंघ्य है । तातँ शरीरकी रक्षाकौँ तजि धर्मकी रक्षा करनी । आत्मा तौ अविनस्वर है, परन्तु देहतँ नेहकरि नवे २ देह धारै है, तातँ जन्मता मरता कहिए । निश्चय नयकरि न जन्मै न मरै । ऐसा अपना स्वरूप जानि देहादिकतँ नेह तजिए तौ नवे देह न धरिये । यह ही मुक्ति होनेका उपाय है ।

आगै कहै हैं कि आयुकी स्थिति पूर्ण होतँ काल प्राण लेवैका उद्यम करै ताहि निवारिवैकौँ कौन समर्थ ?

शिखरणी छन्द

अविज्ञातस्थानो व्यपगततनुः पापमलिनः

खलो राहुर्मास्वद्दशशतकराक्रान्तभुवनम् ।

स्फुरन्तं भास्वन्तं किल गिलति हा कष्टमपरः

परिप्राप्ते काले विलसति विधौ को हि बलवान् ॥७६॥

अर्थ—हाय ! यह बड़ा कष्ट है । निश्चयसेती आयुकर्मके पूर्ण होतँ काल आय प्राप्त होय है तब ऐसा और कौन बलवान जो रक्षा करै ? कोई ही रक्षा न करि सकै । जैसे नवग्रहमें दुष्ट जो राहु सो ग्रहणका समय सहस्रकिरण जो सूर्य अपनी किरणनिकरि उद्योत किया है भुवनविषे पदार्थ जानै ताहि ग्रहै है, सो कोऊ टारिवे समर्थ नाही । जैसे ग्रहणका अउसर पाय राहु सूर्यकौँ ग्रसै है तैसे आयुके अन्तका समय पाय कालरूप राहु जीवरूप सूर्यकूँ ग्रसै है । सूर्य तो सहस्रकिरण है अर जीव अनन्त-

१. रक्षा करी । अर जे नारकी ज० उ० ७५-६

२. निश्चय भया कि जीवनिका कोऊ नाही ज० उ० ७५-७

ज्योति अनन्त प्रकाश है। कैसा है राहु अर कैसा है काल नाही जानिये है स्थान जाका, सो कालकी तौ प्रकट दशा सब ही जानै हैं अर राहुका कोऊ वार नाही। तातैं लोक याहूकौं स्थान रहित कहे हैं। अर काल तो शरीर रहित है ही अर राहुकूँ भी लोक अतनु कहे हैं। अर काल लोकनिकौं ग्रसै है सो काहूकूँ ग्रसै सो ही पापी। सो कालकूँ पापी कहै हैं। जो पापी सो ही मलीन। अर राहुकूँ पापग्रह कहे हैं अर स्याम है तातैं कालका दृष्टान्त दिया।

भावार्थ—षट् द्रव्यनिमें काल द्रव्य है सो तो अपनी अमूर्त्त जड सत्ता-करि विराजमान है, काहूका हर्ता नाही। परन्तु कालकी व्यवहार पर्याय समय, पल, घटिकादि हैं। सो जाकी थिति जा समैं पूर्ण होय ताही समय देहसूँ देहान्तर गमन करै। यह छल देखि लोक कहे हैं काल मारै है।

आगै कहै हैं कि काल कहाकरि कौन स्थानविषैं प्राणनिकौं हतै है—

वसन्ततिलका छन्द

उत्पाद्य मोहमदविह्वलमेव विश्वं

वेधाः स्वयं गतघृणष्टकवद्यथेष्टम्।

संसारभीकरमहागहनान्तराले

हन्ता निवारयितुमत्र हि कः समर्थः ॥७७॥

अर्थ—वेधा कहिए पूर्वापार्जित कर्म सो यथेष्ट ठगकी नाई निर्दई मोहमद उपजाय विश्व जो त्रैलोक्य ताकों विह्वलकरि संसाररूप भयानक वनविषैं हणै है। तहां ताहि कौन निवारिबे समर्थ ?

भावार्थ—ठिग निर्दई अर मूढ लोकनिकूँ अमलकी वस्तु दे मद उपजाय विह्वलकरि गंभीर वनमें मारै है। त्यों ही महा निर्दयी कर्मरूप ठिग मोह महामद उपजाय समस्त अज्ञानी जीवनिकूँ संसारवनविषैं हणै है, कौन बचाय सकै ? कालका कारण कर्म है। जिनके कर्म है ते कालवशि हैं। सिद्धनिकै कर्म नाही, तातैं कालवशि नाही।

आगै कहै हैं कि कोऊ देश कोऊ कालविषैं कालतैं बचनेका उपाय नाही। सर्व देश, सर्व कालविषैं काल ग्रसै है। कालका यत्न कर्मनिका परिहार सो ही कालपरिहार—

कदा कथं कुतः कस्मिन्नित्यतर्क्यः खलोऽन्तकः ।

प्राप्नोत्येव किमित्याध्वं यतध्वं श्रेयसे बुधाः ॥७८॥

अर्थ—पंडित जन जे सम्यग्दृष्टि ते आत्म-कल्याणके निमित्त यत्न करहु। काल आय प्राप्त होय तब यत्न किये न रहै। कौन समय कौन प्रकार कौन क्षेत्रविषे कहाँतें काल आवै है ऐसा विचारमें न आवै। दुष्ट काल अणचीत्या ही आवै, तातें आत्मध्यानकरि अविनाशी होनेका यत्न करहु।

भावार्थ—आत्मस्वरूपमें मग्न भए कालका निवारण होइ। रागादिकके परिहार बिना और काहू यत्नकरि कालका निवारण नाहीं। मन्त्र, यन्त्र, तन्त्र औषधादिककरि कालकू दुर्निवार जानि मौनि गहि तिष्ठो।

आगे कहै हैं—सब ही देश-कालादिविषे मरण होय है। कोऊ ही देश काल मृत्युतें अगोचर नाहीं, ऐसा प्रत्यक्ष देखिकरि निश्चित होइ रहै।

असामवायिकं मृत्योरेकमालोक्य कञ्चन।

देशं कालं विधिं हेतुं निश्चिन्ताः सन्तु जन्तवः ॥७९॥

अर्थ—कोऊ देश, कोऊ काल, कोऊ विधि, कोऊ कारण मृत्युतें अगोचर देखिकरि ए प्राणी निश्चित तिष्ठो।

भावार्थ—जगतविषे ऐसा कोऊ देश नाहीं जामें मरण न होइ, बहुरि ऐसा कोई काल नाहीं जामें प्राणी न मरै। अर ऐसी कोऊ विधि नाहीं जाकरि मरण मिटै। अर ऐसा कोऊ औषधि नाहीं, उपाय नाहीं जाकरि काय बचै, तातें सबको सर्वथा कालवशि जानि आत्मकल्याणविषे अवश्य उद्यमी होना योग्य है। एक आत्मज्ञान ही कालतें बचबेका उपाय है। सब ही क्षेत्रविषे सदा काल सर्वथा प्रकार कोऊ ही कारणकरि कोऊ ही प्राणी कालतें न बचै।

आगे आयुकू विनस्वर बताय स्त्रीकी निन्दा करते संते ताके तनकू अकल्याणका कारण दिखाबै है—

हिरणी छन्द

अपिहितमहाधोरद्वारं न किं नरकापदा-

मुपकृतवतो भूयः किं तेन चेदमपाकरोत्।

कुशलविलयज्वालाजाले कलत्रकलेबरे

कथमिव भवानत्र प्रीतः पृथग्जनदुर्लभे ॥८०॥

अर्थ—तू या स्त्रीके कलेवरविषै कौन कारण प्रीति करै है। यह स्त्रीका कलेवर कल्याणके भस्म करनेकूँ अग्निज्वालाका समूह है। अर तू कहा प्रत्यक्ष न देखे है, ए स्त्रीका शरीर नरककी आपदाका उपड्या द्वार है। अर तू तो स्त्रीके शरीरसूँ बारम्बार अनुराग करि उपकार करै है अर वह सदा विघ्नकारी ही है। तातैँ तू तरुणीके तनतैँ प्रीति तजि। याकूँ अज्ञानी जन दुर्लभ मानै हैं, अर यह कछू वस्तु ही नाहीं।

भावार्थ—स्त्री ही संसारका मूल कारण है। जाकरि पुत्र पौत्रादि संतानकी प्रवृत्ति होय है। अर नानारूप आरम्भ परिप्रहादि चिन्तारूप क्लेश तिनिकी बड़ावनहारी है। जे निवृत्ति बधूटिकाके वर भए ते इन स्त्रीनिके त्यागहीतैँ भए। अर इन ही के संबन्धतैँ ए प्राणी चतुर्गतिविषै भ्रमै है। ऐसा जानि संसर्ग तजना।

आगैँ तहाँ स्त्रीविषै प्रीति छोड़ि सर्व प्रकार असार जु है मनुष्यपणों ताकौँ तू उत्कृष्ट धर्म उपजावनेकरि सफल करहु ऐसी शिक्षा देत सन्ता सूत्र कहे हैं—

शार्दूलछन्द

व्यापत्पर्वमयं विरामविरसं मूलेऽप्यभोग्योचितं

विश्वकक्षुत्क्षतपातकुण्डकुथिताद्युग्रामयैश्छिद्रितम् ।

मानुष्यं घुणभक्षितेक्षुसदृशं नामैकरम्यं पुनः

निस्सारं परलोकबीजमचिरात् कृत्वेह सारीकुरु ॥८१॥

अर्थ—यह मनुष्यपणों है सो घुणनिकरि खाया काणाँ साँठा ताकै समान है। कैसा है? आपदारूपी गांठनिस्यों तन्मय है। बहुरि अन्तविषै विरसि है। बहुरि मूलविषै भो भोगवनेँ योग्य नाहीं है। बहुरि सर्वाङ्गपनेँ क्षुधा गूमड़ा कोढ़ कुथितादि भयानक रोग तिनिकरि छिद्रसहित भया है। बहुरि एक नाम मात्र ही रमणीक है और सर्व प्रकार असार हैं। इहाँ याकौँ तू शीघ्र धर्म साधनतैँ परलोकका बीज करिकैँ सार सफल करहु।

भावार्थ—जैसे काणा सांठाके बीचि-बीचि तौ गांठि पाईये हे, तहाँ रस नाहीं। बहुरि अन्तविषै बांड है, तहाँ रसका स्वाद नाहीं। बहुरि आदिविषै जड़ है यहाँ रस आवता नाहीं। बहुरि बीचमें वा सर्वत्र घुणनि करि छिद्रित भया, तहाँ भी रस रह्या नाहीं। ऐसे वह काणाँ सांठा नाम-मात्र ही तो भला है। बहुरि सर्व प्रकार असार है, भोगयोग्य नाहीं। बहुरि जो उस सांठेको आगामी बीज करै तौ ताकरि बहुत मीठे सांठे

निपजैं । तातैं ऐसेहीकरि उस कांठैका ऐसे ही सफल करना योग्य है । तैसे मनुष्यपर्यायिके बीचि-बीचि तो अनेक आपदा पाइए है, तहाँ सुख नाहीं । बहुरि अन्तविषैं वृद्ध अवस्था है तहां सुखका स्वादु नाहीं । बहुरि आदि-विषैं बाल अवस्था है, तहां सुख होता नाहीं । बहुरि मध्य अवस्थाविषैं सर्वत्र क्षुधा, पीडा, चिन्ता आदि रोगनिकरि हृदयविषैं छेद परि रहे, तहां भी सुख रह्या नाहीं । ऐसे यह मनुष्य पर्याय नाममात्र ही तो भला है । बहुरि सर्व प्रकार असार है । विषय सुख भोगवने योग्य नाहीं । बहुरि जो इस मनुष्य पर्यायिकों धर्मसाधनकरि परलोकका बीज करै तौ ताकरि बहुत स्वर्ग मोक्षके सुखरूप मीठे फल निपजैं, तातैं इस मनुष्य पर्यायिकों ऐसैं हो सफल करो, यहू शिक्षा माननी योग्य है ।

आगैं ऐसे मनुष्य पर्यायिके शरीरविषैं तिष्ठता आत्मा कहा करै है सो कहै हैं—

अनुष्ठप छन्द

प्रसुप्तो मरणांकां प्रबुद्धो जीवितोत्सवम् ।

प्रत्यहं जनयत्येष तिष्ठेत् काये क्रियच्चिरम् ॥८२॥

अर्थ—यहु आत्मा दिनप्रति सूता हुआ तौ मरणकी आशंका उपजावै है अर जाग्या हुआ जीवनेका उत्सवको उपजावै है ऐसी जाकी दशा सो यहू जीव शरीरविषैं कितनैकचिरकाल पर्यन्त तिष्ठै, अपि तु न तिष्ठै ।

भावार्थ—यहु जीव सोवै तब तौ मृतकसदृश होइ जाइ अर जागै तब जीवता होइ, ऐसैं याकी प्रतिदिन दशा हुवा करै, तौ जैसें जो नित्य छिपै ताके भागनेका भरोसा नाहीं तैसें याका शरीरविषैं रहनेका भरोसा नाहीं । शीघ्र ही शरीरको छांडेगा ऐसा निश्चयकरि करना होइ सो कार्य करि लैना ।

आगैं ऐसे शरीरकै आत्माका उपकार करनेका अभाव कहि करि अब कुटंबानकै आत्मउपकार करनेका अभाव कहता सूत्र कहै हैं—

वसन्त तिलका छन्द

सत्यं वदात्र यदि जन्मनि बन्धुकृत्य-

माप्तं त्वया किमपि बन्धुजनाद्धितार्थम् ।

एतावदेव परमस्ति मृतस्य पश्चात्

संभूय कायमहितं तव भस्मयन्ति ॥८३॥

अर्थ—तू सांच कहि, जो तैं संसारविषैं बन्धुजनतैं बन्धुनिकरि करने योग्य हितरूप प्रयोजन किछू भी पाया है ! सो तौ किछू भी कुटुम्बतैं हित भया दीसता नाहीं। केवल इतना ही उनका उपकार भासै हैं जो तेरे मूएँ पीछैं एकठे होयकरि तेरा बैरी शरीर ताकों भस्म करै है।

भावार्थ—भाई बन्धु तौ उनका नाम है जो अपना किछू हित करै। सो तू जिनिको भाई-बन्धु मानै है सो इन्तैं किछू हित किया होय सो बताइ, जातैं तेरा मानना सांच होइ। बहुरि हमकों तौ केवल इनिका इतना ही हित करना भासै है जो बैरीका बैरी होय ताकों अपना हित कहिये है। सो तेरा बैरी शरीर था, सो तेरे मुएँपीछैं मिलिकरि इन्तैं शरीरको दग्ध किया। तेरा बैरका बदला लिया। ऐसे इहां युक्तिकरि कुटुम्बतैं हित होता न जानि राग न करना ऐसी शिक्षा दर्ई है।

आगै तर्क करै हैं जो विवाहादि कार्य बन्धुजनतैं होइ है ऐसा प्रतीति है, तातैं तिस बन्धुजनतैं हितरूप कार्य कैसे न हो है ऐसी आशङ्काकरि उत्तर कहै हैं—

जन्मसन्तानसंपादिविवाहादिविधायिनः ।

स्वाः परेऽस्य सकृत्प्राणहारिणो न परे परे ॥८४॥

अर्थ—संसार परिपाटीके निपजावनहारे विवाहादि कार्य, तिनके करनहारे जे स्वकीय कुटुम्ब हैं तै ही इस जीवके बैरी हैं। बहुरि जै एक बार प्राण हरै ऐसैं पर कहिये बैरी, तै वैरी नाहीं हैं।

भावार्थ—जो एक बार प्राण हरै ताको तू परम बैरी मानै है सो प्राण-नाश वाका किया होता नाहीं, आयुका अन्त आये हो है। तातैं परमार्थतैं प्राण हरनहारा वैरी नाहीं है। बहुरि जै विवाहादि कार्यनिविषैं जीवको उलझाय रागादिकके निमित्त बनावै हैं ऐसे जे बन्धुजन ते अनेक जन्म-मरणका कारण कर्मबन्ध कराया याका बुरा करै हैं। तातैं परमार्थतैं बन्धुजन वैरी हैं, जैसे देनां दिवावै सो वैरी नाहीं। जो नवीन देनां करावै सो वैरी है। तैसे प्राण हरनहारा तौ पूर्ण कर्मकी निर्जरा करावै है, तातैं बैरी नाहीं, ए बन्धुजन नए कर्मबन्धका कारण निपजावै हैं, तातैं एई वैरी हैं। ऐसा जानि इनिकों हित मानि राग न करना।

आगै बन्धुजन जे हैं ते विवाहादि विधानकरि, धन धान्य स्त्री आदि इष्ट वस्तुकों निपजावनेंकरि वांछित प्रयोजनकी प्राप्ति करनहारे हैं, तातैं तिनके शत्रुपना है, ऐसा अयुक्त वचन है, ऐसे कहे उत्तर कहै है—

अनुष्टुप छन्द

धनरन्धनसंभारं प्रक्षिप्याशाहुताशने ।

ज्वलन्तं मन्यते भ्रान्तः शान्तं संघुक्षणक्षणे ॥८५॥

अर्थ—भ्रमसहित जीव है सो आशा रूपी अग्निविषै धनरूपी ईधनका समूहको क्षेपिकरि आशा अग्निका बधावनेरूप जो संघुक्षण ताका काल-विषै ज्वलता जो अपना आत्मा ताको शान्त भया सुखी भया मानै है ।

भावार्थ—जैसे कोई बावला थोरी अग्निकरि आप जलै है । बहुरि वामै ईधन डारि अभिनको बधाइ बहुत जलनें लगा तब आपको शीतल भया मानै । तैसें भ्रम भावसहित करि आत्मा आशाकरि आप दुखी होय रह्या है । बहुरि आशाबिषै धनादिक सामग्री मिलाइ तिस आशाको बधाइ बहुत दुखी भया तब आपको सुखी मानै है । परमार्थतै सुखी नांही हो है । धनादि सामग्री मिलै तृष्णा बधै दुख बधै, तातै धनादिक दुःखका कारण है । याही तै धनादिकका कारण कुटुम्बादिक सो भी दुःख ही का कारण शत्रु जानना ।

आगै ऐसें भ्रमरूप मानता जो तू सो तेरै कहा कहा हो है सो कहै हैं—

आर्याछन्द

षलितच्छलेन देहान्निर्गच्छति शुद्धिरेव तव बुद्धेः ।

कथमिव परलोकार्थं जरी वराकस्तदा स्मरति ॥८६॥

अर्थ—स्वेत केशका मिस करि तेरी बुद्धिकी शुद्धता है सो ई शरीरतै निकसै है । तहाँ वृद्ध अवस्था सहित असमर्थ भया जो तू सो परलोककै अर्थ कैसें स्मरण करै है । किछू विचार होइ सकता नांही ।

भावार्थ—तू ऐसा विचारैगा जो यौवन अवस्थाविषै तौ धन स्त्री आदि सामग्री मिलाइ इस लोकके सुख भोगवें । अर वृद्ध अवस्थाविषै धर्म सेय परलोकका यत्न करैगे । सो वृद्ध अवस्था आए हम ऐसी उत्प्रेक्षा करै हैं जो तेरे श्वेत केश निकसै हैं ताका मिस करि तेरी बुद्धिकी शुद्धता निकसे है । बहुरि बुद्धिकी शुद्धता गए वर्त्तमान इस लोकके कार्यानिका भी विचार न होइ सकै तौ आगामी परलोककै अर्थ विचार कैसें होइ सकेगा ? तातै वृद्धअवस्था पहलै ही धनादिको दुःखका कारण जानि परलोककै अर्थ यत्न करना योग्य है ।

१. साठी बुद्धि नाठी लोकोक्ति ।

आगे जे जीव बुद्धिकी शुद्धताकरि संयुक्त होत संते अर मोहकरि रहित है चित्त जिनका ऐसे होत संते परलोककै अर्थि चिन्ता करै हैं ते जीव थोरे हैं ऐसा कहै हैं—

**इष्टार्थोद्यदनाशितं भवसुखक्षाराम्भसि प्रस्फुर-
न्नानामानसदुःखवाडवशिखासंदीपिताभ्यन्तरे ।**

**मृत्युत्पत्तिजरातरङ्गचपले संसारघोराणवे
मोहग्राहविदारितास्यविवराद् दूरे चरा दुर्लभाः ॥८७॥**

अर्थ—संसाररूपी भयानक समुद्रविषैँ मोहरूपी ग्राहका फाड्या हुआ जो मुख तिसतैँ जे दूरि विचरैँ हैं ते दुर्लभ हैं । कैसा है संसार समुद्र, इष्ट विषैँकरि निपज्या जाकरि तृप्ति होइ ऐसा सांसारिक सुख सोई खारा जल जा विषैँ पाइए ऐसा है । जैसे समुद्रविषैँ खारा जल ताकों पीएँ तृषा न मिटै तैसेँ संसारविषैँ विषयसुख हैं ताकरि तृषा दूरि न होहै । बहुरि नाना प्रकार मानसिक दुःख सोई भया बडवानल ताकरि तप्तायमान है अभ्यन्तर जाका ऐसा है । जैसे समुद्रविषैँ वडवानल है सो जलकों सोखे ऐसा तप्तायमान है तैसेँ संसार विषैँ मानसिक दुःख है सो विषय सुखकों न भोगवनेँ दे ऐसा संतापरूप है । बहुरि मरण, जन्म जरारूपी तरङ्ग तिति करि चपल है । जैसे समुद्रविषैँ तरंगनिकी पलटनि हो है तैसेँ संसाविषैँ जन्म जरा मरणादि अवस्थानिकौ पलटनि होहै ऐसा संसार समुद्रविषैँ मोहरूपी ग्राह जलचर जीव बसैँ हैं, सो अपना मुख फाडि रह्या है, उदय को व्यक्त करि रह्या है, तिसतैँ जे दूरि विचरै हैं, याके उदयविषैँ तद्रूव होइ विकारी न होहैँ ते जीव दुर्लभ हैं, थोरे हैं । जो संसारविषैँ ऐसे घनेँ होइ तो संसार कैसेँ बसै । ऐसैँ थोरे हैं याहीतैँ संसार पाइये है ।

आगे मोहके मुखतैँ दूरि विचरता दुद्धर आचरन आचरता ऐसा जो तूँ सो तेरे भलै प्रकार पाल्या हुआ भी शरीर जो ऐसे हरिणीनिकरि देखिए तो तूँ धन्य है ऐसा कहै हैं—

मन्दाकान्ता छन्द

अव्युच्छिन्नैः सुखपरिकरैर्लालिता लोलरम्यैः

श्यामाङ्गीनां नयनकमलैरचिता यौवनान्तम् ।

धन्योऽसि त्वं यदि तनुरियं लब्धबोधेर्मृगीभि

र्दग्धारण्ये स्थलकमलिनीशंकयालोक्यते ते ॥८८॥

१ . ताकरि तप्तायमान है । तैसेँ संसारविषैँ मानसिक दुःख है । ज० उ० ८७-५

अर्थ—जिनविषैँ विच्छेद न होइ ऐसे सुखकै समाज तिनकरि तौ पाल्या हुवा है अर मनोहर अङ्गयुक्त स्त्री तिनके चपल रमणीक जे नेत्र तेई भए कमल तिनकरि पूजित सन्मानित ऐसा यह शरीर था। बहुरि यौवन अवस्थाका मध्वविषैँ पाया है ज्ञान जानैँ ऐसा तूँ सो तेरा वैसा शरीर भस्म भया, वनकी स्थल कमलनीकी आशंकाकरि जो हरिणीनिकरि अवलोकिये तो तूँ धन्य है।

भावार्थ—जैसा अभ्यास होइ तैसेँ प्रवर्तेँ ऐसी प्रवृत्ति है। तातैँ दुखिया दुःख सहैँ तौ सहैँ, परन्तु पूर्वेँ पुण्य-उदयकरि सुख, समाज, स्त्री आदि कारणनितैँ परम सुखिया होय रहे थे, बहुरि ज्ञान पाएँ यौवन अवस्थाविषैँ ही दीक्षा धारि तपकरि ऐसे भए जिनिकौँ हरणी सारिखा चंचल जीव जल्या हुवा ठूठ सारिखा अवलोकैँ हैं ते जीव धन्य हैं, सर्व प्रकार स्तुति योग्य हैं। देखो अत्मज्ञानकी कोई ऐसी ही महिमा है। परम सुखिया तीर्थङ्कर चक्रवर्ति ते दीक्षा धारि मेखवत् निश्चल भए। बाहुबलि आदि ऐसा प्रतिमा योग दिया जहाँ बेलि लपटाई, सुकुमालजीकैँ सरस्यौँ चुभैँ थी सो स्यालिनी खाने लगी तौ भी निश्चल रहे, इत्यादि पुरुष भये ते धन्य हैं।

आगैँ ऐसैँ ही तेरा जन्म सफल होय, अन्य प्रकार नहीं ऐसैँ दिखावता संता सूत्र कहैँ हैं—

शार्दूल छन्द

बाल्ये वेत्सि न किञ्चिदप्यपरिपूर्णाङ्गो हितं वाहितं
कामान्धः खलु कामिनीद्रुमघने भ्राम्यन् वने यौवने ।
मध्ये वृद्धतृषार्जितुं वसु पशुः क्लिश्नासि कृष्यादिभि-
वाद्धिक्वेऽर्धमृतः क्व जन्म फलि ते धर्मो भवेन्निरमलः ॥८९॥

तर्थ—बाल्य अवस्थाविषैँ तौ तूँ सम्पूर्ण अङ्गरहित होत संता किछू भी हित व अहितकोँ नाहीं जानैँ है। बहुरि यौवनविषैँ स्त्रीरूपी वृक्षनिकौँ सघनतारूप वन ताविषैँ भ्रमता संता कामकरि अन्ध भया। बहुरि मध्य वय-विषैँ बर्धा जो तृष्णा ताकरि पशुसमान भार निर्वाह करनहार होत संता धन उपजावनैँको खेती आदि कर्मनिकरि क्लेश पावैँ है। बहुरि वृद्ध-अवस्थाविषैँ आधा मृतक भया। ऐसैँ तेरा मनुष्य जन्म है सो फलवान कहां होई निर्मल धर्म कहां होई^१।

१. बालकपनेँ ज्ञान न लहौ, तरुण समय तरुणी रत रह्यो! अर्धमृतकसम बूढापनोँ कैसे रूप लखैँ आपनोँ—छहढाल।

भावार्थ—सर्व पर्यायिनिविषै मनुष्य पर्याय धर्म साधनकों कारण है। बहुरि धर्म साधन ही तैं मनुष्य पर्याय सफल हो है। सो तेरा मनुष्य पर्यायिका काल तौ ऐसैं बीतै है। बालकपनै तौ कुछ हित-अहितका ज्ञान हें होइ सकै नाही। यौवनविषै तूं स्त्रीनिका रसिया होय कामान्ध भया। मध्य अवस्थाविषै कुटुम्बादिककी वृद्धि भई, तहां मोकों सर्वका निर्वाह किया चाहिए ऐसा विचारि धन उपजानेकै अर्थि खेद-खिन्न रहै। वृद्ध-अवस्था आएं इन्द्रिय मन शिथिल होनेतैं आधा मृतक समान हो है।

ऐसैं काल बीतैं धर्म कहां सधै, मनुष्य जन्म कैसे सफल होइ ? तातैं बाल-वृद्ध अवस्था विषै तौ वस नाही। यौवन अवस्था वा मध्य अवस्था-विषै स्त्री कुटुम्बादिकसौं राग छोडि धर्म साधन करौ ऐसै ही तुम्हारा जन्म सफल हो है।

आगैं तीनों अवस्थाविषै बुरा करनहारा जो कर्म ताका वशवर्ती होना अब तोकौं योग्य नाही, ऐसे सीख देता संता सूत्र कहै हैं—

शार्दूल छन्द

वान्येऽस्मिन् यदनेन ते विरचितं स्मृतुं च तन्नोचितं
मध्ये चापि धनार्जनव्यतिकरैस्तन्नास्ति यन्नापितः ।
वार्द्धिक्येऽप्यभिभूय दन्तदलनाद्याचेष्टितं निष्ठुरं
पश्याद्यापि विधेर्वशेन चलितुं वाञ्छम्यहो दुर्मते ॥९०॥

अर्थ—इस पर्यायविषै इस कर्मनैं बाल अवस्थाविषै जो तेरा किछु बुरा किया सो याद करने योग्य भी नाही। बहुरि मध्यावस्थाविषै धन उपजावनेका प्रकारनिकरि सो कोई दुख रह्या नाही जो तौकों न दिया। बहुरि वृद्ध अवस्थाविषै भी तेरा अपमान करि दन्त तोडनां आदि कठोर चेष्टा करी, सो तूं देखि। हे दुर्बुद्धी ! अब भी इस कर्मका वस करि ही चलने कौं चाहै है।

भावार्थ—लोकविषै कोई एक वार अपना बुरा करै ताकौं अपना बैरी जानि वाकैं आधीन रह्या चाहै नाही, वाका नाश करना ही विचारै सो इस कर्मनैं अनादि संसारतैं जो तेरा बुरा किया ताका तौ तोकौं स्मरण नाही। परन्तु इस पर्यायविषै बाल अवस्थाविषै तौ गर्भ जन्म शरीर वृद्धि आदि दशानिकरि अर मध्य अवस्था विषै धन उपार्जन आदि क्रियानिकरि अर वृद्धावस्था विषै धन दांत तोडनां आदि अपमान कार्य करनैकरि जो बुरा किया सो तूं देखै है। औसैं भी प्रत्यक्ष देखि अब भी तूं कर्म ही के आधीन

रह्या चाहै है । याका नाशका उपाय नाहीं करै है, सो यह तेरी पुरुषार्थता-की हीनता तौ ही कौं दुखदायक होसी ।

आगँ वृद्ध अवस्थाविषैँ इंद्रियादिकनिकी अैसी प्रवृत्ति देखता जो तू सो तुझकों निश्चित रहना योग्य नाहीं, अैसैँ कहै हैं—

अश्रोत्रीव तिरस्कृतापरतिरस्कारश्रुतीनां श्रुतिः

चक्षुर्वीक्षितुमक्षमं तव दशां दूष्यामि वान्ध्यं गतम् ।

भीत्येवाभिमुखान्तकादतितरां कायोऽप्ययं कम्पते

निष्कम्पस्त्वमहो प्रदीप्तभवनेप्यास्से जराजर्जरे ॥९१॥

अर्थ—वृद्ध अवस्थाविषैँ कान हैं सो मांनू औरनिकरि कीया हुआ अपमान निंदादिरूप तिरस्कार लीएं वचन तिनकों न सुन्यां चाहता संता सुननेतैँ रहित भया है । बहुरि नेत्र है सो मांनू तेरी निंद्य दशा देखनेकों असमर्थ होत संता अंधपनाकों प्राप्त भया है । बहुरि यहु शरीर है सो मांनू सन्मुख आया कालतैँ भयकरि बहुत कापै है । अैसैँ जराकरि जीर्ण भया अग्नि लाग्या मंदिरवत् शरीरविषैँ तू निश्चल तिष्ठै है सो बड़ा आश्चर्य है ।

भावार्थ—मरण तो सर्व अवस्थाविषैँ हो है । तातैँ स्याना होय सो तौ निश्चित रहै नाहीं, पहले ही परलोकका यत्न करै । बहुरि वृद्धअवस्था आएँ तौ अवश्य मरण होनेका नेम है । बहुरि विषयादिकके कारन सर्ग शिथिल भए, अब भी इहां ही रहनेकी आशाकरि निश्चित होय रह्या है । सो जैसैँ कोई आगिकरि बलता मंदिरविषैँ निश्चित तिष्ठै ताका आश्चर्य होय, तैसैँ तेरी दशा देखि हमकू आश्चर्य्य भया है । अब निश्चित रहे उपायका अभाव देखि तोकौं सावधान किया है ।

आगँ तहां तिष्ठता जीवकों सीख देते संता, “अति परिचितेषु” इत्यादि सूत्र कहै हैं—

आर्या

अतिपरिचितेष्ववज्ञा नवे भवेत्प्रीतिरिति हि जनवादः ।

त्वं किमिति मृषा कुरुषे दोषासक्तो गुणेष्वरतः ॥९२॥

अर्थ—जिनका बहुत परिचय संसर्ग भया होय तिनविषैँ तो अनादर होइ अर नवीनविषैँ प्रीति होइ अैसी लोकोक्ति है । बहुरि तू अैसैँ रागादि-दोषनिविषैँ आसक्त होत संता अर सम्यग्दर्शनादि गुणनिविषैँ प्रीति न करत संता तिस लोकोक्तिकौं मिथ्या कैसैँ करै है ।

भावार्थ—लोकविषैँ तो जैसे प्रसिद्ध है जाका बहुत सेवन भया हो तिसविषैँ अनादर होइ, अर जो अपूर्व लाभ होइ तिस विषैँ प्रीति होइ । सो तेरे रागादिकका सेवन तौ अनादितैँ भया तिसविषैँ ही तेरै आसक्तता पाईए है अर सम्यग्दर्शनादिकका अपूर्व लाभ है तिसविषैँ तेरी प्रीति नाहीं सो वह लोक प्रसिद्ध वचन झूठ कैसेँ करै है यह बड़ा आश्चर्य्य है ।

आगैँ दोषनिविषैँ आसक्त व्यसनी हित-अहितकी भावना न करता ऐसा जो तूँ सौँ तैँ संसारविषैँ मरणादि दुःख पाया, ऐसा दृष्टांतसहित दिखावता संता सूत्र कहै हैं—

बसन्ततिलका छन्द

हंसैँन भुक्तमतिकर्कशमम्भसापि
नो संगतं दिनविकासि सरोजमित्थम् ।
नालोकितं मधुकरणे मृतं वृथैव
प्रायः कुतो व्यसनिनां स्वहिते विवेकः ॥९३॥

अर्थ—जी कमल है सो हंसनिकरि भोग्या नाहीं है । अति कठोर है । जलकरि भी एकीभूत नाहीं किया है, दिन ही विषैँ फूलै है । ऐसैँ भ्रमर है तींह विचार न किया । बहुरि वृथा ही गंधका लोभी होय मूवा सो व्यसनी है तिनकैँ बाहुल्यपनैँ अपने हितविषैँ विवेक कहांतैँ होइ, न होइ ।

भावार्थ—इहां अन्योक्ति अलंकारकरि दृष्टांत ही करि दाष्टांत का सूचन कीया है । जैसेँ भौरा कमलविषैँ गंधका लोभतैँ तिष्ठता ऐसा विचार नांही करै है जो हंस याकां सेवन न किया है यह कठोर है, जलतैँ न्यारा ही रहै है, रात्रि विषैँ मुद्रित हो है । बहुरि वह भौरा आसक्त हुवा तहां ही मरण पावै है, तैसेँ सरागी जीव विषयसामग्रीनिविषैँ सुखका लोभतैँ सेवन करता ऐसा विचार नांही करै है जो महान पुरुष इनका सेवन न कीया है, ए कठोर दुखदायक है, निर्मल आत्मस्वभावतैँ न्यारे ही रहै हैं, पाप उदय आए विघटि जाय हैं । बहुरि वह सरागी वृथा ही पापबंधकरि नरकादिकका पात्र हो है । सो व्यसनी होइ तिनकैँ अपने हितका विचार होइ सकता नांही । आशक्तताकरि पहलैँ तौ किछू न भासै, फल लागै तब आपही दुख भोगवै ।

आगैँ तिस दोषका न अवलोकनेँविषैँ सम्यग्ज्ञानका अभाव है सो कारण है, जातैँ संसारविषैँ भ्रमता प्राणीकैँ तिस सम्यग्ज्ञानकी प्राप्तिको अतिदुर्लभपनोँ है जैसेँ कहै हैं—

प्रज्ञे दुर्लभा सुष्टु दुर्लभा सान्यजन्मने ।

तां प्राप्य ये प्रमाद्यन्ते ते शोच्याः खलु धीमताम् ॥९४॥

अर्थ—संसारविषै विचाररूप बुद्धि होनी ही दुर्लभ है। बहुरि परलोकके अर्थिं सो बुद्धि होनी अतिदुर्लभ है। बहुरि तिस बुद्धिकौ पाइकरि जे प्रमादी रहै हैं ते जीव ज्ञानवानोंके सोचने योग्य है।

भावार्थ—एकेंद्रियादि असैनीपर्यंत सर्व अर अपर्याप्त आदि केई सैनी इनिके तो मनका विचार है ही नाहीं। अर संसारविषै इन ही पर्यायनिविषै बहुत भ्रमण करना तातें प्रथम तौ बुद्धिकी प्राप्ति होनी ही कठिन है। बहुरि कदाचित् कोऊके बुद्धिकी प्राप्ति होई तौ परलोकके अर्थि धर्मरूप विचार होनां महाकठिन है। अनन्तवार मनसहित होइ तौ भी धर्मबुद्धि किसीही जीवके हो हैं। बहुरि कोई भाग्यकरि धर्मबुद्धिकौ भी पाइकरि जे सावधान नाहीं रहै हैं, धर्म साधनविषै शिथिल रहै हैं, तिनकी चिंता बुद्धिवानोंके हो है जो असा अवसर पाइ चूके हैं, इनिका कहा होनहार हैं। तातें धर्मबुद्धि पाइ प्रमादी होना योग्य नाहीं है।

आगै पाई है बुद्धि जिनूने अर अद्भूत पराक्रमीके धारी हैं, बहुरि लक्ष्मी के विलासका अभिलाषाकरि राजानिकी सेवा करै हैं तिनका पश्चात्ताप करता संता सूत्र कहै हैं—

वसन्त तिलका छन्द

लोकाधिपाः क्षितिभुजो भुवि येन जाता-

स्तस्मिन् विधौ सति हि सर्वजनप्रसिद्धे ।

शोच्यं तदेव यदमी स्पृहणीयवीर्या-

स्तेषां बुधाश्च वत किंकरतां प्रयान्ति ॥९५॥

अर्थ—जिस धर्म विधानकरि लोकके स्वामी राजा भये तिस सर्वलोक-विषै प्रसिद्ध धर्म विधानका होत संतें जो वांछने योग्य है पराक्रम जिनका ऐसै ए ज्ञानी तिन राजानिका किंकरपनाकों प्राप्त होय हैं, सोई सोचने योग्य है। ऐसा कार्य काहेकौ करै है इस विचारतें हमकू खेद हो है।

भावार्थ—राज्यपद है सो धर्मका फल है। असा लोकविषै प्रसिद्ध है। बहुरि धर्म साधनकी सर्व सामग्री मिलनेतें धर्म साधन हांड सकै अर आप बहुत पराक्रमी धर्म साधनकू समर्थ। बहुरि आप ज्ञानी धर्म का फलकौ पहचानै असें होत संते भी धर्म तौ न साथै अर धनादिकका लोभ लिए राजानिकौ सेवें तो तिनकी चिंता हमकौ ही है। जो राजा जाका कीया

भया ताका सेवन छोरि राजाका सेवन काहेकौं करै है। इहां भाव यह है—धर्म का सेवन छोरि अन्य कार्य करना योग्य नाहों।

आगैं पंगौं पड्या है औरनिका मस्तक जाकै ऐसा कोई कृष्ण नामा राजा ताका धरया हूवा निधानका जो कोई स्थानक ताका निरूपणका मिसकरि धर्मका लक्षण निधानका स्वरूप मार्ग ताकौं दिखावता संता सूत्र कहै हैं—

सार्दूल छंद

यस्मिन्नस्ति स भूमृतो धृतमहावंशाः प्रदेशः परः
प्रज्ञापारमिता धृतोन्नतिधनाः मूर्ध्ना ध्रियन्ते श्रियै ।
भूयांस्तस्य भुजङ्गदुर्गमतमो मार्गो निराशस्ततो
व्यक्तं वक्तुमयुक्तमार्यमहतां सर्वार्यसाक्षात्कृतः ॥९६॥

अर्थ—इहां श्लेषालंकार किया है। तहां एक अर्थविषै तौं कोई सर्वार्य नामा दूसरा मंत्री राजाका भया है, वानै दुर्गम स्थान जहां कोई कृष्ण राजाका निधान था तहां जाय बाकौं प्रगट कीया है, ताका वर्णन कीया है। बहुरि दूसरे अर्थविषै धर्मके लक्षणादिकका वर्णन है। तहां पहलै पहला अर्थ कीजिये है। सो प्रदेश कहिए स्थानक सो पर कहिए उत्कृष्ट है। सो कौन ? जिस प्रदेशविषै पर्वत तिष्ठै है। कैसे हैं पर्वत ? धारे हैं बडे बांस जिनू नै। बहुरि कैसे हैं ? बुद्धि ही करि छेहडा पाईए है जिनका ऐसे वडे हैं। बहुरि कैसे हैं ? शिखरकरि सोभाकै अर्थ धारया है उचाई-रूप धन जिनू नै। ऐसे पर्वतनिकरि संयुक्त प्रदेश है। बहुरि तिस प्रदेशका मार्ग है सो बड़ा है। सर्पनिकरि अतिशयपनें औरनिकौं दुर्गम है। आशा जे दिशां तिनिकरि निष्कांत है। जहां दिशानिकी शुद्धि नहीं रहे है ऐसा जाका मार्ग है। सो वह प्रदेश जैसे व्यक्त सबनिकरि जान्या जाय तैसे कहना अयुक्त है, कह्या जाता नाही। हे आर्य ! तिस प्रदेशका अजाननहारा ऐसा विषम प्रदेश है सो सर्वार्य नामा कोई राजाका दूसरा मंत्री तिह साक्षात् किया है जाय करि प्रत्यक्ष देख्या है। एसें एक अर्थविषै सर्वार्य मंत्रीकी प्रशंसा करी। अब याहीका द्वितीय अर्थ कहिए है—

प्रदिश्यते कहिए परकों उपदेशिए ऐसा जु प्रदेश कहिए धर्म सो वह धर्म उत्कृष्ट है। सो कौन ? जाकौं होतैं भूमृत जे राजा हैं ते लोकनकरि ललमीकै अर्थ मस्तककरि धारिये हैं। लोक लक्ष्मीकै अर्थ राजानिकौं नमावै हैं सो राजानिक्रै यहु धर्म ही का फल है। कैसे हैं राजा ! धारया है इक्ष्वाकु आदि

वंश जिनूनें । बहुरि कैसे हैं ? बुद्धिके पारकों प्राप्त भये हैं । बहुरि कैसे हैं ? धारे हैं उन्नतता अर धन भंडार जिनूने, ऐसे राजा जिस धर्म होते प्रधान हो हैं । बहुरि तिस धर्मरूप प्रदेशका मार्ग है सो दान व्रतादि भेदनितें प्रचुर है—अनेक प्रकार है । बहुरि आशा जो बांछा ताकरि रहित है । बहुरि भुजंगम जे कामी तिनकरि दुर्गम है, अगोचर है । जातें ऐसैं हैं तातें आर्य्य जे भोले तिन विषैं बड़े जु हैं हम तिनकै सो मार्ग प्रगट करनेकों अयुक्त है । हमारी इतनी शक्ति नाही जो प्रकट कहैं । बहुरि समस्त जे आर्य्य कहिए गणधरादि सत्पुरुष वा सबनिकरि सेवनें योग्य ऐसा सर्वार्य्य कहिए सर्वज्ञ-देव तिनकरि प्रगट कीया है । उनका प्रगट कीया हू धर्मका मार्ग सबकै प्रतीत करने योग्य हो है ।

भावार्थ—इहां कोई प्रसंग पाइ सर्वार्य्य मंत्रीकी तौ प्रशंसा करी । अर याहीका दूसरा अर्थविषैं धर्मका फल वा धर्मका मार्ग प्रगट करनहारा तिनका स्वरूप कह्या है ।

आगैं शरीरादिकतैं वैराग्य उपजाय जीवकों धर्म अर धर्मका मार्ग दिखावता जो मुनि ताकैं किछू भी फलकी इच्छा नाही है । परका उपगार ही कै अर्थ उनकी प्रवृत्ति है, जातें “परोपकाराय सतां हि चेष्टितं” ऐसा नीतिका वचन है, सो ही दिखावता संता सूत्र कहै हैं—

शिखरणी छंद

शरीरेऽस्मिन् सर्वाशुचिनि बहुदुःखेऽपि निवसन्
 व्यरंसीन्नो नैव प्रथयति जनः प्रीतिमधिकाम् ।
 इमां दृष्ट्वाप्यस्माद्विरमयितुमेनं च ययते
 यतिर्याताख्यानैः परहितरतिं पश्य महतः ॥९७॥

अर्थ—सर्व प्रकार अपवित्र अर शारीरिक मानसीक बहुत दुःख जा-विषैं पाइए ऐसा इस शरीरविषैं तिष्ठता थका जन है सो विरक्त नांही हो है । बहुरि यहु जन इस शरीरको देखि अधिक प्रीतिकों नांहीं विस्तारै है कहा, अपि तु विस्तारै ही है, यहु काकाख्यान है । सो यहु जन तौं ऐसा है । बहुरि मुनि है सो इस जनको जान्या हुवा सार उपदेश तिनकरि इस शरीरतैं विरक्त करनेकों यत्न करै है । सो महंत मुनिकै ऐसी परहित करनेविषैं अनुराग है ताकुं तू देखि ।

भावार्थ—जैसे पर जीव भला मानै अपनां अभिलाष सधै तैसैं तो सीख देनेवाले बहुत हैं । परन्तु मुनीनिकै ऐसा परहितविषैं अनुराग है । ए जीव तौ शरीरकों अपवित्र दुःखका कारण प्रत्यक्ष देखै है तौ भी यातैं विरक्त

न हो है। याहीविषै अतिप्रीति करै है। अर मुनि है सो जैसे दीपकविषै पड़ता पतंगकों दयावान् बचावै तैसें याकों उपदेश देइ शरीरतँ विरक्त करै है। यद्यपि याकों उपदेश कडवा भी लागै है तथापि मुनि जानै हैं यहु बहुत दुखी होसी, तातँ दयाकरि उपदेश दिया ही करै हैं। उन मुनिनिकै अन्य किछू अभिलाष नाही। देखो महंत पुरुष ऐसे पर उपकारी हो हैं।

आगँ जीव तौ शरीरते विमुख न हो है, अर मुनि है सो ज्ञात सार उपदेशनिकरि तिस जीवकों शरीरतँ विमुख करै है सो काहै तै करे हैं, ऐसे पूछेँ उत्तर कहै हैं—

बसंततिलका छन्द

इत्थं तथेति बहुना किमुदीरितेन,
भूयस्त्वयैव ननु जन्मनि भुक्तभुक्तम् ।
एतावदेव कथितं तव संकलय्य,
सर्वापदां पदमिदं जननं जनानाम् ॥९८॥

अर्थ—ऐसे हैं तैसें या प्रकार बहुत कहनें करि कहा साध्य है? हे जीव! तँ ही संसारविषै शरीर है सो वारंवार भोग्या भोग्या और छोड्या, तेरें ताँई संकोचकरि इतना ही कह्या है। जीवनिकै यहु शरीर है सो सर्व आपदानिका स्थानक है।

भावार्थ—दाष्टांत तो बहुत कह्या। अर तेरा भला न होना है तो घना कहना निष्फल है। तँ ही अनादितँ शरीर धारि तहां अनेक दुःख भोगि वाकों छोरि नवीन शरीर धारया सो हम संक्षेपकरि अब इतना ही कहै हैं यहु शरीर ही जन्म, मरण, क्षुधा, तृषा, रोगादि सर्व दुःखनिका स्थानक है। तातँ शरीरतँ विरक्त होइ, जैसें शरीरके संबंधका अभाव होइ तैसें उपाय करना योग्य है।

आगँ तिस शरीरकों ग्रहण करत संता गर्भ अवस्थाविषै कहा करत संता कैसा हो है सो कहै हैं—

मन्दाक्रांता छन्द

अन्तर्वान्तं वदनविवरे क्षुत्तृषार्तः प्रतीच्छन्—
कर्मायत्तः सुचिरमुदरावस्करे वृद्धगृद्धया ।
निष्पन्दात्मा कृमिसहचरो जन्मनि क्लेशभीतो
मन्ये जन्मिन्नपि च मरणात्तन्निमित्ताद्विभेषि ॥९९॥

अर्थ—हे प्राणी! तूँ माताका उदररूपी विष्टास्थानविषै कर्मके

आधीन हुवा बहुत काल तांई बधनेका लोभ करि अंतर्वात जो माताका चाव्या हुवा अन्न ताकाँ अपने मुखरूपी छिद्रविषैँ चाहता भया । कोई वूँद मेरे मुखमें परै ऐसैँ मुख फारे रहै है । कैसा है वह प्राणी ? क्षुधा-तृषाकरि पीड़ित है । बहुरि उदरका स्तोक क्षेत्र है, तातैँ तहाँ हलना-चलनारहित है स्वरूप जाका ऐसा है । बहुरि उदरविषैँ निपजैँ हैं लट आदि जीव तिनका सहचारी साथी है । ऐसैँ गर्भविषैँ अवस्था हो है सो हे प्राणी ! में ऐसैँ मानौँ हौँ:—ऐसा जन्म-अवस्थाविषैँ क्लेश हो है । तातैँ डरया हूवा जन्मका कारण जु है मरण तिसतैँ डरै है ।

भावार्थ—शरीरसंबंधतैँ नरकादिविषैँ दुःख हो है सो तौ दूरि ही तिष्ठौ, तैँ यहु उत्तम मनुष्य पर्याय पाया है ताका ग्रहण करता गर्भविषैँ तोकाँ कैसा दुख भया ताका तौ चितवन करौ । हम तौ यहु मानै है जो तूँ मरणतैँ डरै है सो मरण भए पीछै नवीन जन्म धरना होगा । जन्मविषैँ तैँ दुख पाया है तिसका भयतैँ तेरै मरणका भय पाइए है । ऐसा शरीरकी उत्पत्तिविषैँ दुःख जानि जन्मका दुःख न होइ सो उपाय करना ।

आगैँ सम्यग्दर्शनका लाभतैँ पहले भए जे पर्याय तिनविषैँ तैँ सर्वा कार्य अपना घात ही कै अर्थि आचरन किया ऐसा कहै हैं—

वंसस्थ छन्द

अजाकृपाणीयमनुष्ठितं त्वया

विकल्पमुग्धेन भवादितः पुरा ।

यदत्र किञ्चित् सुखरूपमाप्यते

तदार्यं विद्वद्यन्धकवर्तकीयकम् ॥१००॥

अर्थ—हे आर्य भोला जीव ! तैँ इस पर्यायतैँ पहलैँ अजाकृपाणीय कार्य किया । जैसे अजा जो छेली ताकाँ मारनैँकै अर्थि कोई छुरी चाहता था । बहुरि उस छेलीनैँ खुरतैँ खोदि छुरी काढी तिसतैँ वाका मरण भया । तैसैँ जा कारणकरि तेरा घात होइ, बुरा होइ सोई कार्य किया । कैसा है तूँ ? विकल्प जो हेय-उपादेयका विचार ताविषैँ मूर्ख है । बहुरि इस संसार-विषैँ जो किछू सुखरूप विषयादिकका सेवन पाइए है ताकूँ तूँ अंधकवर्तकीयक जानि । जैसे आंधा ताली दैतैँ बटेरकाँ पकड़ै ताका बड़ा आश्चर्य है, तैसैँ संसारविषैँ थोरा भी सुख होनेका बड़ा आश्चर्य जानना ।

भावार्थ—हे जीव ! तैँ छेलीकी छुरीवत् अपना बुरा होनेका कार्य किया । बहुरि इस पर्यायविषैँ तोकाँ किछू विषयसेवनतैँ सुखसा भया ताकरि तूँ जानै है मेरी ऐसी ही दशा रहैगी । ऐसैँ जानि निश्चित भया है ।

सो ऐसी भी अवस्था इस संसारविषै आंधेकी वटेर समान है । तातै याके भरोसै निश्चित रहना योग्य नाहीं ।

आगै सुख उपजावनहारे वस्तु तिनिके अभिलाषी जीवनिका काम है, सो यहु अवस्था करै है, ऐसा कहै हैं:—

वसन्ततिलका छन्द

हा कष्टमिष्टवनिताभिरकाण्ड एव

चण्डो विखण्डयति पण्डितमानिनोऽपि ।

पश्याद्भुतं तदपि धीरतया सहन्ते

दग्धुं तपोऽग्निभिरग्न्युं न समुत्सहन्ते ॥१०१॥

अर्थ—हाय यहु बड़ा कष्ट है जो आपकों पंडित ज्ञानी मानै है तिनको भी यहु प्रचंड काम है सो विना ही अवसर इष्ट स्त्रीनिका निमित्तकरि खंडित करै हैं । ज्ञानीपनांका खंड-खंडकरि महा दुख उपजावै हैं । बहुरि तू यहु आश्चर्य देखि तिस अपना खंड-खंड होनाको तौ धीर-वीरपनाकरि सहै है, अर इस कामको तपरूपी अग्निकरि जलावनेको नांही उत्साह करै है ।

भावार्थ—काम है सो देवतानिपर्यंत सर्व जीवनों सतावै है । बहुरि जै आपकों ज्ञानी मानै हैं तिनको भी स्त्रीनिका निमित्ततै भ्रष्ट करि दुःख उपजावै है । सो देखो जैसे कोई बुद्धिमान हुवा रहै है अर आपकों कोई बाणनिकरि छेदै है । तहां साहसकरि बाणनिकी तौ मार खाया करै अर वाण चलावनेवालेको मित्र जानि वाके नाशका उपाय न करै, वाकी पुष्टता ही किया चाहै तहां बड़ा ही आश्चर्य मानिये । तैसें कोई आपकों ज्ञानी मानै है अर आपकों काम है सो स्त्रीरूपी वाणनिकरि पीडै है । सो उनकी तौ पीडा सह्या करै अर कामको हित जानि तपरूपी अग्निकरि वाको भस्म करनेका उपाय नांहीं करै, अनेक सामग्रीनिकरि वाको पुष्टता ही कीया चाहै है सो यहु बड़ा आश्चर्य है ।

आगै काम जलावनेको उत्साहरूप भए ऐसे केई जीव ते कहा करत भये सो कहै हैं—

शार्दूल छंद

अर्थिभ्यस्तृणवद्विचिन्त्य विषयान् कश्चिच्छ्रयं दत्तवान्

पाषां तामवितर्पिणीं विगणयन्नादात् परस्त्यक्तवान् ।

प्रागेवाकुशलां विमृश्य सुभगोऽप्यन्यो न पर्यग्रहीत्

एते ते विदितोत्तरोत्तरवराः सर्वोत्तमास्त्यागिनः ॥१०२॥

अर्थ—कोई त्यागी तौ विषयनिकों तिणां समान अकार्यकारी चितवन करि जे पुत्रादिक वा याचक लक्ष्मीके अर्थी तिनकों लक्ष्मी देत भया । बहुरि अन्य कोई त्यागी तिस लक्ष्मीकों पापरूप, तृप्तिकी करणहारी नाहीं ऐसी मानता संता काहूकों न देत भया ऐसैं आप छोड़ता भया । बहुरि अन्य कोई त्यागी सौभाग्य दशाकों प्राप्त भया सो तिस लक्ष्मीकों पहलै ही अकल्याणकारी विचारि न ग्रहण करता भया ऐसैं एते तीनों सर्वोत्कृष्ट त्यागी उत्तरोत्तर उत्कृष्ट तुम जानहु ।

भावार्थ—सर्व धनादि सामग्रीनिको त्याग करैं ते सर्वोत्कृष्ट त्यागी कहिए । तिनिविषै जे पुत्रादिककों धनादिक देइ त्याग करै हैं ते भी उत्कृष्ट त्यागी हैं । बहुरि जे आप काहूकों देवें नांही ऐसैं ही धनादिकों त्यागें ते जीव उनतैं भी उत्कृष्ट त्यागी हैं । जातैं उनकै तौ किछू कषाय अंशतैं काहूकों देनैका परिणाम भया, इनिकै ऐसी विरागता भई जो कोऊ ग्रहो इनिका किछू प्रयोजन नाहीं । बहुरि जे पहलैं ही धनादिककों ग्रहै नांही, कुमारादि अवस्थाविषैं ही त्याग करैं ते उनतैं भी उत्कृष्ट त्यागी हैं, जातैं उन तो भोगि करि त्याग कीया, इनूकै ऐसी विरागता भई जो पहले ही भोगनेके परिणाम ही नांहीं भए । ऐसै ए सर्व दत्तिके दातार अनुक्रमतैं उत्कृष्ट-उत्कृष्ट जानतैं ।

आगैं उत्कृष्ट संपदानिकों पाइकरि छोरे हैं जे सत्पुरुष तिनिका किछू भी आश्चर्य नांहीं ऐसा दिखावता संता सूत्र कहै हैं—

अनुष्टुप छन्द

विरज्य सम्पदः सन्तस्त्यजन्ति किमिहाद्भुतम् ।

मा वमीत् किं जगुप्सावान् सुभुक्तमपि भोजनम् ॥१०३॥

अर्थ—सत्पुरुष हैं ते विरक्त होइ करि संपदानिकों छोरे हैं । सो इहां कहा आश्चर्य है ? ग्लानि सहित पुरुष है सो भलै प्रकार भक्षण कीया हुवा भी भोजनकों कहा वमैं नांहीं ? अपितु वमैं ही वमैं ।

भावार्थ—रागभाव होतैं तौ त्याग कीए दुःख ही है । दुःख सहना कठिन है । तातैं सरागी पुरुष त्याग करैं तौ तहां आश्चर्य मानिए । बहुरि विरागता भए त्याग करनेमैं किछू खेद नाहीं, सुख हो है । अर सुखकों कौन न चाहै, तातैं विरागी पुरुष त्याग करैं तहां किछू भी आश्चर्य नांहीं । जैसे काहनै भोजन किया था अर वाकै ऐसी ग्लानि भई इस भोजन तैं मेरे प्राण जांहिगै, तब वह पुरुष उस भोजनका उपायकरि भी वमन करै ।

तैसें मिले हुए भी विषयनिविषै इनिके सेवनतैं मेरा बुरा होइगा ऐसी उदासीनता आए उपायकरि भी तिनका त्याग करिये है, इहां किछू आश्चर्य नांही ।

आगैं लक्ष्मीकों छोरता संता केई कहा करै है सो कहै है—

श्रियं त्यजन् जडः शोकं विस्मयं साच्चिकः स ताम् ।

करोति तत्त्वविच्चित्रं न शोकं न च विस्मयम् ॥१०४॥

अर्थ—मूर्ख पराक्रमरहित पुरुष है मो तौ लक्ष्मीकों त्याग करता संता शोक करै है । बहुरि सत्य पराक्रमका धारी पुरुष है सो गर्व करै है । बहुरि तत्त्वज्ञानी पुरुष तिस लक्ष्मीकों त्यागता संता न शोक करै है अर न गर्व करै है, सो यह बड़ा आश्चर्य है ।

भावार्थ—संसारी जीवनिके धनादिकका त्याग होतैं दोग प्रकार भाव होइ । जो पराक्रम रहित है, अर वांकै कोई कारण पाइ धनादिकका त्याग हो है, तहां वांकै तौ शोक हो है । यहु कार्य क्यौं भया, एसैं अंतरंगविषै खेद उपजै है । बहुरि जो पराक्रमका धारक है अर वांकै कोई कारणतैं वा अपने उत्साहतैं धनादिकका त्याग हो है तहां वांकै गर्व हो है । मैंने ऐसा कार्य किया, ऐसे अंतरंगविषै अहमेव हो है । बहुरि देखो आश्चर्य ! जो तत्त्वज्ञानी पुरुष है ताकै धनादिकका त्याग होतैं शोक अर गर्व दोऊ ही नाहीं हो है । जातैं ज्ञानी धनादिककों परद्रव्य जानैं है । बहुरि पर द्रव्यका त्याग होतैं खेद अर गर्व दोऊ ही नाहीं कीजिए है । तातैं ज्ञानी शोक गर्व रहित हुवा पर द्रव्यकों त्यागै है ।

आगैं विवेकी पुरुषनिकरि जैसैं लक्ष्मी तजिए है तैसें शरीर भी तजिए है, एसैं दिखावता संता सूत्र कहै हैं—

शिखरणी छन्द

विमृश्योच्चैर्गर्भात्प्रभृति मृतिपर्यन्तमखिलं

मुधाप्येतत् क्लेशाशुचिभयनिकाराद्यबहुलम् ।

बुधैस्त्याज्यं त्यागाद्यदि भवति मुक्तिश्च जडधीः

स कस्त्यक्तुं नालं खलजनसमायोगसदृशम् ॥१०५॥

अर्थ—यहु शरीरादिक है सो समस्त ही गर्भतैं लगाय मरण पर्यंत वृथा क्लेश अपवित्रता भय पराभव पाप जाविषै बहुत पाइए ऐसा है सो

ऐसा यह शरीरादिक नीकै विचारि ज्ञानीनिकरि त्यजने योग्य है। बहुरि जो याके त्यागतेँ मुक्ति होइ तो ऐसो मूर्खबुद्धी कौन है जो याके त्याग करनेको समर्थ न होइ ? कैसा है शरीरादिक-दुष्टजनका मिलाप समान है।

भावार्थ—दुःख, अपवित्रपनीं, भय, अपमान पाप ए जहां एक-एक भी थोरे भी कबहू भी होइ तौ ताकू विवेकी छांडै, सो शरीरादिविषै ए सब ही बहुत घनें सदा काल पाइए है। तातेँ ए विवेकीनिकरि छोड़ने योग्य ही है। बहुरि अन्य लाभ न होइ तौ भी इनिकौं छोड़ने। अर इनिकै छोड़नेतेँ मोक्ष होइ तौ एँसा मूर्ख कौन जो इनिकौं न छांडै। जैसे दुष्टका मिलाप दुख-दायक, तैसेँ इनिकौं सर्व प्रकार दुखदायक जानि छोड़ना ही योग्य है।

आगै जैसेँ लक्ष्मी अर शरीर अनेक अनर्थके कारकपनां करि छोड़े तैसेँ ही रागादिक भी छोड़नेँ ऐसा कहै हैं—

वंशस्थ छंद

कुबोधरागादिविचेष्टितैः फलं

त्वयापि भूयो जननादिलक्षणम् ।

प्रतीहि भव्य प्रतिलोमवृत्तिभिः

ध्रुवं फलं प्राप्स्यसि तद्विलक्षणम् ॥१०६॥

अर्थ—हे भव्य ! तेँ ही कुज्ञान रागादिरूप विरुद्ध चेष्टानिकरि बार-बार जन्म मरणादि है लक्षण जाका ऐसा फल पाया है। तौ अब तू ऐसी प्रतीति करि जो इनितेँ विपरीत प्रवृत्तिनिकरि तिस फलतेँ विपरीत लक्षण लीए जो फल ताकौं निश्चैकरि तू पावैगा।

भावार्थ—लोकविषै भी जिस कारणतेँ जो कार्य निपजै तिसतेँ उलटा कारणतेँ उलटा ही फल निपजै। जैसेँ गरमीतेँ जो रोग होइ तिसतेँ उलटा शीतल वस्तुतेँ तिस रोगका नाश होइ। तातेँ हे भव्य ! तेँ अज्ञान-असंयम करि जन्म मरणादि दुःखरूप फल पाया है। बहुरि जिस कारणतेँ एकही बार कार्य निपजै तहां तौ भ्रम भी ऐसा होइ जो अउर ही कारणतेँ यहु कार्य भया होंगा। सो संसारी जीवनिकै बारंबार अज्ञान-असंयमहीका सेवन दीखै है। अर इनकै जन्मादि दुःख होता दीसै है। तातेँ इहां भ्रम भी नाही है। जैसेँ जिसकौं जब खाय तब ही रोग उपजै तौ जानिए यहु इस रोगका कारण है। बहुरि जो औरनि ही कै भया होइ तौ भी भ्रम होइ। सो तू ही विचारि मै कैसे परिणमौं हौं, कैसा फल पावौं हौं। तातेँ

जो तोकों यह फल बुरा लागै है। जैसे अज्ञानादिरूप परिणमें है तैसे परणमना छोरि। बहुरि अज्ञान असंयमतेँ उलटा सम्यग्ज्ञान चारित्र है ताका सेवन कीए तिस जन्मादि फलतै उलटा अविनाशी सुखरूप मोक्षफल पाइए है ! सो इहां भी भ्रम नांही है। जातेँ सम्यग्ज्ञान चारित्रके सेवनहारे थोरे हैं। अर उनकै तत्काल ही अज्ञान-असंयमजनित आकुलता मिटनैतेँ किछू सुख हो है। बहुरि बहुत सेवनतेँ बहुत सुख होता दीसै है। तातेँ जैसे कोई औषधिका सेवन कीए रोग घटता भासै तो तहां जानिए इसके सेवनतेँ सर्व रोगका भी नाश होगा। तैसेँ इहां भी निश्चय करना सम्यग्ज्ञान चारित्रके सेवनतेँ सर्व दुःखका नाश होगा। तातेँ इनिका सेवन करना युक्त है।

आगैँ ऐसा फलकों चाहता संता तूं तिस मार्गविषैँ गमन करहु ऐसा कहै हैं—

वंशस्थ छंद

दयादमत्यागसमाधिसन्तते:

पथि प्रयाहि प्रगुणं प्रयत्नवान् ।

नयत्यवश्यं वचसामगोचरं

विकल्पदूरं परमं किमप्यसौ ॥१०७॥

अर्थ—स्व-पर जीवकी करुणा सो दया, अर इन्द्रिय मनका वश करना सो दम, अर पर वस्तुनिविषैँ राग छोडना सो त्याग, अर वीतराग दशारूप सुखी होना सो समाधि। इनिकी जो परिपाटी ताका मार्गविषैँ तूं यत्न सहित होता संता सूधा कपट रहित गमन करि। यहु मार्ग है सो तोकूं वचनतेँ अगोचर अर विकल्पनितैँ रहित ऐसो कोई परम पद है ताकौँ अवश्यमेव प्राप्त करै है।

भावार्थ—जैसेँ कोई इष्ट नगरका सांचा मार्गविषैँ सूधा चल्या जाय तो वह तिस नगरकों पहौचै ही पहौचै तैसेँ जो मोक्षका सांचा मार्ग सम्यग्ज्ञान-चारित्रविषैँ गर्भित दया दम आदि विशेष इनिविषैँ कपट रहित प्रवर्तेँ तो मोक्षकौँ पावै ही पावै। मैं साधन करौँ अर सिद्धि न होइ ऐसा भ्रमतेँ शिथिल मति होहु। इस साधनतेँ सिद्धि अवश्य हो है।

आगैँ विवेकपूर्वक परिग्रहका त्यागरूप मार्ग है सो जीवकौँ मोक्षपदका प्राप्त करणहारा है ऐसेँ दृढ़ करत संता सूत्र कहै—

आर्य छन्द

विज्ञाननिहतमोहं कुटीप्रवेशो विशुद्धकायमिव ।

त्यागः परिग्रहाणामवश्यमजरामरं कुरुते ॥१०८॥

अर्थ—जैसे पवन साधनविषै कुटीप्रवेश किया है^१ सो निर्मल शरीरकों करै, तैसे भेदविज्ञानकरि नष्ट किया है मोह जानै ऐसे जीवकों परिग्रहनिका त्याग है सो अवश्यमेव अजर अमर करै है ।

भावार्थ—भेदविज्ञानकरि मोहका नाश करना सो सम्यग्ज्ञान सहित सम्यग्दर्शन है । बहुरि बाह्याभ्यन्तर परिग्रहका त्याग करना सो सम्यक्-चारित्र है । तहां सम्यग्ज्ञानसहित सम्यग्दृष्टी जीव भया अर वह सम्यक्-चारित्र अंगीकार करै तौ साक्षात् मोक्षमार्ग हुवा मोक्षकौ पावै ही पावै यामें किछू संदेह नाहीं, जातैं सर्व कारण मिलै कार्यका होना दुर्निवार नांही है । तातैं रत्नत्रयविषै कोई हीन होइ तो मोक्ष होनेविषै संदेह होइ, सर्व तीनों मोक्षके कारण मिलै तब मोक्ष होइ ही होइ ऐसा निश्चय करना ।

आगै विवेकपूर्वक त्यागी पुरुषनिविषै सर्वोत्तम त्यागकों करता जो पुरुष ताकों प्रशंसता संता सूत्र कहै हैं—

अनुष्टप छन्द

अभुक्त्वापि परित्यागात् स्वोच्छिष्टं विश्वमासितम् ।

येन चित्रं नमस्तस्मै कौमारब्रह्मचारिणे ॥१०९॥

अर्थ—यहु आश्चर्यकारी कार्य है जिह जीव न भोगिकरि ही विषय-निका त्यागतैं समस्त विषय अपनी झूठि समान किया तिस कुमार ब्रह्म-चारीके अर्थ हमारा नमस्कार होहु ।

भावार्थ—पूर्वें तीन प्रकार त्यागी कहे हैं । तिनत्रिषैं जाकै भोग सामग्रीका निमित्त आनि बन्या है अर विरागतातैं उनकों बिना भोग किए ही छांडै हैं, कुमार अवस्थाविषै ही दीक्षा धारै हैं तो सर्वोत्कृष्ट त्यागी हैं । जो भोगिकरि छांडै तौ भी आश्चर्य नांही । इनूने सामग्री मिलतैं भी बिना भोग किए त्याग किया सो इनका बड़ा आश्चर्य है । जैसे काहूके आगै

१. बायुका कुम्भक करके एकऽधिक घण्टा व दिनों तक भूमिमें प्रवेशकर अवस्थित रहना योगाभ्यासका यह एक प्रकार है ।

भोजन धरचा अर वह बिना खाए वाकौं छांडै तौ वाका नाम झूठि है । तैसें इन्नै सर्व विषय बिना भोग किए छोडे तांतै सब विषय इन्नै झूठि समान कीए, तिनकूं हम नमस्कार करै हैं ।

आगै ऐसैं त्याग करता जीवकै परम उदासीनता है लक्षण जाका ऐसा चारित्रको प्रतिपादन करता संता सूत्र कहे हैं—

अकिंचनोऽहमित्यास्व त्रैलोक्याधिपतिर्भवेः ।

योगिगम्यं तव प्रोक्तं रहस्यं परमात्मनः ॥११०॥

अर्थ—मैं अकिंचन हूँ, किछू भी मेरा नाहीं, ऐसे भावनाकरि तू तिष्ठि । ऐसैं भावना कीए शीघ्र ही तू तीन लोकका स्वामी हो है । यह योगीश्वरनिकै गम्य ऐसा परमात्माका रहस्य तोकौं कह्या है ।

भावार्थ—अज्ञानतातै परविषै ममत्व है अर अपना होइ नाहीं याहीतैं हीनदशाकौं प्राप्त होइ रह्या है । बहुरि जब यह भावना होइ जो कोई परद्रव्य मेरा नाहीं तब यह परम उदासीनता चारित्ररूप होइ ताकै फलतैं तीन लोक जाकौं अपना स्वामी मानै ऐसा पदकौं पावै । यह रहस्य योगीश्वर जानै हैं सो हम तोकौं कह्या है । तू भी ऐसी ही भावना करि ऐसै हम शिक्षा दई है ।

आगै अब तप आराधनाका स्वरूपका अनुक्रमकै अर्थि दुर्लभ इत्यादि सूत्र कहे हैं—

आर्या छन्द

दुर्लभमशुद्धमपसुखमविदितमृतिसमयमल्पपरमायुः ।

मानुष्यमिहैव तपो मुक्तिस्तपसैव तत्तपः कार्यम् ॥१११॥

अर्थ—मनुष्य पर्याय है सो दुर्लभ है, अपवित्र है, सुखरहित है, मरण समय जाका न जानिये ऐसा है, उत्कृष्ट आयु भी जाका अल्प है ऐसा है । बहुरि तप है सो इस मनुष्य पर्यायविषै ही हो है । बहुरि मुक्ति है सो तप ही करि हो है । तातैं मनुष्यपणौं पाइ तोकौं तप करना योग्य है ।

भावार्थ—आत्माका हित मोक्ष है । ताकी प्राप्ति तप बिना नाहीं । जातैं सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रपूर्वक तप आराधनाकौं आराधै तौ साक्षात् मोक्षमार्गी होइ । बहुरि तप है सो मनुष्य पर्याय विषै ही हो है सो अन्यत्र भी कह्या है । उक्तम् च—

देव विसयपसत्ता णेरइया तिब्बदुःखसंतत्ता ।

तिरिया विवेयवियला मणुयाणं धम्मसंषत्ती ॥

अर्थ—देव तो विषयाशक्त अर नारकी तीव्र दुःख करि तसायमान अर तिर्यंच विवेकरहित, तातै मनुष्यनि ही कै धर्मकी प्राप्ति है। बहुरि मनुष्य पर्याय बारम्बार होइ तौ पाया पर्यायविषै तप न कीया तौ आगै करै, सो अनन्तानन्त काल भए भी मनुष्य पर्याय पावना दुर्लभ है। बहुरि देववत् इहां सुख होइ तौ सुखकौ छोडि तप करना कठिन होइ, सो इहां शारीरिक मानसिक दुःख ही की मुख्यता है। दुःखकौ छोडि तप करनेविषै खेद कहा ? बहुरि जो मनुष्यका सुन्दर शरीर होइ तौ ताके विगारनेका भय होइ, सो घातु-उपघातुनिकरि निपज्या महा अपवित्र याकौ तपविषै लगावनेका भय कहा ? बहुरि देववत् मरणका निश्चय होइ तौ कितनेक काल तौ निश्चित रहिए पीछै तप करिए, सो मनुष्यके मरणका निश्चय नाहीं कब मरै। बहुरि जे उत्कृष्ट भी आयु बहुत होइ तौ मेरा उत्कृष्ट ही आयु होगा, ऐसा भ्रमकरि ढील करिए सो उत्कृष्ट आयु भी थोरा। तातै मुझको प्रमादी न होना सावधान होइ तप ही करना योग्य है।

आगै तहां बारह प्रकार तपविषै मुक्तिका निकट साधन ध्यानरूप तप है, ताका ध्येय फल आदि दिखावता संता सूत्र कहै हैं—

शार्दूल छन्द

आराध्यो भगवान् जगत्त्रयगुरुवृत्तिः सतां संमता
क्लेशस्तच्चरणस्मृतिः क्षतिरपि प्रप्रक्षयः कर्मणाम् ।
साध्यं सिद्धिसुखं कियान् परिमितः कालो मनः साधनं
सम्यक् चेतसि चिन्तयन्तु विधुरं किं वा समाधौ बुधाः । ११२

अर्थ—समाधिविषै तीन जगतका गुरु भगवान सो तौ आराधना अर संतनिकरि सराही ऐसी प्रवृत्ति करनी अर तिस भगवानका चरणका स्मरण करना, इतना क्लेश, बहुरि कर्मनिका प्रकर्षपने नाश होना यहु खरच, अर मोक्ष सुख साधनेका फल, अर काल कितना इक परिमाण लीए थोरा, अर मनका साधन करना। हे ज्ञानी हौ! तुम नीकै मनविषै विचार करौ समाधिविषै कहा कष्ट है ?

भावार्थ—कोऊ जानैगा तपविषै कष्ट है, कष्ट सह्या जाता नाहीं। ताकौ कहिए है—सर्व तपनिविषै उत्कृष्ट तप ध्यान है, तिस ही विषै कहा कष्ट है सो तू कहि। प्रथम तौ नीचेका सेवन करतै लज्जादिकका खेद हो है। सो तौ ध्यानविषै तीन लोकका नाथ अरिहन्तादिक वा तीन लोकका ज्ञायक आत्मा ताका आराधन करना। बहुरि जो आपकौ नीच कार्य करना परै तो खेद होइ। जिस वृत्तिकौ महन्त पुरुष भी प्रशंसै ऐसी वृत्ति अंगीकार

करनी । बहुरि आराधनेविषैँ किछू क्लेश होइ तो खेद उपजै, सो सेवन इतना ही-भगवान आत्माका चरण वा आचरण ताका स्मरण करना । बहुरि साधन करतैँ किछू अपना जाता होइ तौ भी दुःख होइ । सो जाका नाश किया चाहिए ऐसा कर्म ताहीका नाश हो है, अपनां किछू खरच होता नाहीं । बहुरि जो साधनका तुच्छ फल होइ तौ किछू कार्यकारी नाहीं, सो ध्यानका फल सर्वोत्कृष्ट मोक्ष है । बहुरि बहुत कालपर्यन्त साधन करना होइ तहां भी खेद उपजै, सो थोरे ही काल ध्यान कीएँ ही फल पाईए है । बहुरि जो साधन पराधीन होइ तौ भी खेद होइ, सो अपने मन ही का साधन करनां, अन्य विचारतैँ छुडाय भगवन्तविषैँ लगावना । सो ऐसा ध्यानरूप तप तिस-विषैँ खेद कहा । सो तू ही विचारि । तप करनेविषैँ अनादर मति करै । कोऊ कहैगा ध्यानविषैँ तौ कष्ट नाही, परन्तु अनशनादि तपविषैँ कष्ट है । ताका उत्तर—अनशनादि तपविषैँ कष्ट तब होइ जब आप न किया चाहै । सो इहां तौ जैसे अपना परिणाम प्रमादी न होइ अर क्लेशरूप भी न होइ तैसे ध्यानकी सिद्धिकै अर्थ चाहिकरि अनशनादि करिये है । तातै तहां भी कष्ट न हो है ।

आगै आत्म-कल्याणरूप जो मोक्ष ताकै वांछक जै पुरुष तिनकै तप बिना और कोई सामग्री वांछित फलकी दाता नाहीं ऐसे कहै हैं—

हरिणी छन्द

द्रविणपवनप्राध्मातानां सुखं किमिहेक्ष्यते

किमपि किमयं कामव्याधः खलीकुरुते खलः ।

चरणमपि किं स्पृष्टुं शक्ताः पराभवपांसवो

वदत तपसोऽप्यन्यन्मान्यं समीहितसाधनम् ॥११३॥

अर्थ—धनसम्बन्धी विचार सो ही भया पवन, ताकरि धयाए^१ हुए तप्तायमान भए जे जीव, तिनकोँ इहां कहां सुख अवलोकिए है । यह दुष्ट कामरूप अहैडी^२ किछूक अदुष्ट आत्माकोँ दुष्ट करै है । बहुरि कष्टरूपी धूलि है ते कहा चारित्रका स्पर्शनकोँ समर्थ है, अपि तु नाहीं है । तुम कहौ, तपतैँ और कोई माननें योग्य मन वांछित अर्थका साधन कौन है ।

भावार्थ—जगतविषैँ यह जीव जितनेक कार्य करै है सो मानादिककै अर्थ करै है । अपनां प्राणहू देकरि बडा हुवा चाहे । बहुरि मानादिककै

१. धौकनीसे धौकना ।

२. व्याध ।

निमित्त धनादिक सामग्री मिलावनेकी आर्त्तिरूप वाँछा करै ताकरि सदा दुखी ही रहै है। बहुरि देखो तपका माहात्म्य, जो बिना चाहे ही बडापना वा ऋद्ध्यादिक हो है, तातैं तपतैं और कोऊ उत्कृष्ट नांही।

आगैं जो या प्रकार तपविषैं प्रवर्त्तता जीव है सो कहा कार्य करै है ऐसैं दिखावता सूत्र कहै हैं—

पृथ्वीछन्द

इहैव सहजान् रिपून् विजयते प्रकोपादिकान्

गुणाः परिणमन्ति यानसुभिरप्ययं वाञ्छति ।

पुरश्च पुरुषार्थसिद्धिरचिरात्स्वयं यायिनी

नरो न रमते कथं तपसि तापसंहारिणि ॥११४॥

अर्थ—तपकों होत संतैं इहां ही तत्काल जे अनादितैं आत्माकी साथि लगै ऐसे क्रोधादिक हेरी तिनिकों जीतिए है। जिनको यहु आत्मा अपना प्राण देयकरि भी चाहै, ऐसे गुण परिणमै है—प्रगटै है। बहुरि आगामी कालविषैं शीघ्र ही पुरुषार्थ मोक्ष ताकी सिद्धि स्वयमेव प्राप्त हो है, तातैं ऐसा आतापका संहार करनहारा जो तप ताविषैं कौन विवेकी मनुष्य नांही रमै, अपि तु रमै ही रमै।

भावार्थ—ए जीव तौ जिस कार्यतैं आगामी अवगुण होइ, तत्काल गुण होइ अथवा तत्काल अवगुण होइ आगामी गुण होइ तिस कार्यविषैं भी अनुरागी होइ लागते देखिये है। बहुरि यहु तप है सो तत्काल भी गुण करै अर आगामी भी गुण करै तो ऐसे तपविषैं कौन विवेकी आदर न करै ? अपि तु करै ही करै। तहां इस तपका तत्काल गुण तौ इतना है—जे प्रत्यक्ष दुःखदायक अनादितैं लगै क्रोधादिक तिनका तो अभाव हो है, अर अपना प्राण खोए भी प्राप्ति होइ तो भी जिनकों चाहै ऐसे प्रत्यक्ष ज्ञानादिक गुण वा ऋद्धि सन्मानादिक अतिशय ते स्वयमेव प्रगट हो हैं। बहुरि आगामी गुण ऐसा है जो तपके फलतैं शीघ्र ही पुरुष आत्मा ताका अर्थ जो प्रयोजन मोक्षरूप ताकी शीघ्र ही सिद्धि हो है। अैसे इस लोक-परलोकविषैं गुणकर्ता तपकों जानि या विषैं रति करनी योग्य है।

आगैं तपविषैं रति कर्ता जो जीव आयु अर शरीरकी अैसें सफलता करै हैं ताकों सराहता संता सूत्र कहै हैं—

खिखरणी छंद

तपोवल्ख्यां देहः समुपचितपुण्योर्जितफलः

शलाट्वग्रे यस्य प्रसव इव कालेन गलितः ।

व्यशुष्यच्चायुष्यं सलिलमिव संरक्षितपयः

स धन्यः संन्यासाहुतभुजि समाधानचरमम् ॥११५॥

अर्थ—जाका शरीर है सो तपरूपी वेलिविषै निपजाया है पुण्यरूपी उत्कृष्ट फल जानै, असा होत संता जैसे काचा फलका अग्र भागविषै फूल झरि परै तैसे काल पाइ करि गल्या है—विनष्ट भया है बहुरि जाका आयु है सो समाधिरूप भया है अंत अवस्था जाकी असा होत संता संन्यासरूपी अग्निविषै राखि लिया है दूध जानै असा जलकीसी नाई सुसता भया सो जीव धन्य है ।

भावार्थ—जैसे वेलिविषै फूल लागै सो काचा फल निपजाय आप झरि परै तैसे जिनका तपविषै शरीर प्रवर्त्या होइ सो पुण्यको निपजाय काल पाइ आप नष्ट हो है । बहुरि जैसे अग्नि संयोग होतै जल है सो दूधको राखि आप सुसै तैसे संन्यास होतै जिनका आयु है सो धर्मको राखि आप शोषित हो है, असे शरीर अर आयु जिनका सफल हो है ते पुरुष धन्य हैं ।

आगै परम वैराग्यकरि संयुक्त जीव अपवित्र अर दुःखदायक जो शरीर तिसविषै वांका पालना वांके संगि रहना असे करि तप करै है तिनके जो कारण हैं ताका दोय श्लोक करि कहै है—

अमी प्ररूढवैराग्यास्तनुमप्यनुपाल्य यत् ।

तपस्यन्ति चिरं तद्धि ज्ञातं ज्ञानस्य वैभवम् ॥११६॥

अर्थ—ए उत्कृष्ट वैराग्य जिनके पाइए असे जीव जो शरीरको भी पालि चिरकालपर्यंत तप करै हैं सो हम यह ज्ञानको प्रभुत्व जान्यो है ।

भावार्थ—जिसतै उदास हूजै ताका पालना विरुद्ध है । परन्तु स्थाना होइ सो वांके पाले ही अपना प्रयोजन सधता जानै तो अपना प्रयोजन जैसे सधै तैसे वाकाँ पालै, अनुरागकरि वाकाँ अधिक पोषै नाहीं । सो महामुनि शरीरतै उदास भए हैं । परन्तु इनिके असा ज्ञान है जो मनुष्य शरीर रहै तप हो है । तातै आहारादिक देइ याकाँ अपना प्रयोजनकेअर्थि राखै है । अनुराग करि याकाँ बहुत नाहीं पोषै है । असे शरीरको राखि

बहुत कालपर्यंत तप करनां सो यह ज्ञान ही का माहात्म्य है। ज्ञान न होइ तौ अति उग्रताकरि शरीरका नाश करै पीछे देवादिक पर्याय पावै, तहां संयमका अभाव होइ, सो ज्ञानी अैसें नाहीं करै हैं ।

क्षणार्धमपि देहेन साहचर्यं सहेत कः ।

यदि प्रकोष्ठमादाय न स्याद्बोधो निरोधकः ॥११७॥

अर्थ—जो ज्ञान हाथका पाँचा पकडि रोकनहारा न होइ तौ कौन मुनि आधा क्षणमात्र भी शरीरसहित साथि रहनांकोँ सहै ? कोई न सहै ।

भावार्थ—जैसें काहुके काहुसौं मित्रता थी, पीछे वाकौ दुष्टपनों जान्यौ, तब वार्ते लडिकरि वाका साथकोँ तत्काल छोडना चाहै । तहां कोई स्याना पुरुष वाका हाथका पाँचा पकडि समझावै अैसें तो लडें यहु आगामी दुःखःदायक होगा । तातेँ कोई दिन याकोँ साथि राखि निबलकरि याका जैसे सत्यानाश होइ तैसे कार्यं करना योग्य है । तैसेँ आत्माके शरीरसौं अनुराग था, जब याकोँ दुःखका कारण जान्या तब याकोँ उग्र आचरनतै नाश कीया चाहै । तहां जिनवानीजनित ज्ञानतैँ यहु विचार आया, ऐसैँ कोएं तौ बहुरि देवादिपर्याय पावनां होगा, तहां दुःख उपजैगा । तातेँ कितनेक काल याकोँ साथि राखि निर्बल करि जैसेँ बहुरि शरीर धरना न होई तैसेँ कार्यं करना योग्य है । अैसेँ ज्ञान रोकनहार न होइ तौ कौन मुनि शरीरका साथि राखै ? जो बुरा जानिकरि भी प्रयोजनके अर्थि शरीरका साथि राखिये है सो यहु ज्ञान ही की महिमा है ।

आगेँ इस ही अर्थकोँ दृष्टांत द्वारकरि दृढ करत संता समस्त इत्यादि दोय श्लोक करि कहै है—

शिखरिणी छन्द

समस्तं साम्राज्यं तृणमिव परित्यज्य भगवान्
तपस्यन्निर्माणः क्षुधित इव दीनः परगृहान् ।
किलाटद्विभ्रार्थी स्वयमलभमानोऽपि सुचिरं
न सोढव्यं किं वा परमिह परैः कार्यवशतः ॥११८॥

अर्थ—श्री आदिनाथ भगवान् सो समस्त बडे राज्यकोँ तिणा कीसी नाई छोरि तप करता मान रहित भूखा दीनवत् भोजनका अर्थी हुवा

बहुत काल ताँई भोजनकौं न पावता संता भी पर घरनिप्रति भ्रमति भए तौ इहाँ केवल अपने कार्यके वशतै औरनिकरि कहा परीषह न सहना, अपि तु कार्यके अर्थ सहना ही योग्य है ।

भावार्थ—जो कार्य अर्थी होइ सो थोरा बहुत कष्ट सहना होइ तौ कष्ट भी सहै, परन्तु अपना कार्यकी सिद्धि करै । ताका उदाहरण देखो । वृषभनाथ सर्व राज्यकौं छोरि भोजनका अन्तराय हूवा कीया, तौ भी भोजनके अर्थ जैसैं दीन परघरि जाय तैसैं पर घरि फिरता हुवा । जो ऐसे महान पुरुषोंने भी ऐसैं कीया तौ औरनिकौं कहा लज्जा है ? अर औरनिकौं कैसैं सुगम सिद्धि होसी ? तातैं कार्यका अर्थ हुवा थोरा बहुत कष्ट सहिकरि मोक्षका साधन करना योग्य है ।

शिखरिणी छन्द

पुरा गर्भादिन्द्रो मुकुलितकरः किकर इव

स्वयं स्रष्टा सृष्टेः पतिरथ निधीनां निजसुतः ।

क्षुधित्वा षण्मासान् स किल पुरुरप्याह जगती—

महो केनाप्यस्मिन् विलसितमलंघ्यं हतविधेः ॥११९॥

अर्थ—गर्भतैं पहलै ही इन्द्र है सो किकरवत् जोरे हैं हाथ जानैं ऐसा होता भया । अर आप सृष्टि जो कर्मभूमि ताका करनहारा भया, अर अपना पुत्र है सो निधिनिका स्वामी चक्रवर्त्ति भया ऐसा पुरुष जो आदिनाथ स्वामी सो भी छह मास पर्यन्त क्षुधवान होइ पृथिवी प्रति भ्रमत भया, सो बड़ा आश्चर्य है, इस संसारविषै निकृष्ट जो विधाता कर्म ताका विलास चरित्र है सो अतिशयकरि अलंघ्य है । कोई याके मेटनेकौं समर्थ नांही ।

भावार्थ—कोई जानैगा कि सुख-सामग्री मिलाय दुःखका कारण दूरी करि सुखी हौंगा, सो संसारविषै ऐसा काहूका पुरुषार्थ नांही जो कर्मका उदय आवै अर ताकौं दूरि करै । श्री वृषभनाथदेवकै इन्द्र समान तौ किकर अर आप सर्व रचनाका कर्ता ऐसा पुरुषार्थकरि संयुक्त अर पुत्र चक्रवर्त्ति, ऐसी सामग्री होतैं भी अन्तरायके उदयतैं छह मास पर्यन्त भोजनके अर्थ भ्रमण कीया । तातैं औरनिकी कहा वार्ता ? जातैं जो कर्मका उदयतैं थोरा बहुत कष्ट उपजै ताकौं भी सहकरि, ऐसा ही चिन्तवन करना जो संसारविषै तौ कर्म ही बलवान है । तातैं संसार अवस्थाका अभाव सो ही अपना हित कार्य है । ऐसैं निश्चयकरि ताका साधन करना ।

आगँ इस प्रकार सम्यग्दर्शनादिक तीन आराधना है सो शास्त्रज्ञानादिकी प्रधानताकरि प्रवृत्त्या हुआ भला प्रयोजनका साधक हो है, अन्यथा नाहीं यातँ ताकँ अन्तरि ज्ञानआराधना दिखावनेका अनुक्रम करता सन्ता प्राक् इत्यादि सूत्र कहै हैं—

प्राक् प्रकाशप्रधानः स्यात् प्रदीप इव संयमी ।

पश्चात्तापप्रकाशाभ्यां भास्वानिव हि भासताम् ॥१२०॥

अर्थ—संयमी है सो पहलै तौ दीपकवत् प्रकाश है प्रधान जाकै ऐसा होइ पीछै ताप अर प्रकाश इनिकरि सूर्यवत् देदीप्यमान होइ ।

भावार्थ—मोक्षका साधक है सो प्रथम अवस्थाविषै तौ दीपक समान हो है । जैसे दीपक तैलादि सामग्रीके बलतँ घटपटादिकका प्रकाशनहारा है तैसे शास्त्रादिकके बलतँ जीवादि पदार्थनिकौ जाननहारा हो है । बहुरि पीछै ताको सूर्यसमान होना योग्य है । जैसे सूर्य स्वभाव ही तँ घने पदार्थका प्रकाशनिहारा, है, अर प्रतापका धरनहारा है । तैसे स्वभावहीतँ पदार्थनिका विशेष जाननहारा होइ अर तपश्चणादिकका धारनहारा होइ, ऐसा अनुक्रम जानना ।

आगँ ज्ञान आराधनाका आराधक जीव है सो ऐसा होत संता इस कार्यकौ करै है ऐसै कहै हैं—

श्लोक

भूत्वा दीपोपमो धीमान् ज्ञानचारित्रभास्वरः ।

स्वमन्यं भासयत्येष प्रोद्धमन् कर्मकज्जलम् ॥१२१॥

अर्थ—यहु ज्ञानवान जीव है सो दीपकसमान होइ करि ज्ञान-चारित्रनतँ देदीप्यमान होत संता कर्मरूपी काजलकौ वमता संता आपा-परकू प्रकाशै है ।

भावार्थ—ज्ञानआराधनाका आराधक है सो दीपक समान है । जैसे दीपक दीप्तिसहित भास्वर हो है, बहुरि काजलकौ वमै है । ऐसा होता आपकौ अर पर घट-पटादिककौ प्रकाशै है । तैसे ज्ञानी ज्ञान-चारित्र सहित देदीप्यमान हो है । बहुरि कर्मकी निर्जरा करै है । ऐसा होता आप आत्माकौ अर पर शरीरादिककौ यथावत् जानै है ।

आगँ तिस पूर्वोक्त प्रकार ज्ञानआराधनाका आराधक जीव है सो शास्त्रनतँ भया जो विवेक तिसपूर्वक क्रमतँ अशुभ परिणाम छोरि शुद्ध परिणामकौ आश्रयकरि मुक्त हो है ऐसा दिखावता सूत्र कहै हैं—

अशुभाच्छुभमायातः शुद्धः । स्यादयमागमात् ।

रवेरप्राप्तसंध्यस्य तमसो न समुद्गमः ॥१२२॥

अर्थ—ग्रह जीव आगमज्ञानतँ अशुभतँ छूटि शुभकों प्राप्त होता शुद्ध होइ । इहां दृष्टान्त जो नाहीं प्राप्त है संध्या अवस्था जाकै ऐसा जो सूर्य ताकौ अन्धकारका प्रकटपना न हो है ।

भावार्थ—जैसे संध्यासम्बन्धी लालीकों न प्राप्त होता सूर्य ताकै अन्धकारका प्रकटपना न हो है तैसे अशुभ रागरहित आत्मा है सो क्रमते शुभ-रागरूप होइ शुद्ध केवलदशाकों प्राप्त हो है ताकै अज्ञानादिकका उपजना न हो है ।

आगे इहां प्रश्नः—जो ज्ञानआराधनारूप परणम्या जीवकै तप शास्त्रादिविषै शुभरूप अनुरागतँ सरागीपनां हो है । तातँ मुक्तपनीं कैसे होइ ऐसी आशंका करि उत्तर कहै हैं—

विधूततमसो रागस्तपःश्रुतनिबंधनः ।

सन्ध्याराग इवार्कस्य जन्तोरभ्युदाय सः ॥१२३॥

अर्थ—दूरि किया है अज्ञान अंधकार जानैँ ऐसा जीव ताकै तप शास्त्रादिकसंबंधी रागभाव है सो कल्याणका उदय ही कै अर्थि है । जैसे सूर्यकै प्रभात संध्यासम्बन्धी रक्तता है सो उदयकै अर्थि हैं तैसे जानना ।

भावार्थ—जैसे सूर्यकै जैसी अस्त समय संध्याविषै लाली हो है तैसी ही प्रभात समय संध्याविषै लाली हो है । परन्तु प्रभातकी लालीमें अर संध्याकी लालीमें एता भेद है जो प्रभात समयविषै रात्रीसंबंधी अंधकारका नाशिकरि संधीविषै जो लाली भई सो आगामी सूर्यका शुद्ध उदय-कों कारण है । तैसे जीवकै जैसा विषयादिविषै राग हो है तैसा ही तप शास्त्रादिविषै राग हो है । परन्तु तप शास्त्रादिकविषै मिथ्यात्वसंबंधी अज्ञानका नाशिकरि संधि विषै जो राग भया है सो आगामी जीवका शुद्ध केवल-दशारूप उदयकौ कारण है ।

आगे इसतँ विपरीत जो राग तिसविषै दोषकों दिखावता सूत्र कहै हैं—

विहाय व्याप्तमालोकं पुरस्कृत्य पुनस्तमः ।

रविवद्रागमागच्छन् पातालतलमृच्छति ॥१२४॥

अर्थ—जीव है सो सूर्यवत् व्याप्त भया प्रकाशकों छोरि बहुरि अंधकार-कौ अग्रगामीकरि रागभावकौ प्राप्त होत संता पाताल तलकों प्राप्त हो है ।

भावार्थ—जैसे अस्त होता सूर्य है सो अपना फँल रह्या प्रकाशकौ तौ छांडे है अर अन्धकार आगामी होनहार भया है तिस संध्या समयविषे जो रक्त रंग हो है ताकौ प्राप्त भया सूर्य है सो ज्योतिष्क मतकी अपेक्षा वा दृष्टि आवनैकी अपेक्षा पातालकौ प्राप्त हो है। तैसेँ भ्रष्ट अवस्थाकौ प्राप्त होता आत्मा है सो अपना फँल रह्या ज्ञानभावकौ तौ छांडे है, अर अज्ञान आगामी होनहार भया है तिस समयविषे जो हिंसादिक पापरूप रागभाव हो है ताकौ प्राप्त भया आत्मा है सो पातालविषे नरकादिक वा नीच दशारूप निगोदादि पर्याय ताकौ प्राप्त हो है। ऐसैँ यद्यपि अशुभ शुभ दोऊ रागभाव होय हैं, परन्तु नीचैकी दशाविषे शुभ राग तौ कथंचित् आगामी शुद्धताको कारण भी है तातैँ थोरा हेय है। बहुरि अशुभ राग है सो तौ आगामी कुगतिका कारण है। तातैँ सर्वथा अत्यन्त हेय है। तातैँ याका तौ अवश्य त्याग करना।

आगे ऐसैँ च्यार प्रकार आराधनाविषे निष्कपट मनकरि प्रवर्त्तैँ है जो मोक्षाभिलाषी जीव ताकैँ मोक्षकी प्राप्ति निर्विघ्न हो है ऐसैँ दिखावता सूत्र कहैँ हैं—

शार्दूलछन्द

ज्ञानं यत्र पुरःसरं सहचरी लज्जा तपः संबलं,
चारित्रं शिविका निवेशनध्रुवः स्वर्गा गुणा रक्षकाः ।
पन्थाश्च प्रगुणः शमाम्बुबहुलश्छाया दयाभावना
यानं तं मुनिमापयेदभिमतं स्थानं विना विप्लवैः ॥१२५॥

अर्थ—ज्ञान तौ अग्रेसरी अर लज्जा साथि चालनहारी अर तप वटसारी अर चारित्र पालक अर बीचमें रहनेके स्थान स्वर्ग अर गुण रखवालैँ अर सूधा जाविषेँ उपशम जल बहुत पाइए ऐसा मार्ग अर दयारूप छाया, भावनारूपी गमन, ऐसा जहां समाज मिलैँ सो समाज तिस मुनिकौ उपद्रव बिना अभीष्ट स्थानककौ प्राप्त करैँ है।

भावार्थ—कोई पुरुष काहू नगरकौ चालैँ तहां आगू आदि सासग्री मिलैँ तौ निरुपद्रव नगरकौ पहुँचैँ। इहां कोई भव्य मोक्षकौँ (चाहैँ तहां ज्ञानादिक सामग्री मिलैँ तो निरुपद्रव प्राप्त होइ। तहां जैसेँ 'आगू मार्ग बतावैँ तैसेँ ज्ञान तौ मोक्षमार्गविषेँ हेयोपादेय तत्त्वनिका निश्चय करावैँ है। बहुरि जैसेँ साथि स्त्री होइ तौ मार्गविषेँ सुखसौँ गमन करैँ, तैसेँ साथि धर्मसम्बन्धी लज्जा ताकरि मोक्षमार्गविषेँ सुखसौँ प्रवर्त्तैँ है। बहुरि

जैसे खरची बटसारी पासि होय तौ शिथिलता न होय, तैसे तपका साधन करि शिथिलता न हो है। बहुरि जैसे चढनेको पालकी होइ तौ चलते खेद न होइ, तैसे निष्कषायरूप चारित्र भावकरि मोक्षमार्गविषै प्रवर्त्तता खेद न हो है। बहुरि जैसे मार्गविषै बसनैके स्थान चोखे होइ तौ तहां विश्राम होइ, तैसे मोक्षमार्गविषै बसनैके स्थान स्वर्ग है तहां विश्राम हो है। बहुरि जैसे रखवाले साथि होइ तो कोई न लूटे, तैसे क्षमादिक गुण रखवाले हैं तातै क्रोधादिक नांही लूटे है। बहुरि जैसे मार्ग सूधा होइ तौ सुखसों गमन होइ। तैसे मोक्षमार्ग सरल कपट रहित है, तातै सुखसों तहां प्रवृत्ति हो है। बहुरि मार्गविषै उपशम भाव है ताकरि तृष्णाका दुःख न हो है। बहुरि जैसे मार्गविषै छाया होइ तौ आताप न होइ, तैसे मोक्षमार्ग-विषै स्वदया परदया है तातै संताप न हो है। बहुरि जैसे गमन करै तौ नगरकों पहोंचै, तैसे इहां शुद्ध भावना भावै है ताकरि मोक्षको पावै है। ऐसे सासग्री मिलें जैसे पथिक अभीष्ट नगरकों पहोंचै तैसे मोक्षमार्गी अभीष्ट मोक्षपदको पावै है।

आगै तिस चलनेविषै उपद्रव कौन है ऐसी आशंका करि तिन उपद्रव-निकों पंच श्लोकनि करि कहै हैं—

शार्दूल छंद

मिथ्या दृष्टिविषान् वदन्ति फणिनो दृष्टं तदा सुस्फुटं

यासामर्घविलोकनैरपि जगद्ददद्यते सर्वतः ।

तास्त्वय्येव विलोमवर्तिनि भृशं भ्राम्यन्ति बद्धक्रुधः

स्त्रीरूपेण विषं हि केवलमतस्तद् गोचरं मा स्म गाः ॥१२६

अर्थ—सर्पनिकों जो दृष्टि-विष जातिके बतावै हैं सो तो झूठ है। हम इनि स्त्रीनिविषों जो दृष्टिविषपनों प्रकट देख्या है। कैसी है स्त्री जिनका कटाक्षरूप आधा अवलोकननिकरि भी लोक सर्वांगपनै दाहरूप हो है। बहुरि तिनिका त्यागतै प्रतिकूली भया जो तूं सो तुझविषै क्रोधवन्त हुई ते स्त्री तोकों भ्रष्ट करनेके अर्थ अतिशयकरि भ्रमै है। सो स्त्रीरूप करि केवल यहु विष है। यातै तूं तिनके गोचर मति प्राप्त होहु।

भावार्थ—लोकविषै कोई सर्प ऐसे मुनिए हैं जिनको देखें ही विष चढे, सो यहु तौ अलंकार करिके झूठ बताया। बहुरि स्त्रीनिके कटाक्षकरि तत्काल विषसमान आतापकारी काम विकार होइ तातै स्त्रीनिके दृष्टि-विषपनों कह्यौ। बहुरि इहां मुनिकों यहु सीख दई जो और तौ सर्व ही

स्त्रीनिके किकर है, अर तू तिनका त्यागी भया है सो तेरै भ्रष्ट करनेकों ते स्त्री कारण होइ रही है, सो तू उनका विषय गोचर मति होहु। मोक्ष मार्गविषै स्त्रीनिकै वशीभूत होनां सोई बड़ा उपद्रव है।

शार्दूल छन्द

क्रुद्धाः प्राणहरा भवन्ति भुजगा दष्ट्वैव काले क्वचित्
तेषामौषधयश्च सन्ति बहवः सद्यो विषव्युच्छिदः ।

हन्युः स्त्रीभुजगाः पुरेह च मुहुः क्रुद्धाः प्रसन्नास्तथा—

योगीन्द्रानपि तान्निरौषधविषा दृष्टाश्च दृष्ट्वापि च । १२७।

अर्थ—सर्प हैं तौ क्रोधवन्त भए कोई कालविषै डसिकरि ही प्राणानिके हरनहारे हो हैं। बहुरि तत्काल विषकौ दूरि करै ऐसे तिनके औषध पाइए है। बहुरि ए स्त्रीरूपी सर्प हैं ते क्रोधवन्त भए भी बहुत अर प्रसन्न भए भी परलोकविषै अर इस लोकविषै बारम्बार तिनि योगीश्वरनिकौ भी देखै हुए भी वा देखिकरि कै भी हनै हैं—घातै हैं। कैसे हैं स्त्रीरूप सर्प औषधि रहित हैं विष जिनिका ऐसे हैं।

भावार्य—लोकविषै सर्पकौ अति अनिष्ट जानि तिसितै डरिए है। अर स्त्रीनिकौ अति इष्ट जानि इनिका विश्वास करिए है। सो इहां स्त्रीनितै राग छुडावनैकै आर्थि ए सर्पतै भी स्त्रीनिकै अधिकता दिखाईए है। सर्प तो क्रोधवन्त हुवा ही मारै। स्त्री क्रोधवन्त हुई तौ कोई उपायकरि अर प्रसन्न हुई आकुलता बधाईकरि जीवकौ हनै है। बहुरि सर्प तो कोई एक कालविषै मारै, स्त्री इस लोक अर परलोकविषै बारम्बार मरण करावै। बहुरि सर्प तो डसिकरि ही प्राणनिकौ हरे है, स्त्री देखी हुई ही वा आप देखि करि भी जीवका घात करै। बहुरि सर्पके विष दूरि करनेकू तौ अनेक औषधि हैं, स्त्रीनितै भया कामसन्ताप ताका कोई औषध ही नांही। ऐसै स्त्रीरूप सर्प मोक्षमार्गीनिकौ भी भ्रष्ट करै हैं, तातै इनका विश्वास करना नांहीं।

शार्दूल छन्द

एतामुत्तमनायिकामभिजनावज्यां जगत्प्रेयसीं

मुक्तिश्रीललनां गुणप्रणयिनीं गन्तुं तवेच्छा याद ।

तां त्वं संस्करु बर्जयान्यवनितावार्तामपि ॥ स्फुटं

तस्यामेव रतिं तनुष्व नितरां प्रायेणःसेष्याः स्त्रियः ॥ १२८॥

अर्थ—यह मुक्ति लक्ष्मीरूपी मनोहर स्त्री उत्तम नायिका है सो सामान्य जननिकरि वर्जित है, जिस तिसके याकी प्राप्ति न होइ सकै है। बहुरि जगतविषै प्यारी है, याका स्वरूप जानें याकों सर्व चाहै ऐसी है। बहुरि गुणनिविषै स्नेहवती है। जाविषै गुण होइ तिस ही कौं याकी प्राप्ति हो है ऐसी यहु है। ताकों प्राप्त होनेके अर्थ जो तेरे इच्छा पाइए है तौ तू तिस मोक्षलक्ष्मी ही कौं रत्नत्रयादिकनितैं आभूषित करि। बहुरि प्रकटपनैं अन्य लौकिक स्त्रीनिकी वार्ताकों भी छोरि। बहुरि तिस मोक्षलक्ष्मी ही विषै अनुरागकों विस्तारि बधाइ। ऐसैं ही तुझकों मोक्षलक्ष्मीकी प्राप्ति होसी। जातैं स्त्री है ते बाहुल्यपनैं ईर्ष्यासहित हो है।

भावार्थ—इहां अलंकारकरि मोक्ष लक्ष्मीकों स्त्री कही, सो जैसैं कोई पुरुष कोई स्त्रीकों अपनैं वश्य किया चाहै तब वह और स्त्रीनिकी वार्ता भी न करै। वाहीविषै अनुराग बधावे। आभूषणादिकनि करि वाकों प्रसन्न करै। तैसैं तू मोक्ष लक्ष्मीहीको चाहै है तो लौकिक स्त्रीनिकी वार्ता भी मति करै। वाहीविषै प्रीति बधाइ। रत्नत्रयादिकतैं वाका साधन करि, यहु उपाय है। बहुरि जैसैं स्त्रीनिकै परस्पर ईर्ष्या पाइए है, तातैं विरोध लिए जे दोइ स्त्री तिनविषै एक ही का साधन बनैं तैसैं मोक्षलक्ष्मीके अर लौकिक स्त्रीनिकै परस्पर ईर्ष्या विपरीतता है। तातैं विरोध लिए जो मोक्षलक्ष्मी अर लौकिक स्त्री तिनविषै एक ही का साधन होगा। तातैं लौकिक स्त्रीनिकौं छोरि मुक्तिलक्ष्मीका साधन करना।

हरिणी छन्द

वचनसलिलैर्हासस्वच्छैस्तरंगसुखोदरैः

वदनकमलैर्बाह्ये रम्याः स्त्रियः सरसीसमाः ।

इह हि बहवः प्रास्तप्रज्ञास्तटेऽपि पिपासवो

विषयविषमग्राहग्रस्ताः पुनर्न समुद्गताः ॥१२९॥

अर्थ—स्त्री सरोवरी समान है, ते हास्यरूपी स्वच्छता लिए अर वक्रोक्ति आदि तरंग सुखकारी जिनिकै गर्भित पाइए ऐसे वचनरूपी जल तिनिकरि, बहुरि मुखरूपी कमल तिनिकरि वाह्यविषै रमणीय हैं। सो इनि स्त्रीरूपी सरोवरीनिविषै बहुत निर्बुद्धी जीव तट ही विषै तृष्णावंत होत संते विषयरूपी विषम गोह^१ ता करि ग्रसे हुए बहुरि नांही निकसे।

१. ग्राह अर्थ में।

भावार्थ—जैसे कोई सरोवरी तिसविषै निर्मल तरंग लीए जल अर कमल पाइए है तिनिकरि बाह्य रमने योग्य भासै है । बहुरि तिसकै मध्य गोह नामा जलचर जीव बसै है । तहां कोई निर्विवेकी तृषावन्त भया तहां जाय तट ही विषै खडा रह्या । सो यहु तो तृषा दूरि करनैकों गया था अर वहां याकों गोह नामा जलचर अपने तंतूनिसों खीच करि गलि गया । बहुरि निकस्या नाहीं, मरण ही को प्राप्त भया । तेसै ये स्त्री हैं । इनिविषै हास्य वा युक्ति लीएं वचन अर मुखकी शोभा पाइए है । तिनिकरि बाह्य रमने योग्य भासै है । बहुरि इनिविषै कामसेवनरूप विषयका कारणपना पाइये है । तहां कोई अज्ञानी वेदजनित तृष्णावंत भया तहां जाय दूरि ही अवलोकन करनें लगा, सो यहु तौ अपनी चाहि मिटावनेंकों गया अर वहां काम है सो अपने विषयरूप सामग्रीनितै विह्वल करि भ्रष्ट किया । बहुरि चेतै नाहीं । स्थावरादि पर्याय ही कों प्राप्त हो है । तातै इनि स्त्रीनिका विश्वास न करना ।

शादूल छन्द

पापिष्ठैर्जगतीविधीतमभितः प्रज्वाल्य रागानलं
 क्रुद्धैरिन्द्रियलुब्धकैर्भयपदैः संत्रासिताः सर्वतः ।
 हन्तैते शरणैषिणो जनमृगाः स्त्रीछन्नानि निर्मितं
 घातस्थानमुपाश्रयन्ति मदनव्याधादिपस्याकुलाः ॥१३०॥

अर्थ—पापी क्रोधी जे इन्द्रीरूप अहेडी तनि शिकारका स्थानककै चौगिरद रागरूपी अग्निकों जलाय करि सर्व तरफतै भयस्थाननिकरि भयवान भये जे ए मनुष्यरूपी हिरण ते आकुलतावंत भए शरणकों चाहता सन्ता हाय-हाय कामरूपी अहेडीनिके स्वामीका जो स्त्रीरूपी कपटकरि निपजाया मारनेका स्थानक ताकों प्राप्त हो है ।

भावार्थ—जैसे कोई प्रधान अहेडीके किंकर शिकार करावनेके अर्थि जहां हिरण होइ तहां चौगिरद अग्नि लगावै । अर एक शिकार करनेका स्थान बनावै । तहां हिरण है ते अग्निके भयतै भाजि तिस स्थानककों प्राप्त होइ—इहां हम बचैगे, सो वहां प्रधान अहेडी तिष्ठै सो उनकों शस्त्रादिकतै मारै । तैसे प्रधान विकाररूप काम ताके इन्द्रियरूपी किंकर ते जीवकों भ्रष्ट करनेकों सर्व वर्णादिक विषयनविषै रागादि उपजाया । अर एक स्त्रीरूपी पदार्थ लोकविषै पाइए है । तहां ए जीव हैं ते रागभावजनित आकुलतातै पीडित होइ तिस स्त्रीकों प्राप्त होइ । इहां हम निराकुल ह्वैगे ।

सो इहां प्रधान काम विकारवसैं उन जीवनिकौं अपनैं कुचेष्टारूप वाणनि-
करि भ्रष्ट करै है। तहां परम आकुलताकौं पावै है। तातैं स्त्रीनिको भला
स्थान जानि तहां विश्वास करना योग्य नांही।

आगै ऐसै बाह्य उपद्रवके कारणनिविषैं प्रवृत्तिको निषेधरूप करि
अब अन्तरङ्ग उपद्रवके कारणनिविषैं तिस प्रवृत्तिकौ निषेधता संता सूत्र
कहै हैं—

पृथ्वी छन्द

अपत्रप तपोग्निना भयजुप्सयोरास्पदं
शरीरमिदमर्घदग्धशववन्न किं पश्यसि ।
वृथा व्रजसि किं रतिं ननु न भीषयस्यातुरो
निसर्गतरलाः स्त्रियस्तदिह ताः स्फुटं विभ्यति ॥१३१॥

अर्थ—हे निर्लज्ज ! तपरूपी अग्निकरि तेरा य [शरीर अधबल्या
मुर्दासारिखा भय जुगुप्साका स्थानक होय रह्या है। ताकौं तूं कहा न देखै
है। वृथा ही आशक्तताकौं क्यों प्राप्त हो है। हे भ्रष्ट ! तूं तौ आतुरवंत
हुवा स्त्रीनिकौं नांही डरावै है, संग कीया चाहे है। परन्तु ते स्त्री सहज ही
चंचल कायर हैं, ते तुझितै प्रगटपनैं डरै हैं, तेरी भयानक मूर्त्ति देखि
भाजै है।

भावार्थ—कोई दीक्षाधरि कामविकारतैं स्त्रीनिविषैं अनुरागी हो है
ताकौं इहां शिक्षा दर्ई है। जो तेरा शरीर तौ तपकरि भयकारी अर घिना-
वना ऐसा भया जैसा आधावल्या मुर्दा होइ। अर तूं स्त्रीनिका संग चाहै।
अर उनका यहु स्वभाव जो जाका शरीर संवारथा न देखै तिसकी हास्य
करैं तिसतैं दूर भागैं। सो हे निर्लज्ज ! तेरे उनका संग होना नांही, वृथा
ही आपा काहेकौं बिगारै है। इस पदवीकौं पाइ तुझकौ अपना भला ही
करना योग्य है।

आगैं जिस स्थान विषैं तूं रति करै है सो ऐसा है ऐसे दिखावता
सन्ता उत्तुंग इत्यादि तीन श्लोक कहै हैं—

वसन्ततिलका छन्द

उत्तुङ्गसङ्गतकुचाचलदुर्गदूर-

माराद्वलित्रयसरिद्विषमावतारम् ।

रोमावलीकुसृतिमार्गमनङ्गमूढाः

कान्ताकटीविवरमेत्य न केऽत्र खिन्नाः ॥१३२॥

अर्थ—काम विकारतैं मूर्ख भए ऐसे कौन जीव स्त्रीका कटिछिद्र जो योनिस्थान ताकाँ प्राप्त होइ खेदखिन्न न हो है, अपि तु सर्व ही तत्काल वा आगामी महा खेदकाँ पावै ही है। कैसा है सो स्थान ऊँचे अर परस्पर भिडि गए ऐसे जे दोग्य कुच तेई भए पर्वतरूप गढ़ तिनिकरि दुःप्राप्य है। बहुरि अतिशयकरि त्रिवलीरूप नदी तिनिकरि विषम है, पार उतरनां जहां ऐसा है। बहुरि रोमनिकी जो पंक्ति ताकरि खोटा गमन करनेका है मार्ग जाका ऐसा है।

भावार्थ—जैसैं जिस स्थानकके मार्ग विपैं उँचे मिले हुए पर्वत होइ, अर जातैं कठिन पार उतरिए ऐसी नदी होइ, अर वृक्षनिकी सघनतातैं दुर्गमता होई तिस स्थानकके पहाँचने विषैं खेद होय ही होय। तैसैं योनि स्थानक रमणैकै पहलै उँचे मिले हुए तो कुच हैं। बहुरि जातैं खेद-छूटनां होइ ऐसी त्रिवली है। बहुरि रोमनिकरि दुर्गमता पाइए है ऐसे स्थानककाँ प्राप्त होने विषैं खेद होय ही होय। यहु जो प्रत्यक्ष खेदकाँ सुख मानै है सो जैतैं दुःखिग मूंड फौडनेंविपैं सुख मानैं तैसैं कामकरि पीडित हुवा खेद होनेंविषैं सुख कल्पै है। तातैं काम विकार मिटावना योग्य है।

वसन्ततिलका छन्द

वर्चोगृहं विषयिणां मदनायुधस्य
नाडीव्रणं विषमनिवृत्तिपर्वतस्य ।

प्रच्छन्नपादुकमनङ्गमहाहिरन्ध्र—

माहुर्बुधा जघनरन्ध्रमदः सुदत्याः ॥१३३॥

अर्थ—ज्ञानी है ते सुदती जो स्त्री ताका जघन रंध्र जो योनिरूप छिद्र ताकाँ ऐसा कहै हैं। कैसा ? यहु विषयी पुरुषनिका विष्टाका घर है। वा कामका जु शस्त्र ताका घाव है। वा विषम मोक्षरूप पर्वत ताका आच्छादित खाडा है। वा कामरूपी बडे सर्पका बिल है ऐसा बतावै है।

भावार्थ—यहु योनि-छिद्र है सो जैसैं विष्टा खेपनेका घर होइ तैसैं कामी पुरुषका वीर्य खेपनेका स्थानक है। अथवा जैसैं शस्त्र ताका घाव होइ तैसैं यहु कामका शस्त्र जो लिंग ताका घाव है। अथवा जैसैं पर्वतके आडा छिपा हुवा खाडा तहां न जानेका कारण होइ। तैसैं यहु मोक्षक आडा, अज्ञानी जाकाँ बुरा जानै ऐसा तहां न जानेका कारण है। अथवा जैसैं बिलविषैं सर्प रहता होय तहां जो जाय ताकाँ वह सर्प डसैं तैसैं या विषै

कामका वास हैं। इहां रति मानै ताकौं काम मोहित करै। ऐसे अनेक उपमाकरि यहु योनि-छिद्र अनिष्ट है। तातैं इहां राग न करना।

शार्दूल छन्द

अध्यास्यापि तपोवनं वत परे नारीकटीकोटरे

व्याकृष्टा विषयैः पतन्ति करिणः कूटावपाते यथा ।

प्रोचे प्रीतिकरीं जनस्य जननीं प्राग्जन्मभूमिं च यो

व्यक्तं तस्य दुरात्मनो दुरुदितैर्मन्ये जगद्वञ्चितम् ॥१३४॥

अर्थ—हा हा धर्मतैं न्यारे भए ऐसे कोई जीव तप करनेका स्थानक वन ताकौं प्राप्त होइ करि भी विषयनिकरि प्रेरे हुए जैसे हाथी कपटकरि बनाया खाडा विषै पडै तैसैं स्त्रीका कटि-छिद्रविषै पडै हैं। सो मैं ऐसे मानौं हौं—येहु योनि है सो या मनुष्यकी पहलैं जन्म भूमिका है तातैं माता है। अर याकों प्रीति करनहारी जो कुकवि कहत भया तिस दुष्टात्माके दुष्ट वचननि करि यहु जगत ठिगाया है।

भावार्थ—जैसैं हाथी वनविषै स्वाधीन रहे है, उनकों पकड़नेके अर्थ कोई कपटका खाडा बनावै, तहां विषय सेवनका लोभ तैं ते हाथी तिस खाडे विषै पडिकरि नाना कष्ट सहै। तैसैं मुनि वन विषै स्वाधीन हैं। इनके भ्रष्ट करनेको कारण स्त्रीका योनिस्थान है। तहां विषय सेवनका लोभतैं तिस योनिविषै रमते सन्ते इस लोक परलोकके घनं कष्ट सहै हैं। इहां आचार्य कहै हैं—जीवकै काम विकार तौ था ही, परन्तु कोई शिक्षा देनेवाला मिलै तौ कामविकार घटै। सो खोटे कवीश्वर अनेक युक्ति-करि स्त्रीके अंगनिकों रमणीक दिखाय विकार बधावै है सो उनके वचननि-करि ठिगाया हुवा जीव चेतै नाहीं। बहुरि देखो कुकविनिकी धीठता जिस योनि स्थान विषै अपना जन्म भया ताहीकौं रमणेका स्थान बतावै है। तातैं कुकविनिके बहकाए स्त्रीकी योनिविषै रागी मति होहु। रागी भए महा कष्ट पावोगे। ऐसी इहां सीख दई है।

आगै विषय विषै जो अमृत बुद्धिकरि प्रवृत्ति करावै है सो ठिग कहिए। इहां तौ ए स्त्री पुरुषनिकै भी संतापादिक दुःखका कारण हो है? तातैं बडा विष है ऐसा कहै हैं—

कण्ठस्थः कालकूटोऽपि शम्भोः किमपि नाकरोत् ।

सोऽपि दन्दद्व्यते स्त्रीभिः स्त्रियो हि विषमां वषम् ॥१३५॥

अर्थ—रुद्रकै कण्ठविषै तिष्ठया हुवा कालकूट विष है सो भी किछू न करत भया । बहुरि ऐसा भी रुद्र है स्त्रीनिकरि संतापित कीजिए है । तातैं स्त्री है ते अन्य विषनितैं भी विषम विष है ।

भावार्थ—लोकविषैं कालकूट विष समान और निरुपाय अनिष्ट नांही ऐसा कहिए हैं । सो ए स्त्री है ते तिसतैं भी विषम हैं अत्यन्त निरुपाय अनिष्ट हैं । देखो महादेव कालकूट विषकूं कंठविषै राखता भया ताकै वह कछू भी अनिष्ट न करता भया । बहुरि स्त्री है ते तिसकौं भी काम पीडित करि आताप उपजाया । तातैं कालकूट तैं भी स्त्रीका विषमपनां जानि जे विषकौं अमृत बतावै हैं, ऐसे ठिगनि तैं भी जे स्त्रीनिविषै अनुराग करावै हैं ते महा ठिग जाननैं । उनके वचननितैं स्त्रीनिविषै अनुराग न करना ।

आगैं ऐसा स्त्रीका शरीरविषै चन्द्रमादिकका स्वभाव स्थापनैतैं प्राणीनिकै आशक्तता हो है सो झूठी है ऐसा कहै हैं—

मालिनी छन्द

तव युवतिशरीरे सर्वदोषैकपात्रे

रतिरमृतमयूखाद्यर्थसाधर्म्यतश्चेत् ।

ननु शुचिषु शुभेषु प्रीतिरेष्वेव साध्वी

मदनमधुमदान्धे प्रायशः को विवेकः ॥१३६॥

अर्थ—हे प्राणी ! सर्व दोषनिका पात्र ऐसा जु स्त्रीका शरीर तिसविषैं चन्द्रमा आदि पदार्थनिकै समान स्वभाव माननैतैं जो तेरै प्रीति पाइए है, सो ए चन्द्रमा आदि पदार्थ शुचि हैं, अर शुभ हैं । इनि ही विषैं प्रीति करनी भली है, परन्तु कामरूपी मदिराका मदकरि जो आंधा भया तिस-विषैं कहा विवेक है ?

भावार्थ—खोटे कवि स्त्रीकै अंगनिविषै चन्द्रमा कमलादि पदार्थनिकी उपमा देइ अनुराग करावै है । तूं काम मदिराकरि आंधा भया तोकां किछू दीखै नांही । ए हाड मांसके बने अंग तिनकां चन्द्रमादिकका समानपनां कैसें बनैं ? बहुरि जो तेरी बुद्धिविषैं चन्द्रमादिककी उपमा बनै है तौ जिनकी उपमा दर्ई है ते तौ इसतैं किछू भले होहिगे । बहुरि स्त्रीके अंग तौ अपवित्र हैं अर बुरे हैं । अर चन्द्रमादिक पवित्र हैं भले हैं । तातैं चन्द्रमादिकनि ही विषैं अनुराग क्यों न करै ? परन्तु जैसे कीडा विष्टाविषैं रति मानैं तैसें तू कामी स्त्रीनिके अंगनिविषैं ही रति मानै है । कामान्धकां भले बुरेका विवेक होता नाहीं । तातैं कामान्धपनां भेटि विवेकी होना योग्य है ।

आगे स्त्रीका शरीर विषै प्रीति है सो मन पूर्वक है। बहुरि मन नपुसंक है। ज्ञानी पुरुष है सो तिस नपुसंक करि तिनि पुरुषनिका जीतना कैसे बनै है ऐसा कहै हैं—

पृथ्वी छन्द

प्रियामनुभवत् स्वयं भवति कातरं केवलं
परेष्वनुभवत्सु तां विषयिषु स्फुटं ह्लादते ।
मनो ननु नपुंसकं त्विति न शब्दतश्चार्थतः ।
सुधीः कथमनेन सन्नुभयथा पुमान् जीयते ॥१३७॥

अर्थ—मन है सो स्त्रीको भोगवतां आप तौ केवल कायर हो है किछु वाकों भोगि सकै नांही। बहुरि अन्य जे विषयी स्पर्शनादि इन्द्रिय तिनकों भोगवतै सन्तै प्रगट हर्ष करै है। तातैं यहु मन है सो केवल शब्द ही तैं नपुंसक नांहीं है अर्थतैं भी नपुंसक ही है। बहुरि भली बुद्धिका धनी ज्ञानी है सो दोऊ प्रकार शब्दतैं भी अर अर्थतैं भी पुरुषालिग है। सो इसमन करि कैसे जीतिए है, अपि तु न जीतिए है।

भावार्थ—कोऊ कहैगा मन विकारी होइ जाइ तब विवेकी कहा करै ? ताको युक्ति करि समझाइए है। मनः ऐसा शब्द व्याकरण विषै नपुंसक लिंगी कहा है। सो मन शब्द ही तैं नपुंसक लिंगी नांही है, अर्थतैं भी नपुंसक ही है। जैसे नपुंसक स्त्री भोगवनेको चाहै परन्तु आप भोगि सकै नांही। अन्य पुरुष भोगवै तिनकी क्रीडा ही देखि आप हर्ष करै। तैसें यहु मन स्त्री भोगवनेको चाहै, परन्तु आप भोग करि सकै नांही, स्पर्शनादि इन्द्रिय भोग करै तिनकी क्रीडा ही देखि आप हर्ष करै है। ऐसे मन तौ शब्दतैं अर अर्थतैं दोऊ प्रकार नपुंसक है। अर सुबुद्धि है सो सुधी ऐसा शब्द व्याकरण विषै पुरुषालिगी है। तातैं शब्दतैं भी पुरुष है। अर सुष्ठु बुद्धि जाके पाइए ऐसा याका अर्थ है। सो स्त्री का धनी पुरुष ही होइ, स्त्रीके स्त्री बनै नांही। तातैं अर्थतैं भी पुरुष है। सो सुधी पुरुष पुरुषार्थको संभारे तौ मन नपुंसक करि हारै नांही। मन नपुंसक इस सुधी पुरुषको कैसे जीतै ? तातैं मनको बलवान मानि आपको पुरुषार्थ न छोड़नां। पुरुषार्थ करि मन विकारका अभाव ही करना योग्य है।

१. तिनको तिस स्त्रीको भोगवतै-मु० १३७-५

आगैं तिस पूर्वोक्त^१ कारणतैं मनकौं जीति विवेकी पुरुषनिकरि भला तप ही करना योग्य है। तिस तपकौं करता जीवकै परम पूज्यपनाकी सिद्धि हो है, ऐसा कहै हैं—

श्रग्धरा छंद

राज्यं सौजन्ययुक्तं श्रुतवदुरुतपः पूज्यमत्रापि यस्मात्
त्यक्त्वा राज्यं तपस्यन्न लघुरतिलघुः स्यात्तपः प्रोह्य राज्यम् ।
राज्यात्तस्मात् प्रपूज्यं तप इति मनसालोच्य धीमानुदग्रं
कुर्यादार्यः समग्रं प्रभवभयहरं सत्तपः पापभीरुः ॥१३८॥

अर्थ—जातैं सुजनता जो नीतिता करि सहित तौ राज्य अर शास्त्र-ज्ञानसहित तप, ए दोऊ पूज्य हैं। बहुरि इनि विषैं भी जो राज्यकौं छोरि तप करै है सो तौ लघु नांही हो है, उत्तमपनौ पावै है। अर जो तपकौं छोरि राज्य करै है सो अत्यंत लघु हो है, नीचपनौ पावै है। तातैं राज्यतैं भी तप है सो प्रकर्षणतैं पूज्य है। ऐसैं मनकरि विचारि पापतैं भयभीत बुद्धिवान् आर्य पुरुष है सो सर्व प्रकार संसार भयका दूरि करनिहारा जो तप तिसकौं करै है।

भावार्थ—लोकविषैं दोय प्रधान हैं। एक तौ नीतिसहित राज्य अर एक ज्ञानसहित तप। बहुरि जो राज्य छोरि तप करै सो तौ वंद्य हो है। अर तप छोरि राज्य करै सो अति निन्द्य हो है। तातैं यहु निश्चय है राजतैं भी तप विशेष प्रधान है, सो प्रत्यक्ष देखिये है, राजा तपस्वीकौ वंदै, अर तपस्वी राजाकौ वंदै नांही। सो ऐसैं विचारि जो ज्ञानी जन संसारतैं डरचा है सो राजकौं तौ पापरूप संसारका कारण जानि अर तपकौं संसार दुःखका हरनहारा जानि तप ही कौं अंगीकार करै है।

आगैं तप है लक्षण जाका ऐसा गुणका नाशतैं लघुपनौ हो है। इस ही अर्थकौं दृष्टांत द्वारकरि दिखावता संता सूत्र कहै हैं—

पुरा शिरसि धार्यन्ते पुष्पाणि विबुधैरपि ।

पश्चात् पादोऽपि नासप्राक्षीत् किं न कुर्याद् गुणक्षतिः ॥१३९॥

अर्थ—पहलैं जब सुगंधादिक गुण होइ तब तौ फूल हैं ते देवनिकरि भी मस्तक विषैं धारिये हैं। बहुरि पीछैं गुण जाते रहै तब तिन फूलनिकों

चरण है सो भी नांही भींटे। सो न्याय ही है—गुण का नाश है सो कहा लघुता न करै, अपितु सर्व ही करै।

भावार्थ—लोकविषै गुण ही करि महिमा है, सो देखो जिस फूलको सुगंधादिक गुण होतैं महंत पुरुष भी अपने मस्तक विषै राखैं थे तिस ही फूलको गुण गए पीछै कोई पगनिकी ठोकर भी देना नांहीं। सो इहां भी यह अर्थ समझनां, जो ज्ञान सहित तप होतैं जाकौं देव भी पूजै थे तिस ही कौं भ्रष्ट भए पीछै कोई ताका संगम भी नांही करै। सो गुणका नाश लघुपना करै ही करै। तातैं गुणकी रक्षा ही करनी योग्य^१ है। बहुरि इहां ऐसा भाव जानना जो कुल वा पदस्थका वा भेषादिकका सम्बन्धकरि बडा-पनौ मानिये है सो भ्रम है। एक ही जीव गुण होतैं जो वंच था सोई गुण गए निच भया, तौ पूर्वे अन्य जीव गुणवान भए थे अर आप भ्रष्ट भया तब उनके गुणनितैं यहू कैसैं वंच होइ। अपने वर्त्तमान गुणनिहीतैं वंचपनां हो है, ऐसा निश्चय करना।

आगैं बहुत गुण होतैं भी दोषके अंशका भी रहना भला नांही। बहुरि तिस दोषके अंशकौ रहते संतै तिस दोषमयपनौ ही भलौ है ऐसा अन्योक्ति अलंकारकरि स्वरूप दिखावता संता सूत्र कहै है—

(वसन्त-तिलका छन्द)

हे चन्द्रमः किमिति लाञ्छनवानभूस्त्वं

तद्वान् भवेः किमिति तन्मय एव नाभूः ।

किं ज्योत्स्नया मलमलं तव घोषयन्त्या,

स्वर्भानुवन्ननु तथा सति नासि लक्ष्यः ॥१४०॥

अर्थ—हे चंद्रमा ! तूं कलिमारूप लांछन सहित ऐसा क्यों भया ? बहुरि जो लांछन सहित ही भया था तौ तूं सर्व ही कालिमा मई ऐसा क्यों न भया। रे अतिशयकरि तेरे मलकौ बलवती ऐसी जो अवशेष रही ज्योति ता करि कहा सिद्धि है। इहां विचार करि जो राहुवत् तैसै ही सर्व काला होय तो तूं काहू करि लखने योग्य टोकने योग्य न हो है।

भावार्थ—इहां अन्योक्ति अलंकारकरि चंद्रमाकौ उलहनां दीया है। सो कोई ऊंची मुनिपदवी धारि तिसविषै दोष लगावै है ताकौं यहू उलाहनां जाननां। जैसे चन्द्रमा उज्वल पदवीका धारक अर वाकै किंचित्

१. ही याग्य, १३९.२.

कालिमा दीसै है ताकरि वाकों कलंकी कहिकरि सर्व टोकै है । अर जो राहु सर्व ही काला है तौ वांका ऐसा ही पद जानि कोउ टोकै नांही । तैसेँ तू निर्मल ऊंची मुनि पदवीका धारक भया है । अर तेरै कोई किछू दोष भासै है ताकरि तोकौं कलंकी मानि सर्व टोकै हैं । अर जो नीचैकी गृहस्थ पदवीका धारक सर्वमल युक्त है तौ वाका ऐसा ही पद जानि कोऊ टोकै नांही । तातैं चंद्रमाका मिसकरि याकौं सीख दई है तू दोष सहित क्यों भया । अर जो दोष सहित होना था तौ सर्व ही दोष युक्त क्यों न भया । ऊंची मुनि-पदवी छोरि नीचली गृहस्थ पदवी ही अंगीकार करनी थी । रे! तू केई ऊंची मुनि पदवीकी क्रियानिकौं साधै है सो इनिकरि कहा साध्य है? एइ तेरै दोषकों प्रगट करै हैं । जो तू भी गृहस्थ होइ तौ अन्य गृहस्थवत् काहूकरि टोकने^१ योग्य न होइ । तातैं हमारी यहु शिक्षा है—जो ऊंची मुनिपदवी-कौं^२ धारै है तौ दोषकों मति धारै । अर दोषकों धारै है तौ मुनि पदकों मति धारै । आदिपुराणविषै भी ऐसा कथन हैः—च्यारि हजार मुनि आदिनाथ स्वामीकी साथि दीक्षा लेइ भ्रष्ट भए, तब तिनकों देवता कहते भये । इस पदवीविषै ऐसा भ्रष्ट आचरण^३ करोगे तौ हभ दंडेंगे । इस पदवीको छोरि जैसेँ रुचै तैसेँ करौ । इहां कोऊ कहै लोक तौ जैसेँ कहै, तैसेँ कहौ, परन्तु फल तौ जेता गुण दोष होइ तेता ही लागैं, ताका उत्तर षट्पाहुड विषै ऐसा कह्या है—

जहजायरुवसरिसो तिलतुसमित्तं ण गहदि अत्थेसु ।

जइ लेइ अप्पबहुयं तत्तो पुण जाइ णिग्गोयं ॥

अर्थ—यथाजातरूप सदृश नग्न मुनि है सो पदार्थनिविषै तिलका तुष मात्र भी न ग्रहण करै । जो थोरा बहुत ग्रहण करै तौ तिसतैं निगोद जाय । सो इहां देखो गृहस्थ तौ बहुत परिग्रहका धारी थोरासा धर्म साधै तौ भी शुभ गति पावै । अर मुनि थोरासा भी व्रत भंग करै तौ निगोद जाइ । बहुरि न्याय भी ऐसैं ही है । अनशनतप धारि अन्नका दाणा भी ग्रहै तो पापी होइ । बहुरि अनशन व्रत ना धारै, अर अवमौदर्य विषै तिसतैं घणां भी भोजन करै तौ धर्मात्मा होइ । ऐसै यहु बात सिद्ध भई । दोष सहित ऊंची पदवीतैं नीचैकी पदवी ही भली है । तातैं दोष लगाइ ऊंची पदवीकौं बिगारना योग्य नांही ।

१. ग्रहस्थवत् टोकने. मु. १४०-१५

२. उचा मुनिपदको- ज. १४०-४

३. ऐसा आचरण मु. १४०-२०

४. ग्रहस्थ परिग्रहका. मु. १४०-५

आगँ दोषकों विद्यमान होतैं ताकों प्रकाशनेवाला अर आछादनेवाला ऐसा दुर्जन अर आचार्य तिनके हितकारी अहितकारीपनातैं^१ आराधने न आराधनेका योग्यपनाकों दिखावता संता सूत्र कहै हैं—

शार्दूलछंद

दोषान् कांश्चन तान्प्रवर्तकतया प्रच्छाद्य गच्छत्ययं
सार्धं तैः सहसा त्रियेद्यदि गुरुः पश्चात् करोत्येष किम् ।
तस्मान्मे न गुरुर्गुरुर्गुरुतरान् कृत्वा लघूंश्च स्फुटं
ब्रूते यः सततं समीक्ष्य निपुणं सोऽयं खलः सद्गुरुः ॥१४१॥

^१अर्थ—कोई गुरु प्रवृत्ति राखनेका भावकरि शिष्यके पाइए ऐसे ते केइ दोष तिनकों छिपाइ करि प्रवर्तैं है। बहुरि जो यहु शिष्य तिन दोषनि-करि सहित शीघ्र मरनकों प्राप्त होइ तौ पीछै यहु गुरु कहा करै। तातैं ऐसा मेरा गुरु नांही। बहुरि जो दोष देखनेविषैं जैसे प्रवीण होइ तैसें निरं-तर नीके अवलोकि मेरे थोरे दोषनिकों बहुत घणे बधाईकरि प्रगट कहै है। ऐसा दुर्जन है सौ मेरा भला गुरु है।

भावार्थ—पूर्व सूत्रविषैं दोषवानकी निंदा करी थी। तहां कोऊ कहै कि अवगुणग्राही होना युक्त नांही। आपकों तौ गुणहीका ग्रहण करना। ताकों कहिए है। जो आप दोषकों भी धरै है अर अपना ऊंचापन भी राख्या चाहै है ताकों दोष प्रगट करनहारा बुरा भासै है। बहुरि जो धर्मात्मा अपनी अवस्थातैं ऊंचापन प्रगट कीया न चाहै है अर कोई आपविषै दोष है ताकों छोड्या चाहै है, ताकों दोष प्रगट करनहारा बुरा नांही भासै है। सो इहां धर्मात्मा ऐसैं विचारै है, जे गुण दोषका ज्ञान तौ गुरु-उपदेश तैं होतैं। बहुरि जे गुरु प्रवृत्ति करावनेका लोभतैं जैसे अपना संप्रदाय बधैं तैसें किया चाहै अर दोषनिकों न कहै तौ शिष्यको अपने दोषका ठीक न होइ, तब वह दोषकों छांडै नांही। बहुरि जो ऐसैं विचारै पीछैं याका दोष छुडा-वेंगे, अर यह शीघ्र ही दोष सहित मरै कुगतिकों प्राप्त होइ तब गुरु कहा करै ? तातैं दोषकों छिपावै सो गुरु नांही। बहुरि दुर्जन है सो थोरे दोष-निकों भी अवलोकि तिनिकों घने कहिकरि प्रगट करै तब धर्मात्मा अपना दोष जानि ताके अभाव करनेकों उद्यमवंत होइ। ऐसैं दोषका कहनां उप-

१. हितकारीपनातैं, ज. १४-७

देश समान गुणकर्ता हो है। तातें दोष कहनकारा दुर्जन है सो इस अपेक्षा गुरुसमान कार्यकारी है। या प्रकार धर्मात्मा है सो दोष छिपावनेवाला गुरुतै भी अपना दोष कहनहारा दुर्जनकौ भी भला जानै है। इहां प्रश्नः— जो दोष कहै मर्मछेद करनेतैं पाप भी तौ हो है ? ताका समाधानः— जो ईर्ष्या दोषकरि बुरा करनेकै अर्थ दोष प्रगट करै है ताकौ तौ पाप ही हो है। बहुरि जो करुणावंत होइ दोष छुडावनेकै अर्थ दोष प्रगट करै है ताकौ पुन्य ही हो है। बहुरि प्रश्नः—जो दुर्जनकौ तौ पाप ही हो है, वाकौ गुरु कैसे कह्या है ? ताका उत्तरः—दुर्जन तौ पापी ही है, परन्तु इहां दोष छिपावनेवाला गुरु दुर्जनतैं भी बुरा है। ऐसा प्रयोजन लिए अलंकारकरि गुरु कहा है। परमार्थ तैं गुरु है नांही, ऐसैं धर्मात्मा दोष कहनेवालाकौ इष्ट मानै है।

आगैं तर्क करै हैः—जो शिष्यकैं दोष कहे चिंता उपजै ताका निषेधकै अर्थ आचार्य हैं ते दोषकौ छिपाइकरि प्रवर्तैं हैं ऐसा कहै हैं—

विकाशयन्ति भव्यस्य मनोमुकुलमंशवः ।

रवेरिवारविन्दस्य कठोराश्च गुरूक्तयः ॥१४२॥

अर्थ—कठोर जे गुरुकी वाणी ते भव्य जीवका मनकौ प्रफुल्लित करै है। जैसे कठोर जे सूर्यकी किरण ते कमलकी कलीकौ प्रफुल्लित करै।

भावार्थ—श्री गुरु दोष छुडावनेकौ वा गुणग्रहण करावनेकौ कदाचित् असुहावने कठोर वचन भी कहै, तहां भव्य जीवका मन^१ तिन बचननिकरि आनंदित ही हो है। वाकै चिंता खेद न हो है। जैसे सूर्यकी किरण औरकौ आताप उपजावनहारी कठोर है, तथापि कमलकी कलीकौ प्रफुल्लित ही करै है। तैसें गुरुके वचन पापीको अपनी हीनता होनेकरि दुख उपजावनहारे कठोर हैं, तथापि धर्मात्माके मनकौ आनन्द ही उपजावै है। धर्मात्माकौ श्री गुरु दवाइ उपदेश देवै हैं। तब वह आपको धन्य मानै है। इहां कोऊ कहैः—कठोर उपदेश तैं पापी तौ दुःख पावै ? ताका उत्तर। जाकौ तीव्र कषायी पापी जानै ताकौ कठोर उपदेश देतै नांही, तहां माध्यस्थ भावनां भावै हैं। इहां तौ शिष्यको यहु शिक्षा है—श्री गुरु भला होनेकै अर्थ कठोर वचन कहै हैं। किछू उनके ईर्ष्या प्रयोजन है नांही। तातैं तिनकौ इष्ट जानि तहां आदर ही करना।

१. भव्य जीवका मन तिनकी कलीसौं प्रफुल्लित. ज. १४२-९

आगे तैसी वाणीनिकरि धर्मके कहनेकों अर अङ्गीकार करनेकों सावधान ऐसे इस कालविषै प्राणी थोरे हैं ऐसा कहै हैं—

लोकद्वयहितं वस्तु श्रोतुं च सुलभाः पुरा ।

दुर्लभाः कर्तुमद्यत्वे वक्तुं श्रोतुं च दुर्लभाः ॥१४३॥

अर्थ—पूर्व तौ दोऊ लोकविषै हितकारी ऐसा धर्म ताहि कहनेकों अर सुननेकों तौ सुलभ थे । बहुरि करनेकों दुर्लभ थे । बहुरि अब इस काल विषै कहनेकों अर सुननेकों भी दुर्लभ भए हैं ।

भावार्थ—जो धर्म इस लोकविषै अर परलोकविषै जीवकौ भलौ करै ऐसे धर्मके कहनेवाले अर सुननेवाले पूर्वे चौथा कालविषै घने थे । अर अंगीकार करनेवाले तब भी थोरे ही थे, जातैं संसारविषै धर्मात्मा थोरे ही हो हैं । बहुरि अब यह पंचम काल ऐसा निकृष्ट है जिसविषै सांचे धर्मके कहनेवाले अर सुननेवाले भी थोरे ही पाइये है । कहनेवाले तौ अपने लोभ मानादिकके अर्थी भये तातैं यथार्थ कहै नांही । अर सुननेवाले जड़वक्र भये तातैं परीक्षा रहित हठग्राही होत संते यथार्थ सुनै नांही । बहुरि कहना सुनना ही दुर्लभ भया तौ अंगीकार करनेकी कहा बात ! ऐसै इस काल विषै धर्म दुर्लभ भया है सो न्याय ही है । यह पंचमकाल ऐसा निकृष्ट है जा विषै सर्व ही उत्तम वस्तुनिकी हीनता होती आवै है, तौ धर्म भी तौ उत्तम है, याकी वृद्धि कैसें होइ ? तातैं ऐसे निकृष्ट कालविषै जाकों धर्मकी प्राप्ति होय है सो ही धन्य है ।

आगैं कोऊ संदेह करै कि दोऊ लोकविषै हितकारी धर्म ताके कहनहारै श्रीगुरु तिनिकरि औरनिका दोषकों कहि तिस^१ दोषतैं निवृत्ति करावनी । सो तैसैं कीए शिष्यकै अपना दोष प्रगट होनेतैं अनिष्टका संयोग भया तातैं वह आर्तध्यानी होइ किछू भी भला मार्ग विषै न प्रवतैं सो ऐसा संदेह दूरि करत संता सूत्रकहै हैं—

पृथ्वीछंद

गुणागुणविवेकिभिर्विहितमप्यलं

दूषणं

भवेत्

सदुपदेशव-मतिमतामतिप्रीतये ।

कृतं किमपि धार्ष्ट्यतः स्तवनमप्यतीर्थोषितैः

न तोषयति तन्मनांसि खलु कष्टमज्ञानता ॥१४४॥

१. कहिकरि तिस. सु. १४३-२०

अर्थ—गुण अर दोषका विवेक सहित जे सत्पुरुष तिनकरि अपना दूषण अतिशय करि प्रकट किया हुवा भी बुद्धिवान जीवनिकै जैसे भला उपदेश प्रीति उपजावै तैसें अत्यन्त प्रीतिकै अर्थ हो है। बहुरि धर्मतीर्थके न सेवनहारे ऐसे जीव तिनकरि धीठपनातें किछू किया हुवा गुणानुवाद है सो भी तिन बुद्धिवानोंके मननिकों नांही संतोष उपजावै है। इहां अन्यथापनों भासै है सो यह अज्ञानता खेदकारी है।

भावार्थ—जो जाका हित चाहै सो तो जैसें वाका भला होइ तैसें ही करै। तातें उस जीवके बुरा होनेका कारण जो दोष ताके छुडावनेके अर्थ सत्पुरुष दोष भी प्रकट करै हैं। जो ए दोष न प्रगट करै तो अज्ञानी जीव अपना दोषकों कैसें जानै। बहुरि बिना जानें दोषकों कैसें छांडै। बहुरि जो जिसतें अपना लोभादिक प्रयोजन साध्या चाहे सो जैसें वाकों प्रसन्न होता जानै तैसें ही करै। तातें उस जीवके दोषनिकों भी धीठपनातें गुण ठहराइ बडाई करै। जो ए बडाई न करै तो अज्ञानी जीवनिका मान कैसें बधै। बहुरि याका मान न बधावै तो यह उनका प्रयोजन काहे कों साधै। ऐसें सत्पुरुष दोष भी प्रगट करै अर अधर्मी बडाई भी करै है। तहां मूर्खको तो दोष कहना अनिष्ट भासै है अर गुण कहना इष्ट भासै है। बहुरि जे विवेकी हैं ते ऐसें जानै है जो मेरा भला होनेके अर्थ दोष प्रगट करै हैं सो यह दोषका प्रगट करना है सो ही मुझकों भली शिक्षा है। ऐसें विचारि तहां इष्टपनों मानै है। बहुरि जो ए अपना प्रयोजन अर्थ दोषकों गुण ठहरावै ते ए ठिग हैं। जो येहु बडाई है सोई मेरे बुरा होनेका कारण है। ऐसें विचारि तहां अनिष्ट मानै है। तातें दोष कहै विवेकीनिकै आर्त्त-ध्यान होनेका भ्रम करना नांही।

आगैं दोष प्रगट कीयें दोष देखनेतै दोषका त्याग करना। अर गुण देखनेतें गुणका ग्रहण करना सो ही बुद्धिवानोंकू करने योग्य कार्य है ऐसा कहै हैं—

त्यक्तहेत्वन्तरापेक्षौ गुणदोषनिबन्धनौ ।

यस्यादानपरित्यागौ स एव विदुषां वरः । १४५॥

अर्थ—छोड़ी है अन्य कारणकी अपेक्षा जिनविषै, बहुरि गुण दोष ही का है कारण जहां ऐसे जे ग्रहण अर त्यागते तिस जीवके पाइए सो ही ज्ञानीनिविषै प्रधान जाननां।

भावार्थ—काहूका ग्रहण करनां काहूका त्यजन करना ऐसे जीवनिकै प्रवृत्ति पाइए है। तहां सम्यग्दर्शनादिक गुण जिनकरि निपजै तिनिका तो

ग्रहण करना, अर मिथ्यात्वादिक दोष जिनकरि निपजै तिनिका त्यजन करना । ऐसैं गुण दोषकी अपेक्षा लीयें जिनकै ग्रहण त्याग^१ पाईए है, अर अन्य कोई विषय कषायादिकका प्रयोजन जहां न पाईए ते जीव उत्कृष्ट ज्ञानी जानने । जातैं ए अपना हित साधै हैं । बहुरि हित साधना सोई बुद्धिवानोंकै करनें योग्य कार्य है ।

आगैं अन्यथा ग्रहण त्याग विषैं दूषण कहै है—

हितं हित्वाऽहिते स्थित्वा दुर्धीदुःखायसे भुशं ।

विपर्यये तयोरेधि त्वं सुखायिष्यसे सुधीः ॥१४६॥

अर्थ—हे जीव ! तूं हितकों छोरि अहितविषैं तिष्ठिकरि दुर्बुद्धि होत संता आपकैं अत्यंत दुःखकों करै है । तातैं तूं सुबुद्धी होत संता तिनका उलटा भाव जो अहितको छोरि हितविषैं तिष्ठना तिसविषैं वृद्धिकों प्राप्त होहु । ऐसैं तूं आपकै सुखकों प्राप्त करैगा ।

भावार्थ—हे जीव ! तूं सम्यग्दर्शनादिक हितकारी गुणरूप कार्यं ताका तौ त्याग कीया, अर मिथ्यादर्शनादिक अहितकारी दोषरूप कार्यं ताका ग्रहण कीया सो ऐसे त्याग ग्रहणतैं तूं अनादिहीतैं दुखी भया है । सो तूं हीं अपनी अवस्थाकों विचारि देखि मैं कैसैं परिणम्यां अर ताका फल मोकं कहा भया । बहुरि जै तूं तिसतैं उलटा परिणमै, गुणका ग्रहण करै, दोषकों तजै तौ तूं अवश्य सुखी होइ । जातैं कारण उलटा भए कार्यं भी उलटा होइ ही होइ । जैसें जल छोरि अग्निका सेवनि कींए आताप हो है । बहुरि जे अग्नि छोरि जलका सेवन करै तौ शीतलता होय ही होय । तैसें इहां भी जिस अनादि परिणमनतैं दुखी भया है तिसतैं उलटा परिणमैं तो सुखी होय ही होय । स । अनादितैं तौ गुण छोरि दोष सेवन कीया । अब तोकैं दोष छोरि गुणका ग्रहण करना योग्य है ।

आगैं कारण सहित गुण अर दोष जानें ऐसे हो है ऐसा दिखावता संता सूत्र कहै है—

शिखरणी छंद

इमे दोषास्तेषां प्रभवनममीभ्यो नियमतः

गुणाश्चैते तेषामपि भवनमेतेभ्य इति यः ।

त्यजंस्त्याज्यान् हेतून् झटिति हितहेतून् प्रतिभजन्

स विद्वान् सद्वृत्तः स हि स हि निधिः सौख्ययशसोः ॥१४७॥

१. ग्रहण दोष पाईए, ज० १४५, १

अर्थ—ये दोष हैं अर तिन दोषनिका इनि कारणनितें उपजना हो है। बहुरि ये गुण हैं अर इनि गुणनिका इनि कारणनितें उपजना हो है। ऐसैं निश्चै करनहारा^१ जो जीव त्यजने योग्य जे कारण तिनकों तौ शीघ्र छोरता है अर हितके कारण तिनकों सेवता है सोई जीव ज्ञानी है। अर सोइ सम्यक्चारित्री है अर सोई सुख अर यशका निधान है।

भावार्थ—विवेकी पुरुष हैं सो पहलै दौषकों अर गुणकों पहचानें। तहाँ विचार कीएं मिथ्यात्वादिक तौ दोष भासै, जातैं एई आत्माकों दुखी करै हैं। बहुरि सम्यक्त्वादि गुण भासै, जातैं ए आत्माकों सुखी करै हैं। बहुरि दोषके अर गुणके जे कारण हैं तिनकों पहचानें, तहाँ बिचार कीएं कुदेव कुगुरु कुशास्त्रादिक वा विषयादिक सामग्री तौ दोषके कारण भासै। अर सुदेव सुगुरु सुशास्त्रादिक वा व्रत संयमादिक गुणके कारण भासै। ऐसैं निश्चै भए त्यजने योग्य जे दोषके कारण तिनकों त्यजै, अर ग्रहण योग्य जे गुणके कारण तिनकों ग्रहै। तहां दोष गुण अर तिनिके कारण तिनिका निश्चयकरि जाननां भया सो तौ सम्यग्दर्शन सहित सम्यग्ज्ञान है। अर सर्व दोषका कारण छोडि गुणका ग्रहण करनां सो सम्यक्चारित्र है। ऐसैं ए तीनों मिले मोक्षमार्ग भया, ताका फल मोक्ष हो है। तहां अनन्त सुखकों अनुभवै है, अर वाका सर्व प्रकार महिमा हो है। तातैं पहलैं कारण सहित गुण दोषकों जाननां योग्य है।

आगैं विवेकी जीवकरि हितकी वृद्धि अहितका नाश ए दोय कारण करने योग्य हैं, जातैं तिस विनां अन्य धनादिकविषैं जे वृद्धि नाश है तिनिका तौ सर्व प्राणीनिकै समानपनां पाईए है ऐसा कहै हैं—

वसन्ततिलका छन्द

साधारणौ सकलजन्तुषु वृद्धिनाशौ

जन्मान्तराजितशुभाशुभकर्मयोगात् ।

धीमान् स यः सुगतिसाधनवृद्धिनाशः

तद्वद्यत्याद्विगतधीरपरोऽभ्यधाय ॥१४८॥

अर्थ—अन्य पूर्व जन्मनिविषैं निपजाए ऐसे पुन्य पाप कर्म तिनिके उदयरूप संयोगतैं शरीर धनादिकका बधनां वा नाश होनां सो तौ सर्व प्राणी-निविषैं समान पडै है। बहुरि बुद्धिवान सोई है जौं सुगतिकों कारणभूत वृद्धि

१. तिन दोषनिका.....ऐसैं निश्चै करनहारा. मु. १४७-१४

नाश जाके पाइए ऐसा होइ । बहुरि इस जीवतें अन्य जीव है सो तिसतें उलटा दुर्गतिका साधन वृद्धि नाश होनेतें निर्बुद्धि है ऐसैं श्री गुरुनँ कहा है—

भावार्थ—लोकविषैं धनादिककी वृद्धि भए अर दरिद्रादिकका नाश भये जीवकौ बुद्धिमान मानीये है । बहुरि दरिद्रादिककी वृद्धि भए अर धनादिकका नाश भए निर्बुद्धी मानीये है । सो यहु तौ मिथ्या है । जातैं ऐसा वृद्धि-नाशविषैं तौ जीवका किछू कर्तव्य नांही । जैसा पूर्वोपाजित पुन्य-पापका उदै हो है तैसा कार्य स्वयमेव सर्व जीवनिकै हो है । सो प्रत्यक्ष तौ कोऊ घनां बुद्धिवान् होइ सो भी दरिद्री देखीये है । कोऊ सर्व प्रकार मूरख होय सो भी धनवान देखीये है । बहुरि एक ही जीव जिस बुद्धितें घनां बुद्धिवान भया होइ सोई जीव तिस ही बुद्धितें निर्धन होता देखीये है । तातैं ऐसे वृद्धि-नाशविषैं तौ बुद्धिका किछू प्रयोजन है नांही । इहां पुरुषार्थ मानना निरर्थक है । बहुरि सम्यक्त्वादिक धर्मरूप भावनिकी वृद्धि भए अर मिथ्यात्वादिक अधर्मरूप भावनिका नाश भए बुद्धिवान् मानीये । अर मिथ्यात्वादिककी वृद्धि भए सम्यक्त्वादिकका नाश भए निर्बुद्धि मानीये, सो यहु सत्य है । जातैं ऐसा वृद्धि नाशविषैं जीवका कर्तव्य है । जैसा अपनी बुद्धिका बिचार होइ तैसा कार्य जीवका कीया हुवा जीवकै हो है । सो प्रत्यक्ष कोऊ तौ तिर्यचादिक भी अपनी बुद्धितें धर्म साधनकरि स्वर्गादिककों प्राप्त हो है । कोऊ राजादिक भी निर्बुद्धी होइ अधर्म साधनकरि नरकादिककौ प्राप्त हो है । तातैं ऐसे धर्मका वृद्धि-नाशविषैं ही बुद्धिका प्रयोजन जानि इहां ही पुरुषार्थ करनां योग्य है ।

आगैं जे सुगतिके साधन धर्मरूप भाव तिनकी वृद्धिके कारणहारे जीव हैं ते थोरे हैं ऐसैं दिखावता संता सूत्र कहै हैं—

शिखरणीछंद

कलौ दण्डो नीतिः स च नृपतिभिस्ते नृपतयो

नयन्त्यर्थार्थं तं न च धनमदोऽस्त्याश्रमवताम् ।

नतानामाचार्या न हि नतिरताः साधुचरिताः

तपःस्थेषु श्रीमन्मणय इव जाताः प्रविरलाः ॥१४९॥

अर्थ—कलि कालविषैं नीति तौ दंड है । दंड दीयें न्याय मार्ग चालै । बहुरि सो दंड राजानि करि हो है । राजा बिनां और देनकौ समर्थ नांही ।

१. ऐसे वृद्धिनाशविषैं. ज. १४८-३

बहुरि ते राजा धनके अर्थ न्याय करै हैं । जामें धन आवनेका प्रयोजन न सधै ऐसा न्याय राजा करते नांही । बहुरि यहु धन है सो आश्रमी जे मुनि तिनके पाइए नांही । तिनिका भेष ही धनादिक रहित है । ऐसैं तो इनि भ्रष्ट भए मुनिनिकौं राजा न्यायमार्गविषैं चलावते नांही । बहुरि आचार्य हैं ते आपकौं विनय नमस्कारादिक करावनेके लोभी भए । ते नम्रीभूत भए जे मुनि तिनकौं नांही न्यायविषैं प्रवर्त्तावै हैं । ऐसैं इस काल विषैं तपस्वी जे मुनि तिन विषैं मुनिका भला आचरण जिनिके पाइए ऐसे मुनि ते, जैसैं शोभायमान उत्कृष्ट रत्न थोरे पाइए तैसैं थोरे विरले पाइए है ।

भावार्थ—इस पंचम कालविषैं जीव जड़ वक्र उपजै हैं ते दंडका भय विना न्यायविषैं प्रवर्त्तै नांही । बहुरि दंड देनेवाले लोकपद्धतिविषैं तो राजा हैं, अर धर्म पद्धतिविषैं आचार्य हैं । तहां राजा तौ धनका जहां प्रयोजन सधै तहां न्याय करै, मुनिनिकें धन नांही तातैं राजा मुनिनिपै न्याय चलावे नांहीं, जैसैं प्रवर्त्तै तैसैं प्रवर्त्तौं । बहुरि आचार्य हैं ते विनयके लोभी भए सो दंड दे नांहो । ऐसैं भय विनां मुनि स्वच्छंद भए हैं । कोई विरले मुनि यथार्थ धर्मके साधनहारे रहे हैं ।

आगैं जे मुनि आचार्यनिकौ नांही नमैं है, उनकी आज्ञामें नांही रहै हैं, अर स्वच्छंद प्रवर्त्तै हैं तिन सहित संगति करनी योग्य नांही—

एते ते मुनिमानिनः क्वलिताः कान्ताकटाक्षेक्षणैः

अङ्गालनशरावसन्नहरिणप्रख्या भ्रमन्त्याकुलाः ।

संधतु विषयाटवीस्थलतले स्वान् क्वाप्यहो न क्षमाः

मा ब्राजीन्मरुदाहताभ्रचपलैः संसर्गमेभिर्भवान् ॥१५०॥

अर्थ—ते ये प्रत्यक्ष मुनि नांही अर आपकौं मुनि मानैं ते स्त्रीनिके जु कटाक्ष लीएं अवलोकन तिनिकरि ग्रासीभूत भए उनकरि ग्रहे हुए अंग विषैं लागै है बाण तिनिकरि पीडित जे हिरण तिनके सदृश व्याकुल होत संते भ्रमण करै हैं । बहुरि विषयरूपी वनका जो स्थल भाग ता विषैं कहीं आपनिकौं स्थिर राखनेकौं समर्थ न हो हैं सो पवन करि खंडित कीए बादले जैसैं चपल होइ तैसैं चंचल जे ए भ्रष्ट मुनि तिन सहित हे भव्य तूं संगतिकों भी मति प्राप्त होहु ।

१. धन नांही जैसे प्रवर्त्तै म. १४९. ५,

भावार्थ—जैसे हिरणकै अंगविषै बाण लाग्या होइ सो वह उसकी पीडातैं व्याकुल हुवा कूदता फिरै, कहीं वन भूमिकाविषै स्थिर रहने कौ समर्थ न होइ। तैसे ए भ्रष्ट मुनि मानौ तिनिकै अंतरंगविषै स्त्रीनिका कटाक्षरूप अवलोकन सोई कामवाण लगा है सो ए उसकी पीडातैं व्याकुल हुये भ्रमरूप होय रहे हैं। कहीं विषयनिविषै मन लगावनेकौ समर्थ न हो हैं। कामकी तीव्रता करि धर्म साधन करना तौ दूरि ही रहौ, परन्तु देखना सूघना सुनना इत्यादि विषयनिविषै भी मनकौ स्थिर नाही करि सकै हैं। सो जैसे पवन करि विघटाए हुये बादले चंचल हो हैं, तैसे विकार भावकरि भ्रष्ट कीए हुए मुनि चंचल हो हैं सो उनका तौ ह नहार ऐसा ही है, परन्तु हे भव्य ! ते किछू धर्मबुद्धि है तातैं तोकौ सीख देवे हैं। ऐसे भ्रष्टनिकी संगति तूं मति करै। जो संगति करैगा तौ तूं भी उनका साथी होय दुर्गति कौ प्राप्त होगा। इहां भाव यहु जो भ्रष्ट मुनि संगति योग्य भी नाही है।

आगै इन सहित संगतिकौ न प्राप्त होता जो तूं सो ऐसी सामग्री पाइ याचनां रहित हुवा तिष्ठि ऐसी सीख देता सूत्र कहै हैं—

वसंततिलका छंद

गेहं गुहाः परिदधासि दिशो विहायः

संन्यानमिष्टमशनं तपसोऽभिवृद्धिः ।

प्राप्तागमार्थं तव सन्ति गुणाः कलत्र-

मप्रार्थ्यवृत्तिरसि यासि वृथैव याञ्चाम् ॥१५१॥

अर्थ—पाया है आगमका अर्थ जिहि ऐसे जीवकौ संबोधै है। हे प्राप्ता-गमार्थ ? तेरै गुफा तौ मंदिर है। अर दिशानिकौ तू पहरै है। आकाश असवारी है, तपकी बधवारी सो इष्ट भोजन है। गुण हैं ते स्त्री हैं। ऐसे नाही पाइये है काहू पासि याचने योग्य वृत्ति जाकी ऐसा तूं भया है। अब तूं वृथा ही याचनां प्राप्ति हो है। तोकौ दीन होना योग्य नाही।

भावार्थ—लोकविषै इतनी दरतुकी चाहि भएँ याचनां करिये है। प्रथम तौ धनकौ याचै सो तै आगमका अर्थ सो ही अटूट सर्व मनोरथका साधनहारा धन पाया। बहुरि मन्दिरकौ याचै सो गुफा आदि स्वयमेव बनि रहे तेरै मन्दिर पाइए है। बहुरि वस्त्रकौ याचै सो तूं दिशारूपी वस्त्रक पहरै है, दिगम्बर भया है। बहुरि असवारी याचै सो आकाशरूपी असवारी तेरै पाइए है जहां इच्छा होय तहां गमन करि। बहुरि भोजनकौ याचै सो तपका बधनां सोई तेरै तृप्तिका उपजावनहारा इष्ट भोजन है। बहुरि

स्त्रीको याचै सो क्षमा आदि गुण तेई तोकू रमावनहारी स्त्री है। ऐसे तेरै सामग्री पाइए है सो अब तोकों कहा चाहिए, तुं याचना करै। तेरी तौ दीनता रहित सर्वोत्कृष्ट वृत्ति भई है, यातें तूं याचना रहित तिष्ठि, ऐसी शिक्षा ताकों दई है।

आगैं जो याचना करै सो छोटा है, अर न करै सो बड़ा है ऐसैं दिखावता सूत्र कहै है—

परमाणोः परं नाल्पं नमसो न परं महत् ।

इति ब्रुवन् किमद्राक्षीन्नेमौ दीनाभिमानीनौ ॥१५२॥

अर्थ—परमाणुतैं अन्य कोई छोटा नांही, अर आकाशतैं अन्य कोई बड़ा नांही। ऐसैं कहता जो पुरुष है सो इनि दीन और अभिमानीनिकों कहा न देखता भया।

भावार्थ—परमाणुतैं छोटा नांही, आकाशतैं बड़ा नांही, ऐसैं कोई कहै है, तहां जानिए है वानें दीन अभिमानीनिकों देखे नांही। जो दीनकों देखता तौ परमाणुतैं भी छोटा दीनकों कहता अर अभिमानीकों देखता तौ आकाशतैं बड़ा अभिमानीकों कहता। भाव इहां यहु है—जो याचना करनेवाला दीन पुरुष है सो धर्म वा मानादिक घटनेतैं सबनितैं छोटा ही है अर जाचनान करै ऐसा अभिमानी है सो धर्म वा मानादि बधनेतैं सबनितैं बड़ा है। इहां प्रश्नः—जो दीनकै मानादिक घटै तहां धर्म कैसे होइ ? अद अभिमानीकै मानादिक बधै तहां धर्म कैसे होइ ? कषायनिकै अर धर्मकै तो प्रतिपक्षीपनौ पाइए है। ताका समाधान—कोई कषायकी तीव्रता करि कोई कषाय घटै तहां धर्म नांही। सो दीनकै लोभ कषायकी तीव्रताकरि मानादिक घटै है। तातैं याकै धर्म नांही, पाप ही उपजै है। बहुरि सर्व कषाय घटनेतैं भ्रमकरि कोई अवस्था कषायकी सी भासै तहां धर्म ही है। सो इहां मान कषायवालेका नाम अभिमानी नांही है। लोभतैं काहूकों जाचै नांही ताका नाम अभिमानी है। सो याकै सर्व कषाय मंद होनेतैं लोभकरि पापी जीवनिकों नम्रीभूत न हो है। तातैं भ्रमकरि मानीसा भासै, परंतु मानी है नांही। तातैं याकै धर्म ही है। ऐसैं जानि दीनता न करनी।

आगैं पूछै है जो याचककौ गौरव कहां गयो जाकरि तिस ज चककौ लघुपनौ होय, ऐसैं पूछे उत्तर कहै हैं—

याचितुर्गौरवं दातुर्मन्ये संक्रान्तमन्यथा ।

तदवस्थौ कथं स्यातामेतौ गुरुलघू तदा ॥१५३॥

अर्थ—मैं ऐसै मानौ हौं जो याचकका गौरव है सो दातारविषै संक्रमणरूप भया । जो ऐसै न होइ अन्यथा होइ तौ तिस याचनाके काल विषै याचनारूप अर देनेरूप है अवस्था जिनकी ऐसै ए दोऊ बड़ा अर छोटा कैसै हो हैं ।

भावार्थ—उत्पेक्षा अलंकार करि आचार्य कहै हैं:—हमकोँ ऐमा भासै है जो पहलै तौ दोउ पुरुष समान थे । बहुरि जिस समय याचक याचना करै अर दातार देवै तिस समय याचकका बड़ापना था सो निकसि दातार विषै प्राप्त होइ गया । तातैं तत्काल याचक तौ हलका हो है अर दातार महंत हो है । जो ऐसै न हो तौ तिस समय याचक तौ संकोचादिक रूपकरि हीन कैसै भासै है, अर दातार प्रफुल्लितादि रूपकरि महंत कैसै भासै है । तातैं दीनपनां निषिद्ध है । कोउ कहै कि ऐसै है तो मुनि भी तौ दान लेवै है, उनकोँ भी हीन कहौ । ताका उत्तर—मुनि है ते याचना करि दीन होइ दान नांही लेवै हैं । जैसै कोई राजानिकी भेट करै तैसै भक्त पुरुष विनयस्योँ दान देवै है । तहां भी लोभतैं आसको होइ ग्रहण नांही करै है, तातैं यह हीन नांही होवै है । लोभतैं दीनताकरि लियो चाहै सो ही पुरुष हीनताकोँ प्राप्त होइ है । आगैं लेनेवालेका अर देनेवालेका गतिविशेष दिखावता सूत्र कहै हैं—

अधो जिघृक्षवो यान्ति यान्त्यूर्ध्वमजिघृक्षवः ।

इति स्पष्टं वदन्तौ वा नामोन्नमौ तुलान्तयोः ॥१५४॥

अर्थ—जिनकेँ ग्रहण करनेकी इच्छा पाइए है ऐसे जीव हैं ते अधो-गतिकोँ प्राप्त हो हैं । बहुरि जिनकेँ ग्रहण करनेकी इच्छा नांही ऐसे जीव हैं ते ऊर्ध्वगतिकोँ प्राप्त हो हैं । सो ऐसै:—ताखडीके दिय पालडैं तिनिका नीचा होना ऊंचा होना ते मानौँ स्पष्ट प्रगटपने कहै हैं ।

भावार्थ—ताखडीके दिय पालडे समान हैं, तहां जो अन्य वस्तुका ग्रहण करै सो तौ नीचा होइ जाय, अर न ग्रहण करै सो ऊंचा हो जाय । ए ऐसै होतैं संतै मानू यह बतावै हैं:—जैसै हमारी दशा हो है तैसै जो लोभकरि ग्रहण करैगा सो तो तत्काल भी नीचा होइगा, अर आगामी नर-कादिक नीची गतिकोँ प्राप्त होगा ।^१ अर जो लोभ छोरि ग्रहण न करैगा सो तत्काल भी ऊंचा रहेगा, अर आगामी स्वर्ग मोक्ष ऊंची गतिकोँ प्राप्त होगा । ऐसै युक्तिकरि यह प्रयोजन दिखाया दीनताकरि हीनता अर दुर्गति

१. अन्यथा न होइ १५३.६

२. नीची गतिकोँ प्राप्त होगा । ऐसै युक्तिकरि यह. ज. १५४.२

हो है, तातैं दीनता न करनी । इहां कोऊ पूछै—दीनताविषैं ऐसा पाप कहा है ? ताका उत्तरः....दीन पुरुषकै लोभकषाय ऐसा तीव्र हो है जाकरि अन्य कषाय भी निर्बल होइ जाइ, लोक लज्जा भी मिटि जाइ, धर्मकौं भी गिनै नांही । बहुत कहा, धर्म सर्वोत्कृष्ट है ताकौं भी अपमान कराय अपना प्रयोजन साध्या चाहै, तातैं दीनता महापाप है ।

आगै चाचकनिका मनोवांछित अर्थकी सिद्धि न करै ऐसा जु ईश्वरपनाः तिसतैं दरिद्रपना ही भला है ऐसैं दिखावता सूत्र कहै हैं—

सस्वमाशासते सर्वे न स्वं तत् सर्वतपि यत् ।

अर्थिवैमुख्यसंपादिसस्वत्वान्निस्वता वरम् ॥१५५॥

अर्थ—सस्व कहिये धनादिक सहित पुरुष ताकौं सर्व ही जाचै, अर ऐसा धनादिक होइ नांही, जो सर्वकौं तृप्त करै । तातैं अर्थीनिकौं विमुखका करनहारा ऐसा जु धन सहितपनां तिसतैं धन रहितपनां है सो ही भला है ।

भावार्थ—कोऊ जानैगा कि धनवान भए अर्थीनिके मनोरथ पूर्ण कीजिये है । तातैं धनवान होना भला है, सो ऐसैं तौ धनवानपनां काहू कै न होइ जाकरि सर्व अर्थीनिके मनोरथ पूर्ण करि सकै, अर किंचित् धनवानपनां होइ तब सर्व अर्थी याकी आशा करै । तहां सर्वकी आशा पूर्ण होइ नांही, तब वै अर्थी यातैं दुखी होइ विमुख हो हैं । तातैं ऐसे धनवानपनांतैं निर्धनपनां ही भला है । निर्धन भए कोऊ याकी आशा न करै । प्रत्यक्ष देखो धनवानके राजा मित्र स्त्री पुत्र याचकादि सर्व लागू होइ अर निर्धनकैं कोऊ लागू न होइ । तातैं दातार होनेके अर्थि धनवान होनेकी चाहि करिये है तहां लोभ अर मानका आधिक्य जाननां । जो स्वयमेव धनवान होइ अर सर्वत्याग न करि सकै तहां दान देनेमैं किछू लोभका त्याग भया ताकरि तितना ही भला हो है । तातैं तिसकू दान देनौ कह्या है । बहुरि दानका छलकरि धनवानपनाकौ भला जानना योग्य नांही ।

आगैं जे धनवानकौं जाचै हैं तिनकैं आशारूपी खानि कैसी है ऐसा कहै हैं—

आशाखनिरतीवाभूद्गाधा निधिभिश्च या ।

सापि येन समीभूता तत्ते मानघनं धनम् ॥१५६॥

अर्थ—जो आशाखी खानि निधिनतैं भी अत्यंत अथाह होत भई सो भी आशा खानि जिसिकरि समानरूप भई सो तेरै घना मानरूपी धन जाननां ।

भावार्थ—धनादिककी चाह ताका नाम आशा है सोई भई खानि सो नव निधाननितैं भी अथाह है । निधाननिविषैं धनादिक काढेतैं निधान टूटे नांही । परंतु कदाचित् उनका तौ थाह आवै, बहुरि इस आशाविषैं जो धनादिककी चाह पाइए है ताका थाह नांही । नव निधान मिलैं भी आशा बडी ही रहै है । तातैं जानीये है, उन निधाननितैं भी याकै भी अथाहपनां पाइए है । बहुरि हे जीव ! जो तेरै यहु संतोषवृत्तिकरि याचनादिरूप नम्रता न पाइए है, ताका नाम इहाँ मान है । सोई भया धन ताका प्रमाण ऐसा बहुत है जाकरि वैसी आशा खानि समानरूप हो है । पूर्वोक्त मानधन भए आशाकै अधिकताका अभाव हो है । तातैं नव निधाननितैं भी अभिमानरूपी धनकाँ बड़ा जानि संतोषरूप होइ धनादिकै अर्थ याचना करनी योग्य नांहीं, जातैं आशा मेटनेकै अर्थ धनादिक जाचिए है सो निधान पाए भी आशा न मिटै तो स्तोक धनादिकतै कैसेँ यहु मिटैगी । बहुरि संतोषवृत्तिकरि धनादिकै अर्थ नम्रीभूत न होना ऐसे ये परिणमन उपादेय है ।

आगैं सो आशा खान मान धनकरि कैसेँ समान भई ऐसे पूछें कहै है—

आशाखनिरगाधेयमधःकृतजगत्त्रया ।

उत्सर्प्योत्सर्प्यं तत्रस्थानहो सद्भिः समीकृता ॥१५७॥

अर्थ—यहु आशाखी खानि है सो अथाह है । कैसेँ है यहु ? नीचे कीये है तीन जगत जानैं ऐसी है । सो तिस आशाखी खानिनिविषैं तिष्ठते धनादिक तिनिकाँ काढि काढि वह आशाखी खानि सत्पुरुषनिकरि समान करी है, सो यहु बड़ा आश्चर्य है ।

भावार्थ—पाषाणादिककी कोई खानि होय तामैंस्योँ पाषाणादिक काढि तिस खानिको अन्य भूमि समानि करना सो ही कठिन देखिये है । बहुरि यहु आश्चर्य देखो यहु आशाखी खानि ऐसी तौ अथाह, जानै तीन लोक नीचे कीए, तीन लोककी संपदा भी आशाखी नीची है । अर आशा अधिक बड़ी है । सो ऐसी आशा खानि तामैं तिष्ठते पदार्थ तिनिकाँ काढि काढि करि सत्पुरुष ताकाँ समान करै हैं । भाव यहुः—आशाविषैं अनेक पदार्थनिकी चाह पाइए है । तहां सत्पुरुष हैं ते त्याग भाव करि इसकी

१. करनी योग्य नहीं । जातैं आशा न मिटै तो. ज. १५६.२

चाह छोरी, ऐसैं सर्व चाह छोरि तिस आशाकौ मिटायि समान भाव जो वीतराग भाव तिसरूप प्रवतैं है ।

आगै निग्रंथपनांकौ अवलंबिकरि प्रतिज्ञा करी है महाव्रतनिकी जानैं ऐसा मुनि है ताकै परिग्रहका अंगीकार करनेका अभावतैं ऐसैं पूर्वोक्त प्रकार ही इस आशाका समानरूप करना योग्य है ऐसैं दिखावता संता विहित इत्यादि दोग्य काव्य कहै हैं—

हिरणीछंद

विहितविधिना देहस्थित्ये तपांस्युपबृंहय—

न्नशनमपरैर्भक्त्या दत्तं क्वचित् कियदिच्छति ।

तदपि नितरां लज्जाहेतुः किलास्य महात्मनः

कथमयमहो गृह्णात्यन्यान् परिग्रहदुर्ग्रहान् ॥१५८॥

अर्थ—मुनि है सो तपको वधावता शरीरकी स्थितिकै अर्थि जो भोजन योग्य विधिकरि अन्य गृहस्थां भक्तिकरि दियो ताकौ कोई कालविषैं किंचित्मात्र वांछै है । सो भी इस महात्मा मुनिकै अतिशयकरि लज्जाका कारण है तो अहो लोक ! यह महात्मा अन्य परिग्रहरूपी जे खोटे ग्रह तिनिकौ कसैं ग्रहण करै है ? सर्वथा न ग्रहण करै ।

भावार्थ—कोऊ अज्ञानी मुनिकै भी किंचित् परिग्रहका ग्रहण मानैं ताकौ समझाइए है । अहो मुनिकै सर्व आशाका अभाव भया है एक आहार मात्र वांछा पाइए है । सो भी शरीर राखनेकै अर्थि आहारकौ चाहै है । जातैं विना आहार मनुष्य शरीर रहै नांही । बहुरि शरीरकौ भी तपकै अर्थि राखै है, जातैं मनुष्य शरीर विना तप रहै नांही, सो भोजनकरि शरीरकौ राखि, तप ही कौ वधावै है । प्रमादी न हो है । बहुरि आचार शास्त्रविषैं जैसैं विधि वर्णन है तैसैं आहार मिलै तो ग्रहै है । आशक्त होय सदोष आहार न ग्रहण करै है । बहुरि अन्य गृहस्थकरि दिया आहार ग्रहै है । आप न बनावै है वा अदत्त नाहीं ग्रहै है । बहुरि भक्ति करि दिया आहार ग्रहै है । याचना करि दातारकरि दातारकौ दवाय नांही ग्रहै है । बहुरि ऐसा भी आहार नित्य न ग्रहै है । योग्य कालविषैं वा केई उपवासनिकै पारणै ग्रहै है । बहुरि ग्रहै है तब भी संपूर्ण उदर भरि आहार नांहीं करै है । किछू थोरा भी भोजन करै है । ऐसैं आहार ग्रहै है, तौ भी महंत मुनिकौ लज्जा उपजै है, सो हम इतनी चाहि करै हैं । सो हमारी हीनता है । बहुरि ऐसे भी कार्यविषैं जाकै लाज होय सो धन वस्त्रादिक दुष्ट

परिग्रह जिनका तीव्र राग विनां ग्रहण न होइ तिनिका ग्रहण कैसें करै ? सर्वथा न करै ।

जिनागमविषै लंगोट मात्र परिग्रह राखें भी अणुव्रती कह्या । अधिक परिग्रह होतैं मुनिपनों कैसें मानीये । तातैं मुनिकै वस्त्रादिक परिग्रह माननां मिथ्या है—

शाद् लच्छंद

दातारो गृहचारिणः किल धनं देयं तदत्राशनं,

गृह्णन्तः स्वशरीरतोऽपि विरताः सर्वोपकारेच्छया ।

लज्जैषैव मनस्विनां ननु पुनः कृत्वा कथं तत्फलं

रागद्वेषवशीभवन्ति तदिदं चक्रेश्वरत्वं कलेः ॥१५९॥

अर्थ—इस मुनि धर्मविषै गृहस्थ तो दातार अर देने योग्य भोजन मात्र धन अर आप सर्वका उपकारकी इच्छाकरि तिस भोजनकोँ ग्रहण करते अपने शरीरतै भी विरक्त ऐसैं जु यहु क्रिया हो है सोई यहु बुद्धि-वानोंकै लाज है । बहुरि यहु बड़ा आश्चर्य है जो तिस भोजनकोँ मुनि भेषका फल समझिकरि राग द्वेषकै वशीभूत हो है । सो यहु कलिकालकोँ चक्रवर्त्तिपनौ है ।

भावार्थ—गृहस्थ तौ अपनी भक्तितैं दातार होइ अर मुनि पात्र होइ तहां एक भोजन मात्र ही धन हीका दान है । अन्य धनादिकका दान नांही है । बहुरि तिसकोँ भी मुनि गृह है सो अपना वा दातारका वा अन्य जीवनिका जैसें सर्व प्रकार भला होइ तैसें ग्रह है । ऐसैं नांही जो आहार लेइ प्रमादी होइ अपना बुरा करै, दातारकोँ कषाय उपजाय वाका बुरा करै वा अन्य जीवनिकों दोषका कारन होइ । औरनिका बुरा करै बहुरि आहार लेतैं भी अपने शरीरतैं भी विरक्त रहै है । जानै है, यहु शरीर मोकू इष्ट नांही, परंतु याकरि तप साधन करना है, तातैं जैसें यहु नष्ट न होय तैसें थोरा नीरस आहार करना । स्वादादिकका लोभतैं आहार नांहीं करै है । ऐसैं मुनि आहार ग्रहण करै है सो ही मुनिकै लाज उपजावै है । आहार लेनेतैं संकोच उपजै है । आपकी हीनता मानै है । बहुरि यहु बड़ा आश्चर्य भया है इस कलिकालविषै आहारकै अर्थ मुनिपनों अंगी-कार करै है । इस भेषकरि आजीविकाकी सिद्धि करै है सो हमकोँ ऐसैं

१. भेषका फल करि, ज० १५६-४

भासै है। यह कलिकालविषै चक्रवर्तिपनेकी महिमा है। जैसे चक्रवर्ति अपने क्षेत्रके वासी देवादिक तिनविषै भी आज्ञा मनावै तैसें यह कलिकाल अपनी मर्यादाविषै उपजे मुनि आदि तिन विषै भी विपरीतपनां प्रवर्त्तावै है। इहां कोऊ कहै:—जु यह काल दोष है तो इस कालविषै ऐसे ही मुनि मानौ। ताका उत्तर:—जैसे कलिकालविषै अन्याय प्रवर्त्तै है तौ ताकाँ भ्याय तो न माननां। यह जाननां जो अन्यायकी प्रवृत्ति कालदोषतै है। तैसें कलिकालविषै भ्रष्ट भेषधारी प्रवर्त्तै हैं तो तिनिकाँ मुनि तो न माननें, यह जाननां जो ऐसे भेषनिकी प्रवृत्ति काल दोषतै है। बहुरि जैसे कहिये यह कार्य दुष्टके उदयतै भया है। तहां दुष्टवत् उस कार्यकी निंदा जाननी। तैसें जहां कहिये यह कार्य कलि कालतै भया तहां कलिकालवत् तिस कार्यकी बहुत निंदा कीनी है ऐसा जानना। तातें जे मुनि भेषधारी जो भोजनादिकके अर्थी होइ रागी द्वेषी हो हैं तिनिकी निंदा करनेकै अर्थि यहां कलिकालका महिमा कहा है—

आगँ रागद्वेषका आधीनपनां कर्मकरि करिये है, तीह कर्म हे, जीव !
तेरा कहा कीया है सो कहै है—

शार्दूलविक्रीडित छंद

आमृष्टं सहजं तव त्रिजगतीबोधाधिपत्यं तथा

सौख्यं चात्मसमुद्भवं विनिहतं निर्मूलतः कर्मणा ।

दैन्यात्तद्विहितैस्त्वमिन्द्रियसुखैः संतृप्यसे निस्त्रपः

स त्वं यश्चिरयातनाकदशनैर्वद्वस्थितस्तृप्यसि ॥१६०॥

अर्थ—हे जीव ! जिस कर्मकरि तेरा स्वभावभूत तीन जगत्का जु ज्ञान ताका स्वामित्वपनां सो नष्ट कीया। बहुरि तैसें ही आत्मजनित सुख सो मूलतै नाशको प्राप्त भया सो कर्म तौ ऐसें कीया। बहुरि तूं निर्लज्ज हुवा दीनपनांतै तिस कर्मकरि निपजाएँ इन्द्रिय सुख तिनिकरि तृप्त हो है सो तूं कौन जो यातना कहिये उपवासादिकका कष्ट ताहि सहिकरि पीछे मिलै जो कुत्सित नीरस आहार ताविषै बांधी है स्थिति अजीविका जाने ऐसो होत संता संतुष्ट हो है।

भावार्थ—जैसे कोई बड़ा राजा ताकाँ कोई बैरी राज-भ्रष्ट करै। बहुरि वह राजा दीन होई उस ही का दिया किंचित् भोजनादिक ताकरि प्रसन्न होइ। तहां तिसकाँ निर्लज्ज कहिये धिक्कार दीजिये। तैसें हे जीव ! तूं अनंत ज्ञान सुखका स्वामी महंत पदार्थ है। बहुरि ऐसे ज्ञान सुखका

नाशकरि कर्म वैरीनें तोकों भ्रष्ट कीया है। बहुरि तूं दीन होइ तिस कर्म उदयतेँ उपज्या किंचित् विषयसुख तिनिकरि संतुष्ट हो है सो तूं निर्लज्ज है, धिक्कार देने योग्य है। बहुरि जैसेँ उस राजाके वैरीका दिया भी महाकष्टतेँ बुरा भोजनादिक मिलै अर तहां वहं राजा संतुष्ट होइ तौ वह बहुत निंघ है। तैसेँ हे भ्रष्ट मुनि ! तेरे कर्मका दीया भी बहुत सुख नांही। घनेँ उपवासादिक कष्ट सहै तब गृहस्थके घर जैसा तैसा आहार मिलै, अर तहां अपनी तूं आजीविकाकी थिरता भई मानि संतुष्ट हो है, तातेँ तूं बहुत निंघ है। तातेँ जैसेँ उस राजाकाँ अपने वैरीके नाश करनेका उपाय करना योग्य है, तैसेँ तोकूं कर्मका नाश ही करना योग्य है। विषयाशक्त होना योग्य नांही।

आगै जो तेरै इन्द्रिय सुखका अभिलाष है तो होहु तथापि जहां विशिष्ट इन्द्रिय विषय हैं ताकाँ दिखावता सूत्र कहै हैं—

तृष्णा भोगेषु चेद्भिक्षो सहस्वान्पं स्वरेव ते ।

प्रतीक्ष्य पाकं किं पीत्वा पेयं भुक्तिं विनाशयेः ॥१६१॥

अर्थ—हे भिक्षुक मुनि ! तेरै जो विषय भोगनिविषेँ ही चाहि है तो थोरासा सहनशीली होहु। ते भोग स्वर्गविषेँ हैं। रे मूर्ख ! पचता भोजनकाँ देखि अर पीवने योग्य जलादिक ही काँ पीय करि कहा भोजनका नाश करै, ऐसेँ मति करै।

भावार्थ—जैसेँ कोई भूखा मूर्ख पचता भोजनकूं प्रत्यक्ष देखि जेतेँ भोजन पचै तेतेँ धैर्य न करै। इतने काल भूख न सहै। अर किछू भोजनसंबंधी जलादिक ही काँ पीय भोजनका नाश करै। तैसेँ तूं विषयनिका अभिलाषी मूर्ख धर्म साधनतेँ थोरासा ही कालमें स्वर्गकी प्राप्ति होय। तहां विशेष विषय मिलै, ताकाँ विचार। जेतेँ यह मनुष्यका आयु पूर्ण होय स्वर्ग मिलै, तेतेँ धैर्य न करै, इतने काल चाहिकाँ न सहै। अर किछू इहां सदोष भोजनादिक विषय तिनहीकाँ सेय करि स्वर्ग सुखका नाश करै है। सो ऐसा कार्य तूं क्यों करै है, मति करै। जो भोगनि ही की वांछा है तौ थोरेसे काल धैर्य राखि, धर्म साधन करि, तोकूं स्वर्गविषेँ बहुत विषय मिलेंगे। यद्यपि विषयाभिलाष योग्य नांही, तथापि इहां भ्रष्ट होता जीवकाँ लोभ दिखाइ थांम्यां है ऐसा भाव जानना।

आगै कर्मकरि इन्द्रियसुख अर जीवितव्य ए दौय कार्य निपजाइए है। बहुरि जे ऐसे मुनि हैं तिनिका कर्म कहा करै, ऐसा दिखावता निर्धनत्व इत्यादि श्लोक कहै है—

निर्धनत्वं धनं येषां मृत्युरेव हि जीवितम् ।

किं करोति विधिस्तेषां सतां ज्ञानैकचक्षुषाम् ॥१६२॥

अर्थ—जिनकै निर्धनपनी तौ धन अर मरणो सो जीवितव्य है ऐसे जे संत पुरुष, ज्ञान ही है एक नेत्र जिनकै, तिनिकों विधाता कर्म है सो कहा करै, किछू कर सकै नाहीं ।

भावार्थ—जे महामुनि ज्ञान नेत्रकरि यथार्थ पदार्थनिकों अवलोकै हैं तिनिकों धनादिक रहित निर्ग्रन्थपनों सोई धन है । जैसे अन्य जीव धनतें सुखी होइ, तैसें ये मुनि निर्ग्रन्थपनातें सुखी हैं । बहुरि तिनिकै मरना सोई जीविना है । जैसे अन्य जीव प्राण धरनेतें सुखी हो हैं तैसें ए मुनि इन्द्रियादिक प्राण छूटे सुख मानै हैं । ऐसे जे मुनि तिनिका कर्म कहा करै ? कर्मका तौ बल इतना ही है । अनिष्टरूप प्रवर्त्तें तब निधनपनी होइ व मरण होइ सो इनिकरि तौ मुनि दुखी होइ नाहीं । तातें इनका कर्म किछू भी करि सकै नाहीं ।

आगँ ऐसे है तो विधाता कर्म है सो कौनकै अपना कार्यका कर्ता हो है सो कहै है—

जीविताशा धनाशा च येषां तेषां विधिर्विधिः ।

किं करोति विधिस्तेषां येषामाशा निराशता ॥१६३॥

अर्थ—जिनकै जीवनेकी आशा है अर धनकी आशा है तिनिकै विधाता विधाता है । बहुरि जिनकै आशा नष्ट भई तिनका विधाता कहा करै ? किछू न करि सकै ।

भावार्थ—इहां विधाता नाम कर्मका है, सो जे अज्ञानी पाया पर्यायरूप जीया चाहै हैं अर धन चाहै हैं तिनकै कर्म है सो अपना कार्य निपजावनेकों समर्थ होता कर्मपनांकौ धारै है । ते जीव कर्मतें डरै हैं । हमारा मरण मति होहु । हमारे निर्धनपनां मति होहु । ऐसें आशातें कर्म उनकों दुखी करै है । बहुरि जिनकै आशा नाशकों प्राप्त भई छता धनादिकको भी छोडि बैठे अर मरणकै कारणनिकै सन्मुख भए तिनिका कर्म किछू करि सकै नाहीं । ए मुनि कर्मतें डरै नाहीं, मरण हो है तो होहु, पर्याय छोडनेका भय नाहीं । अर निधनपनांकौ निराकुलताका कारण जानि स्वाधीनपने ही धनादिक छोड्या है । ऐसें आशा छोरी तिनकों कर्म कैसें दुखी करै । मोह हीन भए कर्मका उदय होता हीन होता सदृश है । आत्माकौ दुखी करनेरूप कार्यका कर्ता न हो है ।

आगें कोई तौ बड़ा राज्य छोड़ि आशाका नाशकों अवलंबै है, कोई तप छोरि राज्यकों अंगीकार करै है, तिनको फल दिखावता संता 'परां' इत्यादि दोय श्लोक कहै हैं—

परां कोटिं समारूढौ द्वावेव स्तुतिनिन्दयोः ।

यस्त्यजेत्तपसे चक्रं यस्तपो विषयाश्रया ॥१६४॥

अर्थ—स्तुति अर निंदा इनिका सर्वोत्कृष्ट भागकौ ए दोए ही जीव प्राप्त हो हैं । एक तौ जो तपकै अर्थ चक्रकों छांडै, अर एक जो विषयकी आशाकरि तपकों छांडै ।

भावार्थ—इस लोक विषै केई स्तुति योग्य, केई निंदा योग्य जीव हैं, तिन सबनिविषै जो चक्रवर्ति पदकौ छोरि मुनिपद धारै हैं सो तो सर्वोत्कृष्टपनै स्तुति करने योग्य हैं । ऐसी प्राप्त भई चक्रवर्तिपनाकी संपदाकों छोरि वैसा मुनि धर्मरूप दुर्द्धर अनुष्ठान आचरै है । तातैं याका महिमा उत्कृष्टपमे स्तवने योग्य है । बहुरि जो ग्रह्या हुवा मुनि पदकों छोरि विषयवांछातैं राज्य पदकों अंगीकार करै हैं सो सर्वोत्कृष्टपनै निंदा करने योग्य हैं । छोटी हू प्रतिज्ञा भंग कीयें निंदा होय । यानैं तो मुनिपद अंगीकार करि ताका भंग किया है । तातैं याकौ भ्रष्टपनौ उत्कृष्टपनै निंदा योग्य है । इहां कोई कहै कि निंदा तौ करनी योग्य नांही । ताका उत्तरः—ईषातैं द्वेष बुद्धिकरि निंदा करनी योग्य नांहीं है । बहुरि पापाचरनकी प्रगटता करि ताकों बुरा जनावनकै अर्थ निंदा करनेमें दोष नांही । ऐसैं न होय तौ पापी जीवकी निंदा शास्त्रनिविषै काहेकों करिए है ।

हिरणीछंद

त्यजतु तपसे चक्रं चक्री यतस्तपसः फलं

सुखमनुपमं स्वोत्थं नित्यं ततो न तदद्भुतम् ।

इदमिह महच्चित्रं यत्तद्विषं विषयात्मकं

पुनरपि सुधीस्त्वक्तं भोक्तुं जहाति महत्तपः ॥१६५॥

अर्थ—चक्रवर्ती है सो तपकै अर्थ चक्रकों छांडै है तौ छांडो, जातैं तपका फल अनौपम्य आत्मजनित शास्वता सुख हो है । तातैं सो कार्य तौ आश्चर्यकारी नांही है । बहुरि इस लोकविषै यहु बड़ा आश्चर्य है जो सुबुद्धी होय छोड्या हुवा विषयरूप विषकों बहुरि भोगवने अर्थ बड़े तपकों छांडै है ।

भावार्थ—लोकविषैँ घने सुखकै अर्थि किंचित् सुखकौ छांडै ताका बड़ा आश्चर्य नाहीं । सर्वथा दुखदायक जो विष ताकौ छोडि बहुरि ताके खानेकै अर्थि बड़ा पदकौ छांडै ताका बड़ा आश्चर्य होय है । तातैं इहां भी मोक्ष सुखकै अर्थि चक्रवर्तिपदकौ छांडै ताका कहा आश्चर्य है । जो सर्वथा दुखदायक जे विषय तिनकौ छोडि, बहुरि तिनके सेवनेके अर्थि त्रिलोक पूज्य मुनि पदकौ छांडै है सो यहु बड़ा आश्चर्य है । ऐसा अनर्थ कैसे बने है ।

आंगैं तप त्यजनेवालौका बहुरि आश्चर्य करत संता सूत्र कहै हैं—

वसंततिलकाछंद

शय्यातलादपि तुकोऽपि भयं प्रपातात्
तुङ्गात्ततः खलु विलोक्य किलात्मपीडाम् ।
चित्रं त्रिलोकशिखरादपि दूरतुङ्गाद्
धीमान् स्वयं न तपसः पतनाद्विभेति ॥१६६॥

अर्थ—तुक कहीए बालक है सो भी आपकै पीडा होती देखि ऊंचा जो शय्यातल तिसतैं भी पडनेतैं डरै है । अर येहू निश्चय करि बडा आश्चर्य है जो बुद्धिवान पुरुष तीन लोकका शिखर समान अतिशय करि ऊंचा जो तप तिसतैं भी आप पडनेतैं नांही डरै है ।

भावार्थ—बालक विचार रहित है सो भी थोरी सी ऊंची शय्या तिसतैं पडनेतैं भयवान हो है । वाकै भी इतना विचार है जो इहांतैं पड़े मेरै पीडा ज्पजैगी । बहुरि यहु मुनि लिंगका धारी है सो तो विचारवान है । बहुरि यहु तप है सो तीन लोकका शिखर समान ऊंचा है । इहां तीन लोकके जीव तपकौ बडा पूज्य^३ मानै है, तातैं ऊंचा जाननां । सो इसतैं भ्रष्ट होता नाहीं, भय करै है । आप ही भ्रष्ट हो है । इतना न विचारै है—इसतैं भ्रष्ट भए मोकू इस लोकविषैँ हास्यादिक पीडा होइगी, परलोकविषैँ चिरकाल पर्यंत नरक, निगोदादिके दुख भोगवने होहिगे सो यहु बड़ा आश्चर्य है । अहो लोकविषैँ तौ ऊंचा पद पायें पीछे पराधीनपने भी नीचा होतैं इतनी लज्जा हो है तहां अपघातादिक करना विचारै है । यहु ऐसा निर्लज्ज भया है मुनिपद सारिखा ऊंचा पद पाइ आप ही स्वाधीन भ्रष्ट होइ नीचा हो है ।

१. छोड़े, ज० १६५, ८

२. पडनेतैं नहीं डरै है ज० १६६, ६

३. तपकौ पूज्य, मु० १६६, ११

सो ऐसा असंभव कार्य देखि कैसे आश्चर्य न होइ है । इहां आश्चर्य कहनेका यहु भाव है—भ्रष्ट होता मुनि लोक रीतिकों उल्लंघि निन्दाका स्थान भया है ।

आगैं जा तपकरि महा पापका धोवनां होइ तिस तपकों भी नीच पुरुष मलिनताकों प्राप्त करै है ऐसा कहैं हैं—

विशुध्यति दुराचारः सर्वोऽपि तपसा ध्रुवम् ।

करोति मलिनं तच्च किल सर्वाधरःऽपरः ॥१६७॥

अर्थ—तपकरि सर्व ही किया हुआ दुराचार है सो निश्चय शुद्ध हो है, दूरि हो है । बहुरि जैन मततैं बाह्य भया ऐसा सर्वतैं निकृष्ट निन्द्य जीव है सो तिस तपकों मैला करै है ।

भावार्थ—जैसैं जलकरि मल धोइये है । बहुरि जा धोवनेका कारण जल ही में मल मिलवै तो वाकों नीच कहिये । तैसैं तपकरि पाप दूरि हो है । बहुत पापी भी होइ अर तप करै तो पापकों दूरि करै । बहुरि जो पाप दूरि करनेका कारण तप तिस ही विषैं पाप लगावै तो वह सर्वोत्कृष्ट नीच है । इहां यहु भाव है जो पाप ही करता होय सो तो नीच ही है । अर पाप मेटनेका कारण मुनिर्लिग धारै अर तिस विषैं दोष लगावै सो उत्कृष्ट-नीच है । सो अन्यत्र भी ऐसा न्याय है—‘अन्य स्थानविषैं कीया पाप तो धर्म स्थानविषैं दूरि होय । धर्म स्थानविषैं कीया पाप कहां दूरि होय, वज्र-लेप हो है’ तातैं गृहस्थ पदका उपजाया पाप मुनिपदविषैं दूरि होइ अर मुनि पदविषैं कीया पाप कहां दूरि होइ, वज्रलेप हो है । ऐसैं निश्चै करि मुनिर्लिग विषैं दोष लगाना योग्य नांही ।

आगै आश्चर्यके बहुत कारण हैं तिनविषैं तपकों छोड़नेवालाके अति आश्चर्यपणाके कारणकों दिखावता सूत्र कहै हैं—

वसन्ततिलकाच्छंद

सन्त्येव कौतुकशतानि जगत्सु किं तु

विस्मापकं तदलमेतदिह द्वयं नः ।

पीत्वाऽमृतं यदि वमन्ति विस्मृष्टपुण्याः

संप्राप्य संयमनिधिं यदि च त्यजन्ति ॥१६८॥

अर्थ—तीन जगतनिविषैं कौतूहलनिके सैंकडे पाइए ही है । परंतु इनि विषैं हमकों तो ए दोग ही कार्य अत्यर्थपनैं आश्चर्य उपजावनेहारे हैं ।

एक तौ भाग्यहीन पुरुष अमृत पीय करि ताकों वमैं है अर एक जो संयम नियम निधानको पाय करि ताकों छांडे है ।

भावार्थ—जहां असंभव कार्य भासै तहां आश्चर्य मानिए है । सो लोकनिकौ तो अनेक कौतुकरूप कार्य आश्चर्यकों उपजावै हैं । परंतु हमकों तौ इन दोय कार्यनिहीका आश्चर्य है । कोई महाभाग्यतैं जाकरि जरादिक रोग न होइ ऐसा अमृत पान किया । बहुरि वाकों वमै सो एक तौ यहु आश्चर्य है । अर कोई काललब्धितैं, जाकरि जन्म मरणादि दुःखका नाश होई ऐसा संयम निधानका ग्रहण किया, बहुरि वाकों छांडे, सो एक यहु आश्चर्य है । इहां दोय आश्चर्य कहे । तहां पहलै तौ दृष्टांतरूप जानना । जैसे अमृतपानकरि ताका वमन करना तैसे संयम ग्रहणकरि ताका त्यजन करना विपरीत कार्य है । तातैं ऐसा कार्य विवेकी करै नांही ।

आगैं तिस पूर्वोक्त कारणतैं संयम निधानकों नांही छांडते ऐसे विवेकी जीव हैं ते सर्व परिग्रह त्यागकरि रागादिकका निर्मूल नाश करनेके अर्थ यत्न करहु ऐसी सीख देता सूत्रकहै हैं—

मालिनीछंद

इह विनिहतबह्वारम्भबाह्योरुशत्रोः

उपचितनिजशक्तेर्नापरः कोऽप्यपायः ।

अशनशयनयानस्थानदत्तविधानः

कुरु तव परिरक्षामान्तरान् हन्तुकामः ॥१६९॥

अर्थ—इस मुनिलिंगविषै नाशकों प्राप्त कीए हैं बहुत आरंभादि पाप कर्मरूप बाह्य वैरी जानै, अर एकट्टी कीन्ही है अपनी शक्ति जिहि ऐसा जो तू सो तेरे और तौ कोऊ विघ्न करनहारा कष्ट रह्या नांही, परन्तु अंतरंग वैरीनिका नाश करनेका अभिलाषी होय भोजन करना, सोवना, चालना, तिष्ठना इत्यादि क्रियानिविषै सावधान होत संता तू तेरी रक्षाकों करि, यहु हम सीख दई है ।

भावार्थ—राजानिकै शत्रु दोय प्रकार होइ हैं । एक तौ बहिरंग, एक अंतरंग । तहां जे अन्य राजादिक अपने स्थानतैं बाह्य प्रगट बैरी ते तौ बहिरंग शत्रु हैं । बहुरि जे खानपानादिकके साधक किकरादिक अपने

१. संयम निघनकों, मु० १६८, ७३,

पासि मांही रहते छाने बैरी, ते अंतरंग के शत्रु हैं। तहां जो राजा बहिरंग शत्रुनिका नाश करै ताकै राजभ्रष्ट होनेका कारण नांही। परंतु जो खानपानादि क्रियानिविषै सावधान न प्रवर्तै तौ अंतरंग शत्रुनिकरि मरणकौ पावै। तातै अंतरंग शत्रुनितै भी जैसी अपनी रक्षा होइ तैसें खानपानादि क्रियानिविषै सावधान रहना योग्य है। तैसें मुनिनिके शत्रु दोय प्रकार हैं। एक तौ बहिरंग, एक अंतरंग। तहां जे हिंसादिरूप आरंभादिक अपने मुनि लिंगतै बाह्य प्रगट विपरीत भासै ते तौ बहिरंग शत्रु हैं। बहुरि जे खानपानादि क्रियानिविषै रागादिक प्रमादरूप मुनिर्लिंगविषै भी मोही होते छाने विपरीत भाव ते अंतरंग शत्रु हैं। यहां जो मुनि बहिरंग आरंभादिकका त्याग करै ताकै मुनिपदतै भ्रष्ट होनेका कारण रह्या नांही। परंतु जो खानपानादि क्रियानि विषै^१ प्रमादी होइ सावधान न प्रवर्तै तौ अंतरंग रागादि भावनिकरि मुनिपदका नाशकौ पावै। तातै अंतरंग रागादि शत्रुनितै जैसें अपना मुनिपदकी रक्षा होय तैसें खान पानादि क्रियानिविषै सावधान रहना योग्य है। भाव इहां यहु है—बाह्य आरंभादिक ही का त्याग करि निर्दिष्ट न होना। मुनिर्लिंगविषै खानपानादि क्रिया रही है, तहां भी रागादिक न करनां।

आगै मनकौ रोके आत्माकी रक्षा होइ अर रागादिका नाश होइ तिस मनको रोकना ऐसें करनां योग्य है ऐसें कहै हैं—

शिखरणीछंद

अनेकान्तात्मार्थप्रसवफलभारातिविनते

वचःपर्णाकीर्णं विपुलनयशाखाशतयुते ।

समुत्तुंगे सम्यक्प्रततमतिमूले प्रतिदिनं

श्रु तस्कन्धे धीमान् रमयतु मनो मर्कटममुम् ॥१७०॥

अर्थ—बुद्धिमान है सो इस मनरूपी बंदरकूं दिन प्रति सदाकाल शास्त्ररूपी वृक्षविषै रमावो। कैसा है शास्त्ररूपी वृक्ष अनेकान्तस्वरूप^२ जो अर्थ, तैई भये जे फूल फल, तिनके भारकरि नम्रीभूत है। बहुरि वचनरूपी पाननिकरि व्याप्त है। बहुरि विस्तीर्ण नयरूपी शाखा डाहली तिनके सैकडानि संयुक्त है। बहुरि भलै प्रकार ऊँचा है। बहुरि भला विस्तार लीये जो मतिज्ञान सो जाका मूल जड है।

१. क्रियानिविषै अप्रमाद होई ज० १६९, १,

२. कैसा है वा अनेकान्त. ज. १७०.८

भावार्थ—कोऊ कहै मन तौ बंदरसमान चंचल है सो सावधानी राखें भी रागादिरूप परिणमें तौ कहा करिए? ताकौ शिक्षा दीजिए है। जैसे बन्दर ठाला रहै तब तौ कछू विगार करै ही करै। तातैं वाकौ वृक्षविषैं रमा दीजिये तौ अपना विगार न करै, अर वह भी प्रसन्न रहै। तैसें मन निरालंब रहै तब तो रागादिरूप प्रवर्त्तैं ही प्रवर्त्तैं; तातैं वाकौ शास्त्राभ्यास विषैं लगा दीजिये तो रागादिरूप न प्रवर्त्तैं, अर वह मन भी प्रसन्न रहै। इहां बाह्य शास्त्रनिका पठन पाठन करना ताहीका नाम शास्त्राभ्यास न जाननां^१; किन्तु शास्त्रकै अनुसारि स्वरूपध्यानादिकका करनां सो भी शास्त्रम्यास ही है। जातैं शुक्लध्यानविषैं भी वितर्कसहित ध्यान कह्या, बहुरि वितर्क नाम श्रुतका कह्या है। तातैं यावत् केवलज्ञान न होइ तावत् शास्त्रविषैं ही मन लगाये रागादिक हीन हो है। सो यहू शास्त्र मन बन्दरके रमावनेकौ वृक्षसमान कह्या। तहां वृक्षविषैं तो सारभूत फूल फल हो^२ है। ताका भारकरि नम्र है, अर शास्त्रविषैं सारभूत स्याद्वाद-रूप अर्थ पाईए है ताका बाहुलपनां करि ग्राह्य है। बहुरि वृक्षविषैं पान हो है ताकरि सघन शोभै है। शास्त्रविषैं युक्ति लीयें वचन पाईए है ताकरि संकीर्ण शोभै है। बहुरि वृक्षविषैं डहली हो है तिनकै आश्रय पत्र फल फूल पाईए है। शास्त्रविषैं अनेक नय हैं तिनकै आश्रय वचन रचनां वा अर्थ-निरूपण करिये है। बहुरि वृक्ष ऊंचा शोभै है। शास्त्र त्रिलोक्य पूज्य ऊंचा शोभै है। बहुरि वृक्षकै विस्ताररूप जड हो है। सोई कारणभूत है। शास्त्रकै विषैं विस्तारलिऐ बुद्धि अथवा मतिज्ञान पूर्वे कारणभूत हो है। ऐसैं वृक्ष-समान शास्त्रविषैं मन बन्दरकौ रमावो।

आगैं शास्त्ररूपी वृक्षकै मनकौ रमावता हुआ जीव है सो ऐसैं तत्त्वकौ भावै ऐसा कहैं हैं—

तदेव तदतद्रूपं प्राप्नुवन्न विरंस्यति ।

इति विश्वमनाद्यन्तं चिन्तयेद्विश्ववित् सदा ॥१७१॥

अर्थ—समस्त तत्त्वनिका जाननिहारो ज्ञानी है सो अनादिनिधनि समस्त जीवादि तत्त्वनिकौ ऐसा चितवै है जो सोई एक वस्तु तिस विवक्षित स्वरूप-

१. शास्त्राभ्यास जाननां—मु. १७०.२०
२. सारभूत फल हो है. मु. १७०.५
३. नम्र है—शास्त्रविषैं. ज. २७०.२
४. शास्त्रकै विस्तार किए. ज. १७०.७
५. शास्त्र विषैं. मु. १७०.१.५.

कों अर तिसतैं प्रतिपक्षी स्वरूपकों प्राप्त होत संता नांही नाशकों प्राप्त हो है ।

भावार्थ—शास्त्राभ्यास करनेवाला ज्ञानी केवल शब्द अलंकारादिविषैं ही नांही मनकों रमावै है । ऐसैं वस्तु स्वरूपकों चितवै है । एक कोई जीवादिक वस्तु है सो नित्य भी है, अनित्य भी है । सत्तारूप भी है, असत्ता रूप भी है । एक भी है, अनेक भी है इत्यादि तिसरूप है अर तिसरूप नांही भी है । सो ऐसे भावकों प्राप्त होता जीवादिक वस्तु है सो नाशकों प्राप्त न हो है, अपने स्वभावरूप रहै है । ऐसैं ही अनादिनिधन समस्त जीवादिक पदार्थ पाईए हैं । बहुरि ऐसै ही शास्त्रद्वारकरि तत्त्व ज्ञानी जीव चितवै है सो ऐसे चितवनतैं वस्तु स्वरूप भासैं सम्यग्दर्शनादिककों पाइ अपना कल्याण करै है ।

आगैं ऐसा ज्ञान तौ भ्रमरूप होसी ऐसी कोई आशंका करै ताकों निराकरण करता सूत्र कहै हैं—

एकमेकक्षणे सिद्धं ध्रौव्योत्पादव्ययात्मकम् ।

अबाधितान्यतत्प्रत्ययान्यथानुपपत्तितः ॥१७२॥

अर्थ—एक ही वस्तु एक ही कालविषैं ध्रौव्य उत्पाद व्यय इनि तीनू-स्वरूप है । इहां हेतु कहे है—प्रमाणकरि अखंडित^२ ऐसी जु यहु अन्य है, ऐसी प्रतीति अर यहु सोई है ऐसी प्रतीति ताकी अन्यथा असिद्ध है ।

भावार्थ—जो एक ही अपेक्षातैं वस्तुकों तिसरूप भी कहिये अर तिस-रूप नांही भी कहिये तौ भ्रम ही है । बहुरि अन्य अपेक्षातैं कहिए तौ विरोध नांही । जैसे पुरुषकों एक ही पुरुषका पिता भी कहिए, पुत्र भी कहिए तौ भ्रम ही है । अर औरका पिता, औरका पुत्र कहिये तौ विरोध नांही । वस्तु स्वरूपकों साथै है, सो इहां एक ही वस्तु नित्य अनित्य कह्या ताका उदाहरण कहै हैं । कोई एक पुरुष रंक था बहुरि वह राजा भया, तहां अवस्था पलटनेकी अपेक्षा पहले रंक था अब राजा भया ऐसा अन्य-पना भासै है । तातैं यहु अन्य है ऐसा मानीए है । बहुरि मनुष्यपनांकी अपेक्षा पहले भी मनुष्य था, अब भी वही मनुष्य है ऐसा एकपनां भासै है, तातैं यहु सोई है, ऐसा मानीये है । सो ऐसी प्रतीति प्रत्यक्षादि प्रमाणनि-

१. सत्तारूप भी है, एकरूप भी है । ज० १७१, ५

२. अर तिसरूप नांही भी कहिए तौ विरोध नाहीं, ज० १७२, ४

करि बाधित नांही है। ऐसैं ही वस्तुस्वरूप भासै है, तातैं सोई पुरुष एक-कालविषैं उत्पादव्ययध्रौव्यपनाकौ धारै है। जिस समय रंकतैं राजा भया उस ही एक कालविषैं राजापनांका तौ उत्पाद है, रंकपनांका व्यय है, मनुष्यपनां ध्रौव्य है ऐसैं ही कोइ जीव मनुष्यतैं देव भया तहां मनुष्यपना देवपनाकी अपेक्षा यहु अन्य है ऐसी प्रतीति करिये है। जीवपनांकी अपेक्षा यहु सोई है ऐसी प्रतीति करिये है। तातैं मनुष्यतैं देव होनेका समयविद्यैं देवपनांका उत्पाद, मनुष्यपनांका व्यय, जीवपनांका ध्रौव्य ऐसैं एक ही वस्तु एक कालविषैं तीनों भाव धरे पाईए है। याही प्रकार सर्व जीवादिक वस्तु एक समयविषैं स्थूल पर्यायनिकरि वा सूक्ष्म पर्यायनिकरि उत्पादव्यय-ध्रौव्यपनांको धारै है। तातैं एक वस्तुविषैं नित्य अनित्यपना सिद्ध भया। ऐसैं ही स्वद्रव्य क्षेत्र काल भावकी अपेक्षा सत्तापनां परद्रव्य क्षेत्र काल भाव अपेक्षा नास्तित्पनां माननों। एक ही पुरुषको यहु द्रव्य सो पुरुष है, यहु द्रव्य सो पुरुष नांही। सोई पुरुष इस क्षेत्रविषै है, इस क्षेत्रविषै नांही। इस कालविषै है, इस कालविषैं नांही। ऐसा स्वरूपमय है, ऐसा स्वरूपमय नांही। ऐसैं मानिये है। तातैं एक ही वस्तु युगपत् सत्ता असत्तारूप है। बहुरि अंशीकी अपेक्षा एक, अंशनिकी अपेक्षा अनेक माननां। एक ही पुरुषको सर्व शरीर अपेक्षा एक भी कहिए, अर हस्त पादादि अपेक्षा अनेकरूप भी मानिये है। तातैं एक ही वस्तु युगपत् एक अनेकरूप है। ऐसैं ही तिसरूप है अर तिसरूप नाहीं भी है, ऐसा तत्त्व भासै है। सो यथा योग्य शास्त्र द्वारकरि प्रमाणतै अवरुद्ध अपेक्षातैं सम्यग्ज्ञानी जीव तैसैं ही विचारै है।

आगैं कोई तर्क करै जो वस्तुकै ध्रौव्यादि तीन स्वरूपपनां असिद्ध है। जातैं तिस वस्तुकै सर्वथा नित्यादि एक एक स्वरूपपनां हीं पाईए है। ऐसी आशंकाको दूरि करता सूत्र कहै हैं—

वसन्ततिलकाच्छंद

न स्थास्तु न क्षणविनाशि न बोधमात्रं

नाभावमप्रतिहतप्रतिभासरोधात् ।

तत्रं प्रतिक्षणभवत्तदतस्वरूपं

आद्यन्तहीनमखिलं च तथा यथैकम् ॥१७३॥

अर्थ—वस्तु है सो सर्वथा स्थिर नित्य ही नांही, क्षण विनस्वर ही नाहीं, ज्ञानमात्र ही नाहीं, अभावस्वरूप ही नांही। जातैं अखंडित प्रतिभासनेका निरोध है। अवरुद्धपनेकरि ऐसैं भासता नांही। जातैं वस्तु

समय समय प्रति तिसरूप भी है, अर तिसरूप नाही भी है। ऐसा ही अनादिनिधन है। सो जैसे एक पदार्थ ऐसे ही भासे हैं तैसे ही सर्व पदार्थ जानना।

भावार्थ—वस्तुका स्वरूप सर्वथा एकरूप नाही है। नाना अपेक्षातें नानारूप है। सांख्य नैयायिक आदि मतवाले वस्तुको सर्वथा नित्य ही मानें हैं। बौद्धमती क्षण विनश्वर ही मानें हैं। कोई बौद्धमती^१ ज्ञानाद्वैतवादी एक ज्ञानी ही है, बाह्य कोई वस्तु नाही ऐसा मानें हैं। कोई बौद्धमती शून्यवादी सर्व वस्तुका अभाव मानें हैं। इत्यादि एकांतरूप वस्तुको मानें हैं, सो ऐसे है नाही, जातें विचार की ए ऐसे एकांतरविषे विरोध भासे है। एक ही वस्तु-विषे अवस्था पलटे बिना अर्थक्रियाकी सिद्धि होती नाही, तातें सर्वथा नित्य कैसे मानीये। बहुरि अन्य अन्य अवस्था होतें भी कोई भावका नित्यपनाकरि सर्वदा वस्तु एक भासे है। तातें सर्वथा क्षण विनश्वर कैसे मानिये। बहुरि ज्ञान भी भासे है, बाह्य पदार्थ भी भासे है। जो बाह्य पदार्थ न मानीये तौ प्रमाण अप्रमाण ज्ञानका विभाग न होइ, तातें सर्वथा ज्ञानमात्र ही नाही है। बहुरि प्रत्यक्ष पदार्थ भासे हैं तिनका अभाव माने वाँका उपदेश भी शब्दरूप पदार्थ है सो भी अभावरूप ही ठहरचा। प्रत्यक्ष-को झूठ कहे सो बन नाही, तातें सर्वथा अभावरूप नाही है। ऐने एकांतर-रूप तौ वस्तु नाही। तौ कैसा है? तिसरूप भी है, अर तिसरूप नाही भी है। सो ही कहिए है—वस्तु है सो द्रव्य अपेक्षा नित्य है, पर्याय पलटनेकी अपेक्षा क्षण विनश्वर है। ज्ञानविषे भासनेकी अपेक्षा ज्ञानमात्र है। बाह्य वस्तु सत्त्वारूप है, तिनकी अपेक्षा ज्ञानमात्र नाही। बाह्य वस्तु भी है। पर-द्रव्य क्षेत्र काल भावविषे यहु नास्ति है, ताकी अपेक्षा अभाव है। स्वद्रव्य क्षेत्र काल भावविषे अस्ति है, ताकी अपेक्षा अभाव नाही, सद्भाव है, ऐसे ही अनेकान्तरूप अनादिनिधन वस्तुका रूप है। सो एक पदार्थविषे विचारि देखो। जैसे एक जीव चेतनत्वादि भावनिकी अपेक्षा नित्य भी है, अर नर-नारकादि पर्यायनिकी अपेक्षा अनित्य भी है। ज्ञानविषे प्रतिभास्या जीवका आकार सो ज्ञानमात्र भी है। जीव अपना अस्तित्व लिए पदार्थ भी है। पुद्गलादिकका द्रव्य क्षेत्र काल भावविषे जीवका अभाव भी है। जीवका द्रव्य क्षेत्र काल भावविषे जीवका सद्भाव भी है। ऐसे ही अनेकान्तरूप जैसे जीव एक पदार्थ है तैसे ही सर्व पदार्थ अनादिनिधन अनेक अपेक्षाकरि तिसरूप भी है, अर तिसरूप नाही भी हैं। बहुरि जैसा है तैसा ही मानें सम्यग्ज्ञान हो है। तातें तैसे ही मानना योग्य है—

१. बोधमती, ज० १७३, ५

आगँ ऐसा सर्व वस्तुनिका साधारण समान स्वरूप है तौ आत्माका असाधारण स्वरूप कैसा है जो भाया हुआ तिस आत्माकै मुक्तिकँ साधै ऐसँ पूछे कहै हैं—

ज्ञानस्वभावः स्यादात्मा स्वभावावाप्तिरच्युतिः ।

तस्मादच्युतिमाकांक्षन् भावयेज्ज्ञानभावनाम् ॥१७४॥

अर्थ—आत्मा है सो ज्ञान है असाधारण स्वभाव जाका ऐसा है । बहुरि स्वभावकी प्राप्ति सो विनाश रहित है । तातँ अविनाशी अवस्थाकौ चाहता विवेकी है सो ज्ञान भावनाकौ भावै ।

भावार्थ—पूर्व जो नित्य अनित्यादि धर्म कहे ते तौ सर्व वस्तुनिविषँ समानरूप साधारण हैं । बहुरि जो यहु ज्ञान है—जाननां है सो आत्मा ही विषँ पाईए है । सो यहु आत्माका असाधारण स्वभाव है । इस ही लक्षण-करि परद्रव्यनितँ भिन्न आत्माकै अस्तित्वका निश्चय हो है । बहुरि यहु नियम है—वस्तुका अस्तित्व होतँ ताके स्वभावका अभाव न होइ, जातँ लक्षण नाश भए लक्ष्यका अस्तित्व कैसेँ रहै ? बहुरि जैसेँ जो पुरुष अपने धन ही धनी का होइ प्रवर्तँ ताकी एकसी दशा होइ रहै । बहुरि जो परधनका धनी होय प्रवर्तँ ताकी एक दशा रहै नांही । तैसेँ आत्माका स्वभाव ज्ञान समयसार है सो जीव अपने ज्ञान ही का स्वामी होइ प्रवर्तँ । एं पदार्थ जैसेँ परिणमँ तैसेँ परिणमो । मैं इनका जाननिहारा ही हौँ ऐसी भावना राखै ताकौ अविनाशी अवस्था हो है । जातँ जानपणा तौ याका स्वभाव ताका तौ अभाव होय नाहीं । बहुरि जानपणा बिना सारभूत आन भावनिका यहु स्वामी होता नाहीं, याकी अवस्था कैसेँ पलटै । बहुरि जो जीव पर-द्रव्यके स्वभावनिका स्वामी होय प्रवर्तँ, शरीर धन स्त्री पुत्रादि अपने स्वभावरूप परिणामँ, तिनकौ अपनां जानँ, ताकै अविनाशी अवस्था रहै नांही । जातँ शरीरादिक अवस्था एकरूप रहै नांही । यहु तिनकी अवस्था पलटँ आपकी अवस्था पलटी मानँ तहां अविनाशीपना कैसेँ रहै । तैतँ जो विवेकी अविनाशी अवस्थाकौ चाहै सो एक ज्ञान भावनां ही कौ भावै ।

आगँ प्रश्नः—जो पृथक्त्ववितर्क एकत्ववितर्क भेद लिए शुक्लध्यान-स्वरूप जो श्रुत्रज्ञान भावनारूप है स्वभाव जाका ऐसा ज्ञानकौ भाए फल कहा हो है ताका उत्तर कहै है—

ज्ञानमेव फलं ज्ञाने ननु श्लाघ्यमनश्वरम् ।

अहो मोहस्य माहात्म्यमन्यदप्यत्र मृग्यते ॥१७५॥

अर्थ—निश्चयकरि ज्ञानविषे ज्ञान ही फल है सो सर्वथा सराहने योग्य है, अर अविनाशी है। बहुरि जो इहां अन्य किछू फल अवलोकिये है सो बड़ा आश्चर्य है। यहू मोहकी महिमा जाननां।

भाबार्थ—श्रुतज्ञानकरि पदार्थनिकाँ यथार्थ जानिए ताका तत्काल तो सोई पदार्थनिका जानपनां होना ही फल है। अर परंपराकरि ताका फल केवलज्ञान ही है। तहां सर्व पदार्थनिका जानपनां हो है। ऐसैं ज्ञानका फल ज्ञान ही है सो सर्व प्रकार प्रशंसा योग्य है। जातैं यथार्थ ज्ञान भए पदार्थ जैसेके तैसे भासे तहां निराकुलता हो है। निराकुलता सुखका लक्षण है। सुखकाँ सर्व चाहै हैं। बहुरि इस सुखविषे पराधीनता आदि कोई दोष नांही है। बहुरि जो विषय सामग्रीरूप फलकाँ चाहिये है सो यहू मोहकी महिमा है। जैसें खाज रोग भए खुजावनेकी सामग्री भली लागै है। तैसें मोहतेँ काम क्रोधादि भाव आत्माके हौइ, तब याकाँ स्त्री पुत्रादिक सामग्री भली भासे है। उनकाँ चाहै है। बहुरि ज्ञानी जनकाँ ज्ञान बिना आन फलका चाहना आश्चर्य भासे है। जैसें भूत लगे पुरुषकी चेष्टाका आश्चर्य होइ तैसें मोही जीवनकी चेष्टाका ज्ञानीकाँ आश्चर्य है।

आगै श्रुतज्ञानकी भावनाविषे प्रवर्त्ते^१ ऐसे भव्य अर अभव्य तिनके कहा फल होय सो कहै हैं—

ज्ञास्त्राग्नौ मणिवद्भव्यो विशुद्धो भाति निर्वृतः ।

अङ्गारावत् खलो दीप्तो मली व भस्म वा भवेत् ॥१७६॥

अर्थ—शास्त्ररूपी अग्निविषे भव्य है सो तो साचा पुष्परागरत्नवत् मल रहित निष्पन्न होत संता विशुद्ध निर्मल सोहै है। बहुरि दुष्ट अभव्य सो अंगारावत् प्रकाशमान होत संता मल संयुक्त हो है वा भस्मरूप हो है।

भावार्थ—जैसें पद्मराग मणि है सो तो अग्निकरि लगे हुए मलनिका नाश होनेतेँ निष्पन्न ताकाँ पाइ शुद्ध भावरूप होत संता सोभायमान हो है, बहुरि इंधन का अंगारा है सो अग्निकरि प्रकाशमान तो होइ, परन्तु के तौ कोयलारूप मैला होइ, कै राखरूप भस्म होइ। तैसें धर्मात्मा भव्य जीव है सो तौ शास्त्रका अभ्यासकरि लगे हुए अज्ञान रागादिक मलनिका नाश होनेतेँ सिद्ध पदकाँ पाइ शुद्ध स्वभाव रूप होत संता प्रशंसायोग्य है। बहुरि

१. ऐसे भव्य तिनके. ज. १७५.

अधर्मो अभव्य जीव है सो शास्त्रका अभ्यास करि पदार्थनिकों जानता प्रसिद्ध तौ होइ परन्तु रागादि दोषनि करि मैला हो है ।

आगँ ध्यानकी सामग्रीकों दिखावता सूत्र कहै हैं—

मृहुः प्रसार्य सज्ज्ञानं पश्यन् भावान् यथास्थितान् ।

प्रीत्यप्रीती निराकृत्य ध्यायेद्ध्यात्मविन्मुनिः ॥१७७॥

अर्थ—आत्माका अधिकाररूप जो अध्यात्मभाव ताका जाननहारा मुनि है सो बारंबार सम्यग्ज्ञानकों फैलाइ जैसे पदार्थ तिष्ठै हैं सो तैसें तिनिकों अवलोकता संता रागद्वेषनिकों निराकारण करि ध्यावै है ।

भावार्थ—आत्मज्ञानी जीव ध्यान करै है । तहां पहलै तो आगम अनुमानादिकरूप सम्यग्ज्ञानतैं जीवादि पदार्थनिका निश्चय करै । बहुरि यथार्थ श्रद्धान करता संता जैसे रागद्वेष न होइ तैसें वाह्य साधन वा अंतरंग विचारि करि रागद्वेषनिका नाश करै, ऐसी सामग्री भए ध्यानकी सिद्धि हो है । जातैं उपयोगकी निश्चलताका नाम ध्यान है । सो रागद्वेष होतैं पर द्रव्यनिविषैं उपयोग भ्रमै तहां ध्यान कैसें होइ । बहुरि पदार्थनिका निश्चय भये बिनां पर द्रव्य इष्ट अनिष्ट भासै तहां रागद्वेष कैसें दूरि होय । अपना ज्ञान पदार्थनिके जाननेविषैं लगाये बिना पदार्थनिका निश्चय कैसें होइ । तातैं ज्ञानकों विस्तार पदार्थनिका यथार्थ निश्चयकरि रागद्वेषकों भेटि कोई एक पदार्थकों यथार्थ ध्यावता अन्य सर्व चितवनकों रोकि ध्यानावस्था-कों जीव प्राप्त हो है । यहु ध्यान है सो साक्षात् मोक्षमार्ग है । ताकै अर्थ भव्यनिकों ऐसी सामग्री मिलावनी योग्य है ।

आगँ रागद्वेषकों निराकरणकरि काहेतैं ध्यान करै ऐसा प्रश्न कीए उत्तर कहै हैं । जो तिन रागद्वेषनिके संसारको कारण जे कर्म तिनके उपजावनेका कारणपना पाइए है । तातैं तिनकौ नष्टकरि ध्यान करै सोई कहै हैं—

वेष्टनोद्वेष्टने यावत्तावद् भ्रान्तिर्भवाणवे ।

आवृत्तिपरिवृत्तिभ्यां जन्तोर्मन्थानुकारिणः ॥१७७॥

अर्थ—मंथां जो रई ताका अनुसारी तिस सारखा जो यहु प्राणी ताकै यावत् बधनां अर खुलनां पाइए है तावत् संसार समुद्रविषैं गमन अर आगमन तिनकरि भ्रमण हो है—

१. अपना ज्ञान पदार्थनिके कैसें होइ । तातैं० ज० १७७,९

भावार्थ—जैसे माथनी विषे रई हो है, ताके रस्सीका बंधना अर खुलना यावत् पाईए है, तावत् गमनागमन होनेकरि वाके परिभ्रमण हो है। तैसे संसारविषे यहू जीव है ताके नवीन कर्मका बंधना अर पूर्व कर्मका उदय होइ करि निर्जरना यावत् पाईए है, तावत् नरकादि पर्यायनिविषे गमनागमन होने करि याके परिभ्रमण पाईए है। बहुरि पूर्व कर्मका उदै होतें याके रागादिक हो है। अर रागादिक भावनितें नवीन कर्म बंधै है। तातें संसारविषे भ्रमणका कारण रागादिक भाव जानना।

आगै प्राणीके कर्मका खुलना है सो कोई तो भ्रमणका अर नवीन बंधका कारण है, कोई नांही है ऐसा दिखावता सूत्र कहे है—

**मुच्यमानेन पाशेन भ्रान्तिर्बन्धश्च मन्थवत् ।
जन्तोस्तथासौ मोक्तव्यो येनाभ्रान्तिरबन्धनम् ॥१७९॥**

अर्थ—मंथा जो रई तिस सरीखा यहू जीव ताके खुलता जो फांसी-ताकरि भ्रमण अर बंध हो है। सो यहू फांसी तैसे खोलनी जाकरि भ्रमण न होइ अर बंध न होई।

भावार्थ—जैसे मांथनीविषे रई हो है ताके रस्सीकी फांसी हो है। ताका खुलना दोय प्रकार है। एक तौ खुलना ऐसा है जाकरि नवीन बंध तौ होता जाय अर माथनीविषे भ्रमण हो है। और एक खुलना ऐसा हो है जाकरि नवीन बन्ध नांही होइ है अर माथनीविषे भ्रमण भी नांही हो है। फांसीतें छूटना ही हो है। तैसे संसारविषे यहू जीव है ताके कर्मकी फांसी पाइए है, ताका निर्जरा होना दोय प्रकार है। एक तौ निर्जरा ऐसी हो है जाकरि नवीन बन्ध होता जाय है अर संसारविषे भ्रमण हो है। अर एक निर्जरा ऐसी हो है जाकरि नवीन बन्ध नांही हो है अर संसार-विषे भ्रमण भी नांही हो है। कर्म पाशतै मुक्त हो है। सो इहां ऐसा जानना जो पूर्वे बंध्या हुवा कर्म काल पाइ अपना उदय रस, देइ निर्जरै है, तहां सविपाक निर्जरा हो है। सो तौ नवीन कर्म बंधनेका अर संसारविषे भ्रमण का कारण है। बहुरि जो पूर्वे बंध्या हुवा कर्म है सो धर्म साधनमें भी अनुराग होने^२ करि अपना^३ उदय रस दीए बिना ही निर्जरै है। तहां अविपाक निर्जरा हो है^४। सो नवीन कर्म बंधनेका अर संसारविषे

१. यावत् नरनारकादि पर्यायनि, ज० १७८, १

२. अर बंधन होइ मु० १७९, २१

३. उदयरस दीए बिना ही निर्जरा हो है. ज० १७०, ७

भ्रमणका कारण नांही है। तातें कर्म फांसीकी ऐसे अविपाक निर्जरा करनी योग्य है, जाकरि बंध अर भ्रमण न होइ।

आगें जीवकै कैसें बंध हो है, अर कैसें बंध नांही हो है ऐसा सूत्र कह हैं—

आर्या छन्द

रागद्वेषकृताभ्यां जन्तोर्बन्धः प्रवृत्त्यवृत्तिभ्याम् ।

तत्त्वज्ञानकृताभ्यां ताभ्यामेवेक्ष्यते मोक्षः ॥१८०॥

अर्थ—राग द्वेष भावनिकरि कीन्ही ऐसी जे प्रवृत्ति अर अप्रवृत्ति तिनि करि तौ जीवकै बंध हो है। अर तत्त्वज्ञानकरि कीनी जे प्रवृत्ति अप्रवृत्ति तिनि ही करि मोक्ष अवलोकिये है।

भावार्थ—जिसरूप होइ आत्मा प्रवर्त्तै ताकी तौ तहां प्रवृत्ति जाननी। अर जिसरूप होइ आत्मा नांही प्रवर्त्तै ताकी तहां अप्रवृत्ति जाननी। तहां मोहके उदयतें रागद्वेष भाव निपजै तिनकरि कदाचित् अशुभ कार्यानिकी प्रवृत्ति होइ अर शुभ कार्यानिकी अप्रवृत्ति होइ। सो ऐसी प्रवृत्ति अप्रवृत्तिकरि तौ आत्माकै बंध हो है। बहुरि मोहका उदय क्षीण होनेतें तत्त्वज्ञान होइ। ताकरि ज्ञानमात्र शुद्धोपयोगकी प्रवृत्ति होइ, शुभ अशुभ भावनिकी अप्रवृत्ति होइ सो ऐसी प्रवृत्ति अप्रवृत्तिकरि आत्माकै मोक्ष हो है। तातें ऐसा ही साधन करना योग्य है।

आगे पूछे हैं जो बन्ध हो है सो पुण्यरूप अर पापरूप हो है। सो काहेतें निपजै है? बहुरि तिन दोऊनिका अभाव काहेतें हो है? ऐसै आशाका करि उत्तर कहै हैं—

आर्याछंद

द्वेषानुरागबुद्धिर्गुणदोषकृता करोति खलु पापम् ।

तद्विपरीता पुण्यं तदुभयरहिता तयोर्मोक्षम् ॥१८१॥

अर्थ—गुण और दोष तिनविषै कीन्हीं जो द्वेषरूप अर अनुरागरूप बुद्धि सो तौ निश्चयकरि पापकौं करै है, अर तिसतें विपरीत गुणविषै अनुराग, दोषविषै द्वेषरूप बुद्धि सो पुण्यकौं करै है। बहुरि तिन दोऊनितें रहित जो बुद्धि है सो तिन पाप-पुण्यरूप कर्मनिका मोक्षकौं करै है।

भावार्थ—बुद्धि नाम उपयोगका है। सो उपयोग तीन प्रकार है। अशुभोपयोग, शुभोपयोग तथा शुद्धोपयोग। तहां जाकरि आत्माका भला होइ ताका नाम गुण है। जाकरि बुरा होइ ताका नाम दोष है। सो धर्म-

रूप भावनिर्तै आत्माका भला हो है, तातै धर्मकौ सूचता जो भाव सो तो गुण है। अर अधर्मरूप भावनिर्तै आत्माका बुरा हो है। तातै धर्म विरोधी जो भाव सो दोष है। सो जिस जीवकै तीव्र मोहके उदयतै गुणविषै द्वेष होइ अर दोषविषै अनुराग होई। अथवा तिसही अभिप्रायतै जा विषै गुण होइ वा जो गुणका कारण होइ तिसविषै तौ द्वेष होइ, अर जा विषै दोष होइ वा दोषका कारण होइ तिस विषै अनुराग होइ, तिस जीवकै अशुभोपयोग पाईए है। ताकरि पाप कर्मका बंध हो है। बहुरि जिस जीवकै मंद मोहके उदयतै गुणविषै अनुराग होइ, अर दोषविषै द्वेष होइ। अथवा तिस ही अभिप्रायतै जाविषै गुण पाईए है वा जो गुणका कारण होइ तिस विषै तो अनुरागी होइ अर जा विषै दोष होइ वा दोष का कारण होइ तिस विषै द्वेष होइ तिस जीवकै शुभोभयोग पाइए है। ताकरि पुण्य कर्मका बंध हो है। इहां कोऊ कहै—द्वेष बुद्धितै पुण्यका बंध कैसे होइ ? ताका समाधान—जो अपना कषायका प्रयोजन लिये द्वेष करै तहां तौ पापबंध ही है। बहुरि जैसे कोऊ पुरुष मित्रका शत्रुविषै द्वेष करै, तैसें जो धर्मके विरोधीविषै द्वेष करै तहां वाकै अभिप्रायकै विषै धर्मका अनुराग ही है, तातै पुण्यबंध हो है। ताका उदाहरण—सूर सिंह दोऊ लरे, तहां सूर तौ मुनिरक्षाके अभिप्रायतै मरि पांचवै स्वर्गका देव भया। सिंह मुनि मारनेका अभिप्रायतै मरि पांचवै नर्क गया। बहुरि शास्त्रनिविषै पापनिकी वा पापी जीवनिकी निंदा करिये है। तातै कथंचित् द्वेषतै भी पुण्यबंध संभव है। ऐसैं दोऊ उपयोग राग द्वेष सहित प्रवर्तै हैं। तातै इनिकौ अशुद्धोपयोग कहिये हैं। बहुरि जिस जीवकै मोहका अभावतै ऐसै दोऊ प्रकारके राग द्वेष न पाईए तिस जीवकै शुद्धोपयोग हो है। तिसकरि पुण्य कर्म अर पाप कर्मका नाश ही हो है। नवीन बंध नांही हो है। पूर्व बंधकी निर्जरा होइ है। ऐसैं तीन प्रकार उपयोग हैं सोई पुण्य पापका बंध अर तिन दोऊनिका नाश ताका कारण जाननां।

आगैं जो राग द्वेष पूर्वोक्त बंधका कारणपणां है तौ तिनका राग द्वेषनिका उपजना काहेतै हो है ? ऐसैं पूछे सूत्र कहै हैं—

मोहबीजाद्रतिद्वेषौ बीजान्मूलाङ्कुराविव ।

तस्माज्ज्ञानाग्निना दाह्यं तदेतौ निर्दिधिष्णुणा ॥१८२॥

अर्थ—जैसें बीजतै वृक्षकै जड़ अर अंकूरा हो है तैसें मोहमूलकारणतै आत्माकै राग द्वेष हो है। तातै इनि रागद्वेषनिकौ जो जीव दग्ध कीया चाहै है, तीह जीव ज्ञानरूपी अग्निकरि मोह दग्ध करना योग्य है।

भावार्थ—अतत्त्व श्रद्धानरूप मिथ्यात्व भावका नाम तौ मोह है । अर इष्ट अनिष्ट पदार्थनिकों मानि तिनविषै प्रीति अप्रीति करनीं तिनिका नाम राग द्वेष है । सो अतत्त्व श्रद्धान ही तै पदार्थ इष्ट अनिष्ट भासै हैं । तातैं जैसे वृक्षकै जड़ अर अंकुराका मूल कारण बीज है तैसें राग द्वेषका मूल कारण मोह जाननां । बहुरि जैसे कोई जड़ अंकुराकौ दग्ध कीया चाहै सो वाकै बीजकौ दग्ध करै । तैसें जो रागद्वेषका नाश कीया चाहै सो मोहका नाश करै । मोहका नाश भए उनका नाश सहज ही हो है । सम्यग्-दृष्टीकै मोहका नाश भए पीछै कदाचित् रागद्वेष रहे भी है तो, जैसे उपाडे रूखकी जड़ अर अंकुरा केतैक काल हरे रहै, परंतु शीघ्र सूखेंगे, तैसें ते रागद्वेष शीघ्र नाशकौ प्राप्त होहिंगे । बहुरि कोई मिथ्यादृष्टीकै मोहका सद्भाव होतैं रागद्वेष थोरे भी बाह्य प्रकटै तो जैसे बीज होते जड़ अंकुरे थोरे भी बाह्य दीसैं, परंतु शीघ्र बधैंगे तैसें रागद्वेष शीघ्र वृद्धिकौ प्राप्त होहिंगे । तातैं रागद्वेषका मूल कारण मोहकौ जानि तिसहीका नाश करना । सो जैसे बीज जलावनेको कारण अग्नि है, तैसें मोह नाशकौ कारण ज्ञान है । ज्ञानतैं जीवादि तत्त्वनिका स्वरूपकौ यथार्थ जानै तौ अतत्त्व श्रद्धानका नाश हो है । तातैं तत्त्वज्ञानका अभ्यासविषै तत्पर रहनां । इतना किए सर्व सिद्धि स्वयमेव हो है—

आगैं सो इन रागद्वेषनिका बीजभूत मोह सो कैसा है, बहुरि जाके नाशविषै कारण कहा है, सो कहै है—

पुराणो ग्रहदोषोत्थो गम्भीरः सगतिः सरुक् ।

त्यागजात्यादिना मोहव्रणः शुध्यति रोहति ॥१८३॥

अर्थ—मोहरूपी गूमडा फोडा है सो कैसा है ? पुरातन है^१ । गूमड़ा । तौ घणे कालकं भया है । अर मोह अनादिकालतैं भया है । बहुरि कैसा है ? ग्रह दोषतैं निपज्या है । गूमडा तौ मंगलादिक खोटे ग्रह आये निपजै है । मीह है सो पर द्रव्यका ग्रहणरूप परिग्रह^२ ताके दोषतैं निपजै है । बहुरि कैसा है ? गंभीर है । गूमडा तौ औंडा है । मोह है सो जाका थाह न पाइए ऐसा बड़ा है । बहुरि कैसा है ? गति सहित है । गूमडा तौ राधि, रुधरादिकका गमन लिए है, मोह है सो नारकादिक गतिका सद्भाव लिए

१. गूमडा फोडा है सो पुरातन है ज. उ. १८३.७.

२. पर द्रव्य कारणरूप परिग्रह. ज. उ. १८३.८.

है। बहुरि कैसा है? पोडा सहित है। गूमडा तो पीडे है, अर मोह आकुलता निपजावै है। ऐसा मोहरूपी गूमडा है सो त्याग जात्यादिककरि शुद्ध होय है अर रौहकों प्राप्त हो है। गूमडा तो रुधिरादिका छोडना अर जात्यादिक घृतादिक लगावना, इनि उपायनिकरि शुद्ध हो है। अर चामडीरूप रौहकों प्राप्त होय। अर मोह है सो पर द्रव्यनिका छोडना अर निज जातिक ग्रहण करना इनि उपायनिकरि शुद्ध हो है अर सम्यक्त्वरूप रोहकों प्राप्त हो है।

भावार्थ—जैसैं गूमडा अपना शरीर ही विषैं उपजै है, परन्तु आपको दुखदायक है। तैसैं मोह है सो अपने ही अस्तित्व विषैं प्रगट हो है, परन्तु आकुलता उपजावै है, तातैं उपायकरि याका नाश करना ही योग्य है।

आगैं मोहरूपी गूमडाको शुद्ध कीया चाहै तहां जीव नाशकों प्राप्त भये भी कुटुंबनिविषैं शोक न करना ऐसा कहै हैं—

सुहृदः सुखयन्तः स्युर्दुःखयन्तो यदि द्विषः ।

सुहृदोऽपि कथं शोच्या द्विषो दुःखयितुं मृताः ॥१८४॥

अर्थ—जो आपको सुखी करै ते तो मित्र होंहि अर दुःखी करै ते शत्रु होंहि। तो जे मित्र भी थे अर वे दुःखी करनेकों मूए तो वे भी शत्रु भए। ते कैसैं शोक करने योग्य होंहि।

भावार्थ—लोकविषैं जो आपको सुख उपजावै सो तो मित्र कहिए अर दुःख उपजावै सो शत्रु कहिए। बहुरि जो पहलै मित्र भी था अर पीछे जो आपको दुःख दायक होय तौ वाकों भी तहां शत्रु ही मानिये है। बहुरि जाकों शत्रु मानिये ताका शोक भी नांही करिए है। तातैं इहां अपने स्त्री पुत्रादिक है ते तो तेरी मानि विषैं मित्र थे, परन्तु वैह मरणकों प्राप्त भये तब तो तुझकों सुखदायक भए। तातैं वै भी शत्रु ही भए। अब उनका शोक कहा करना! सो प्रत्यक्ष देखो जैसे शत्रुका स्मरणादिक दुःख उपजावै है तैसैं ही मूए पीछे स्त्री पुत्रादिका स्मरणादिक भी दुःख उपजावै है। तातैं शास्त्रन्यायकरि तो स्त्री पुत्रादिक बहु हितकारी नांही। बहुरि मूए पीछे भी उनकों हितकारी मानि शोक करै है सो यह बड़ा मोह है। जो मोह दूर किया चाहै सो स्त्री पुत्रादिकके मरणाकिक होतैं भी शोक नांही करै है।

आगैं स्त्री पुत्रादिक मित्रनिके मरणविषैं उपज्या है दुःख जाकों ऐसा जो तू सो कहा करै है सो कहै है—

अपरमरणे मत्वात्मीयानलङ्घ्यतमे रुदन
 विलपतितरां स्वस्मिन् मृत्यौ तथास्य जडात्मनः ।
 विभयमरणे भूयः साध्यं यशः परजन्म वा
 कथमिति सुधीः शोकं कुर्यान्मृतेऽपि न केनचित् ॥१८५॥

अर्थ—जो जीव अतिशयकरि अलंघ्य काहू प्रकार मेट्या न जाइ ऐसा जो आपतें अन्य स्त्री पुत्रादिकनिका मरण ताकाँ होत संतै तिनिकाँ अपने जानि रोवता संता विलाप करै है, सो जीव आपविषै मरण अवस्था होतें तैसेँ ही अतिशयकरि रोवता विलाप करै है सो ऐसे मूरख आत्माके भय-रहित मरण होतें निपजै ऐसा प्रचुर यश अर उत्कृष्ट परलोक सो कैसेँ होय ? न होय । यातें सुबुद्धि जीव है सो मूए भी कोई प्रकार शोक नांही करै है ।

भावार्थ—जो जीव स्त्री पुत्रादिकका मरण होतें प्रत्यक्ष तापतें तिनिका संबंध छूटै तौ भी मोहकरि तिनिकाँ अपना मानता संता रोवै है, विलाप करै है सो जीव आपका मरण होतें तौ अत्यन्त शोक करै ही करै । एक इष्टका वियोग होतें ही शोक होइ तौ मरण समय तौ सर्वहीका वियोग हो है । तातें जाके पुत्रादिकका वियोग विषै शोक हो है ताके मरणका भय रहित जो समाधिमरण सो न होय । बहुरि समाधिमरणतें इस लोकविषै तो यश हो है अर परलोकविषै उत्कृष्ट पद हो है सो वाके कैसेँ होइ, तातें ज्ञानी मोहकाँ घटाइ पहलै ही स्त्री पुत्रादिककाँ अपना मानता संता काहू-का मरण भये भी शोक न करै वाहीके समाधिमरणकी सिद्धि हो है । ताकरि वाके यहां यशकी अर आगँ स्वर्ग मोक्षादिककी प्राप्ति हो हैं ।

आगँ यहु शोक काहूतें हो है, अर यहु किस कारण है सो कहै हैं—

हानेः शोकस्ततो दुःखं लाभाद्रागस्ततः सुखम् ।

तेन हानावशोकः सन् सुखी स्यात् सर्वदा सुधीः ॥१८६॥

अर्थ—इष्ट सामग्रीकी हानितें शोक निपजै है अर तिस शोकतें दुःख हो है । बहुरि इष्ट सामग्रीकी प्राप्तितें राग निपजै है अर तिस रागतें सुख हो है । तीह कारणकरि, सुबुद्धि जीव है सो हानिविषै शोक रहित होत संता सदा काल सुखी हो है ।

भावार्थ—सर्व जीव सुखकों चाहै है । सुखका घातक दुःख है, दुःख हो है सो शोकतैं हां है । सो कहै है, सो इष्ट सामग्रीका वियोग भएँ हो है । बहुरि जो ज्ञानी ऐसा विचारि करै—जो मोहतैं परवस्तुकूँ इष्ट मानों हों । ए इष्ट है नांही अर ये परवस्तु मेरे कबहु होइ नांही, मेरे राखे रहै नांही, तातैं परका वियोगविषैं शोक कहा ! ऐसैं विचारैं जो हानि होतैं भी शोक न करै ताकै दुःख काहेतैं होइ ? दुःख भये विना सुखका अभाव न होइ । तब वै ज्ञानी सदाकाल सुखी ही रहै है । तातैं सुखी रह्या चाहै सो हानि भये शोक न करै । अर जो कोई हानि न होनेका उपायकरि सुखी भया चाहै है सो संसारविषैं कोई सामग्रीकी हानि होइ ही होइ तातैं तहां शोक न करना । सो ही सुखी होनेका उपाय है ।

आगै कहै हैं जो इहां सुखी होइ सो परलोकविषैं कैसा होइ, सो कहै हैं—

सुखी सुखमिहान्यत्र दुःखी दुःखं समश्नते ।

सुखं सकलसंन्यासो दुःखं तस्य विपर्ययः ॥१८७॥

अर्थ—इस लोकविषैं जो सुखी हैं सो परलोकविषैं भी सुखकों पावै हैं । बहुरि इस लोकविषैं दुखी हैं सो परलोकविषैं भी दुःखकों पावै हैं । तहां सर्व प्रकार वस्तुका त्याग सो तो सुख है, बहुरि ताका उल्टा परवस्तुका ग्रहण सो दुःख है ।

भावार्थ—कोई जीव ऐसा भ्रम करै कि वर्तमान सुख छोडि कष्ट दुःख सहिये तौ परलोकविषैं सुख होइ । सो परलोक तौ परोक्ष है, न जानिये तहां कहा होगा ? अब इहां सुख छोडि कष्ट दुःख सहिये सो तो उचित नांही । ताकों समझाइये है जो इहां दुखी होइ सो परलोकविषैं सुख पावै ऐसा तूं भ्रम मति करै । जो इहां सुखी होइ सोही परलोकविषैं भी सुखी हो है । अर इहां दुःखी होइ सोइ परलोकविषैं भी दुखी हो है । इहां प्रश्नः—जो शास्त्रनिविषैं तौ यह प्रसिद्ध है जो विषय सुख सेवै सो दुखकों पावै । अर तपश्चरणादिक कष्टको सहै सो सुखकों पावै, तुम कैसेँ कहौ हौ ? ताका उत्तरः—तूं तौ बाह्य सामग्रीतैं सुख दुःख मानै, है, सौ तेरै भ्रम है । बहुरि हम कहै हैं जो अपने परिणाम आकुलता रहित होइ सो तो सुख है, अर आकुलता सहित होइ सो दुख है । बहुरि आकुलता हो है सो मोहतैं पर द्रव्यका ग्रहण कीए हो है, जातैं यह पर द्रव्यकों ग्रहै, वै अपना होइ नांही । अपने अधीन परिणमें नांही, तहां आकुलता उपजै, तातैं पर द्रव्यका त्यागकरि निराकुल होना सोई सुख है । सो ऐसी दशा भए वर्तमान भी सुखी हो

है। अर आगामी भी याका फल परम सुख है। बहुरि परद्रव्यका ग्रहणकरि आकुलता करनी सो दुःख है। सो ऐसी दशा भए वर्तमान भी दुखी हो है। अर आगामी भी याका फल दुःख ही है। बहुरि शास्त्रविषै भी विषय सेवनका फल दुःख ही कह्या है। सो जहां तृष्णाकरि आकुलता लीए विषय सेवै है ताहीका फल दुख ही होहै। अर विषय सुख तौ भोगभूमिया-कै वा इंद्रादिककै घने पाईए है। परन्तु तहां तृष्णा थोरी है तातैं ते कुगति-कौं नांही प्राप्त हो है। अर रंकादिकाकौं विषय सुख नांही मिलै है। परंतु तृष्णाकरि आकुलित होइ नरकादिककौं पावै है। बहुरि जो तपश्चरणादिक कष्टका फल सुख कह्या है सो बाह्य तौ तपश्चरणादिक करै, अर अंतरंग-विषै संक्लेशरूप दुःख नांही हो है। ताके तपका फल सुख कह्या है। बहुरि तपश्चरण करता दुःखी हो है। ताकै आर्त्तध्यान होनेकरि ताका फल दुःख ही हो है। तातैं जे जीव मोह घटनेतैं वर्तमान सुखी हो है सो ही आगामी भी सुखकौ पावै है। अर मोह बंधनैतैं वर्तमान दुखी हो है, तातैं सो ही आगामी भी दुःख पावै है। शास्त्रविषै भी दुःख शोकादिकतैं असाताका बंध कह्या है। असाताका उदै आए दुखी ही हो है, तातैं दुःखका फल सुख है। ऐसा भ्रमकरि परलोकके सुखका उपायतैं परान्मुख मति होहु। बहुरि जो इहां विषय सुख छोडीये है सो निभ्री मिलै गुड़ का स्वाद बुरा लागै तैसें शांत रस पाए विषय सुख नीरस भासैं तातैं विषय सुख न भोगवै है, किछू निकै छोडनेविषै दुःखी न हो है। तातैं विषय सुख छोडनेका भय मति करै। साचा धर्म साधनतैं वर्तमान भी सुख हो है, आगामी भी सुख हो है। सो ऐसा ही कार्य करना योग्य है।

आगै पूछै हैं कि पुत्रादिकका मरणतैं तौ शोक होइ अर तिनकी उत्पत्तितैं हर्ष होइ सो यहु उत्पत्ति कहा है, ऐसैं पूछे उत्तर कहै हैं—

मृत्योर्मृत्वन्तरप्राप्तिरुत्पत्तिरिह देहिनाम् ।

तत्र प्रमुदितान्मन्ये पाश्चात्ये पक्षपातिनः ॥१८८॥

अर्थ—इस संसारविषै देहधारी जीवनके एक मरणतैं अन्य मरणकी प्राप्ति ताका नाम उत्पत्ति है। तातैं जे तिस उत्पत्तिविषै हर्षवंत ही है तिनकौं मैं पीछै भया मरणविषै पक्षपाती मानौं हौं।

भावार्थ—पुत्रादिकका जन्म भए हर्ष करिये हैं अर तिनकैं मूए पीछै शोक करिये है सो वै जन्म है सो नवीन मरण ही है, जातैं आयुके नाशका नाम मरण है, सो समय समय आयु घटै है तातैं याकै सदा काल मरण पाईए है। तहां पूर्व पर्यायसंबंधी मरण छोड़ि तवीन पर्यायसम्बन्धी मरणका प्रारंभ तिसहीका नाम जन्म है। ऐसै जन्मविषै जो हर्ष मानै है ते नवीन

मरणके पक्षपाती अनुरागी हैं। बहुरि जे मरणके अनुरागी तिनकै परस्पर हितसंबंध कैसेँ मानिये। ऐसेँ युक्तिकरि पुत्रादिकका जन्म-मरणविषेँ हर्ष-विषाद करना छुडाया है।

आगे अब सर्व संगका त्यागी मरण-जन्मविषेँ जाके समान बुद्धि पाईए, ऐसा मुनि सर्व शास्त्रका ज्ञाता, दुर्द्धर तपका करनहारा ताकोँ शिक्षा देता सूत्र कहै हैं।

पृथ्वीछंद

अधीत्य सकलं श्रुतं चिरमुपास्य घोरं तपो

यदीच्छसि फलं तयोरिह हि लाभपूजादिकम् ।

छिनत्सि सुतषस्तरोः प्रसवमेव शून्याशयः

कथं समुपलप्स्यसे सुरसमस्य पक्वं फलम् ॥१८९॥

अर्थ—सर्व शास्त्रकू पढ़करि अर चिरकालपर्यंत घोर तपकू सेयकरि तू तिनका फल इस लोक ही विषेँ लाभ बडाई आदि फलकोँ चाहै है तो तू सूना विवेक रहित है चित्त जाका ऐसा होता संता भला तपरूपी वृक्षका फूल हींको छेदै है। इस तपका जो भला रसकू लीये याका फल स्वर्ग मोक्षादिक ताकू तू कैसेँ पावैगा ?

भावार्थ—जैसेँ कोई वृक्ष उगावै तहां पहलै फूल होइ, पीछै फल लागै। बहुरि जो फूल ही कं छेदि आप अंगीकार करै तो वाका मीठा पाका फलकी प्राप्ति न होइ। तैसेँ जो जीव शास्त्राभ्यास बहुत करै अर उत्कृष्ट तपश्चरण करै, तहां पहलै लाभ पूजादिक निपजै, भक्त पुरुष मनोरथ साधै वा स्वयमेव ऋद्धि चमत्कारादिक उपजै ऐसेँ तो लाभ होइ। अर महंतता विशेष होइ ऐसा पूज्य होय इत्यादि कार्य निपजै पीछै स्वर्ग मोक्षका फलकी प्राप्ति होइ, बहुरि जो जीव लाभ पूजादिककोँ आप चाहै, आप अंगीकार करै, लोभी होइ भक्त पुरुषनितैँ किछू लीया चाहै वा उनकोँ दीया धनादिककोँ अंगीकार करै वा ऋद्धि चमत्कारादिककोँ चाहै, तिनकोँ भये संतुष्ट होय। बहुरि मानी होयकरि आप महंतपणों बडापणों चाहै वा महंतता बडाई भए मदवान होइ, सो जीव परम सुखरूप रसकोँ लीये प्रगटै, ऐसा स्वर्ग मोक्षरूप फल ताकोँ न पावै। तातैँ यहू सीख है शास्त्राभ्यास वा तपश्चरणका साधनकरि लाभ पूजादिकका अर्थी न होना।

पृथ्वीछंद

तथा श्रुतमधीष्व शश्वदिह लोकपंक्तिं बिना

शरीरमपि शोषय प्रथितकायसंक्लेशनैः ।

**कषायविषयद्विषो विजयसे यथा दुर्जयान्
शमं हि फलमामनन्ति मुनयस्तपःशास्त्रयोः ॥१९०॥**

अर्थ—हे भव्य ! तू लोककी पांति बिना इहां तैसैं निरंतर शास्त्रकों पढ़ि अर विस्तार लीए कायक्लेश तिनिकरि शरीरकों भी सोखि जैसैं दुर्जय कषाय-विषयरूपी बैरीनिकौं तूं जीतैं । जातैं महामुनि हैं तैं तप अर शास्त्रका फल उपशम भावहीकौं कहै हैं ।

भावार्थ—केवल शास्त्रका पढनां अर तपका करना ही कार्यकारी है नांही । कार्ययारी तौ उपशम भाव है । तहां जो जीव शास्त्र पढ़िकरि तत्त्व ज्ञानतैं कषायनिकौं घटावै है वा तपश्चरणकरि इष्ट अनिष्ट सामग्री मिले राग द्वेष न होनेकी साधना करनेतैं कषायनिकौं घटावै है तिसका तौ शास्त्र पढनां अर तप करनां सफल है । बहुरि जो जीव शास्त्र पढ़िकरि वा तपश्चरणकरि विषय कषायनिके कार्यनिकौं साथै मन रमावनेके अर्थ वा मान बड़ाईके अर्थ वा भोजन-धनादिकके अर्थ शास्त्र पढ़ै है, तप करै है, सो जीव तौ लोककी पांतिविषैं बैठ्या है । जैसैं अन्य लोक विषय-कषायनिकै अर्थी व्यापार सेवादिक कार्य करै हैं तैसैं इसनैं यहु उपाय कीया है । इहां तर्कः—जो व्यापारादिकविषैं तो हिंसाहिक हो है, इस उपायविषैं कोई हिंसादिक है नांही, तातैं व्यापारादिकतैं तौ यहु उपाय भला है । ताका उत्तरः—व्यापारादिकविषैं तौ बाह्य पाप विशेष दीखै है । अर इस उपाय विषैं अंतरंग पाप बहुत हो है ।

आगैं कोऊ पूछै है कि शृंगार सहित लोकनिकू अवलोककरि विषयनि-की अभिलाषा जीवनिकै उपजै है, सो कैसैं विषय-कषाय जीते जांहि ? तब वे गुरु उत्तर कहै हैं—

वसंततिलकाच्छंद

दृष्ट्वा जनं व्रजसि किं विषयाभिलाषं

स्वल्पोऽप्यसौ तव महज्जनयत्यनर्थम् ।

स्नेहाद्युपक्रमजुषो हि यथातुरस्य

दोषो निषिद्धचरणं न तथेतरस्य ॥१९१॥

अर्थ —हे भव्य ! तूं लोकनिकौं शृंगार सहित देखकरि कहा विषया-भिलाषकू प्राप्त होय है ? यह अल्प हू विषयाभिलाष तोकौं महा अनर्थ उपजावै है । जैसैं रोगीकू दधि-दुग्ध-घृतादिकका किंचित् हू सेवन अयोग्य आचरण है सो दोषकू उपजावै है तैसा औरकू नांही ।

भावार्थ—अज्ञानी जीव लोकनिकं शृंगारादि सहित देखिकरि विषयनि-
की वांछा करै है सो तू कदाचित् मति करै । यह अल्प हू अभिलाष तोहि
महादुःखका कारण है । जैसे कोऊ रोगी सचिक्कण वस्तुका किंचित् हू
सेवन करै ताकै रोगकी अतिवृद्धि होइ । सो रोगीनिकं सचिक्कण वस्तुका
सेवन उचित नांही । तैसे विवेकीनिकं विषयाभिलाष उचित नांही ।

आगै कहै हैं जीव मात्र है तिनिकै दुख-दायक वस्तुनिसू अरुचि होय
है सो ए विषय तेरै भव-भवके दुखदाई तिनिविषै तोहि अभिलाष करनां
कैसे योग्य है—

हिरणीछंद

अहितविहितप्रीतिः प्रीतं कलत्रमपि स्वयं
सकृदपकृतं श्रुत्वा सद्यो जहाति जनोऽप्ययम् ।
स्वहितनिरतः साक्षादोषं समीक्ष्य भवे भवे
विषयविषवद्ग्रासाभ्यासं कथं कुरुते बुधः ॥१९२॥

अर्थ—जैसे कोऊ मनुष्य अपनी प्यारी स्त्री जासूं अधिक प्रीति रची
है, अर वाकौ दुराचार सुनै तौ सुनकरि तत्काल आप ही वाहि तजै तैसें
आत्मकल्याणविषै सावधान जो विवेकी, विष सहित भोजन ता समान जो
ए विषय, तिनिका भव-भवविषै दोष देखिकरि कैसें इनिका सेवन करै ?
सर्वथा न करै ।

भावार्थ—काहूकै स्त्रीसूं अधिक प्रीति होइ अर वह वाकूं दुरा-
चारनी सुनै तौ तत्काल तजै । तैसें पंडित विवेकी आत्मार्थी भव-भवविषै
विषयनिके दोष देखिकरि कैसें विषयानुरागी होय ? सर्वथा न होय ।
विषका भरद्या जो भोजन मिष्ट तौ लागै, परन्तु प्राण हरै, त्याँ ए विषय
रमणीक भासै हैं, परन्तु अनंत भव प्राण हरै हैं ।

आगै कहै हैं कि जा समय तू विषयनिका अभ्यास करै है ता समय
कैसा है अर जब इतितै रहित हो है तब कैसा हो है—

शार्दूलविक्रीडितछंद

आत्मन्यात्मविलोपनात्मचरितैरासीदुर्गात्मा चिरं
स्वात्मा स्याः सकलात्मनीनचरितैगात्मीकृतैरात्मनः ।
आत्मेत्यां परमात्मतां प्रतिपतन् प्रत्यात्मविद्यात्मकः
स्वात्मोत्थात्मसुखो निषीदसि लसन्नध्यात्ममध्यात्मना ॥१९३॥

अर्थ—हे आत्मन् ! आत्मज्ञानके लोपनहारे जे विषय कषायादिक तिनकी प्रवृत्तिकरि चिरकाल दुराचारी भया । अर जब तूं आत्माके सम्पूर्ण कल्याणके कारण ज्ञान-वैराग्यादिक अपने निजभाव तिनिकूं अंगीकार करै तब तिनके 'अंगीकार करिवे करि श्रेष्ठ आत्मा है । आत्मा ही पावै जाकौं ऐसी जो परमात्मदशा, ताहि होत संता केवलाज्ञानस्वरूप भया थका आपकरि उपज्या जो आत्मसुख ताविषैं शोभायमान हुवा थका, अपने शुद्धात्मभावकरि अपने अध्यात्मस्वरूपविषैं तिष्ठैगा ।

भावार्थ—जब लग तेरै बहिरात्मदशा है तब लग विषय-कषायनिके सेवनकरि दुराचारी है । अर जब सकल कल्याणरूप ज्ञान-वैराग्यादिकका आचरण करै तब अंतरात्मा होयकरि परमात्मपद पावै । तहां केवलज्ञान-रूप भया संता अनंत सुखविषैं निश्चल तिष्ठै है ।

आगैं कहै हैं कि या जीवकूं सदाकाल दुखका कारण शरीर है ताके अभावके निमित्त शास्त्रोक्त विधिकरि यत्न करनां योग्य है—

पृथ्वीछंद

अनेन सुचिरं पुरा त्वमिह दासवद्वाहित—

स्ततोऽनशनसामिभक्तरसवर्जनादिक्रमैः ।

क्रमेण विलयावधि स्थिरतपोविशेषैरिदं

कदर्थय शरीरकं रिपुमिवाद्य हस्तागतम् ॥१९४॥

अर्थ—या जगतविषैं या शरीरनै तोकूं आगैं अनंत काल दासकी नाई भ्रमायो, तातैं अब तूं उपवास अर अल्प आहार तथा रसपरित्यागादि विधिरूप तपके विशेषकरि निरन्तर अनुक्रमतैं मरणपर्यंत याहि क्षीण करि जैसैं कोऊ हाथि आये शत्रुकूं क्षीण पारै ।

भावार्थ—आगैं या शरीरनै तोकूं अनंत काल दासवत् भव-भवविषैं अटकाया । अर तै याके संबंधतैं अनेक दुःख पाये । तातैं अब तूं जैसे कोऊ हाथि आये वैरीकूं क्षीण पारै तैसैं तूं नानाप्रकार तपकरि या शरीरकूं क्षीण पारि ।

आगैं कहै हैं कि या संसारविषैं जो कछू अनर्थकी परम्पराय है ताका मूल कारण यह शरीर है, तातैं शास्त्रोक्त तप करि याहि क्षीण पारि ।

वसन्ततिलकाच्छंद

आदौ तनोर्जननमत्र हतेन्द्रियाणि
 काङ्क्षन्ति तानि विषयान् विषयाश्च मानं ।
 हानिप्रयासभयपापकुयोनिदाः स्युः
 मूलं ततस्तनुरनर्थपरम्पराणाम् ॥१९५॥

अर्थ—प्रथम ही शरीरकी उत्पत्ति हो है। ता शरीरविषै ए दुष्ट इंद्रिय विषयनिकू वाँछै हैं। अर ते विषय महंतताकी हानि करै हैं। अर महाक्लेशके कारण हैं। बहुरि भयके देनहारे अर पापके उपजावनहारे, नर्क निगोदादि कुयोनिके दायकी हैं। तातै यह शरीर ही अनर्थाकी परंपरायका मूल कारण है।

भावार्थ—संसारदशाविषै यह जीव पूर्व शरीरकू तजि नवीन शरीरकू धारै है, सो शरीरविषै ए दुष्ट इंद्रिय अपने-अपने विषयनिकू बाँछै हैं। अर ते विषय अपमानके कारण क्लेशके कर्ता, भयकारी, पापके उपजावनहारे, कुगतिके देनहारे हैं। तातै यह शरीर ही अनर्थाकी परम्परयका मूल कारण जानना।

आगँ कहै हैं कि ऐसे शरीरकू पोषिकरि अज्ञानी जीव कहा करै सोई कहै हैं—

शरीरमपि पुष्णन्ति सेवन्ते विषयानपि ।
 नास्त्यहो दुष्करं नृणां विषाद्वाञ्छन्ति जीवितुम् ॥१९६॥

अर्थ—अहो लोको ! मूर्ख जीव कहा कहा न करै। शरीरकू तो पौषै, अर विषयनिकू सेवै। मूर्खनिकू कछू विवेक नांही, विषयतै जीया चाहै। अविवेकीनिकू पापका भय नांही, अर विचार नांही, बिनां विचारे न करने योग्य होय सो करै।

भावार्थ—जे पंडित विवेकी हैं ते शरीरसू अधिक प्रेम न करै। नाना प्रकारकी सामग्री करि याहि न पोषै। अर विषयनिकू न सेवै, अकार्यतै डरै। अर जे मूढ जन हैं ते शरीरकू अधिक पोषै, अर विषयनिकू सेवै, न करिवे योग्य कार्यकी संका न करै। जे विषयनिकू सेवै हैं ते विष खाय जीया चाहै हैं।

आगें कहै हैं शरीरकू तपादिककरि पीरा उपजावते हू मुनि कलि-
कालके दोषतैं पर्वतकी गुफादिक कायक्लेशके स्थानक तिनकू तजिकरि
ग्रामकै समीप आय बसै हैं ऐसा दिखावै हैं—

इतस्ततश्च त्रस्यन्तो विभावयार्थं यथा मृगाः ।

वनाद्विशन्त्युपग्रामं कलौ कष्टं तपस्विनः ॥१९७॥

अर्थ—जैसैं मृग दिनकू वनमैं जहां भ्रमणकरि सिंहादिकके भयतैं रात्रि-
विषैं वनसैं ग्रामके समीप आय रहै हैं तैसैं कलिकाल विषैं मुनि हू दिन विषैं
वन निवास करि ग्रामकै समीप आवै रात्रिकू सो हाय ! हाय ! यह बड़ा
कष्ट है। मुनि महा निर्भय, तैं मृगनिकी नाई ग्रामके समीप कैसे आइ बसैं ?

भावार्थ—मृगनिकी यह रीति है—दिनकू वनविषैं विचरै हैं अर
रात्रिकू ग्रामकै निकटि आइ बसैं। तैसैं दुःखम कालविषैं मुनि हू रात्रिविषैं
ग्रामकै समीप निवास करै यह बड़ा दोष है। मुनिनिकू गिरि-शिखर गुफा
विषम बन नदीनिके तट इत्यादि निर्जन स्थानक ही विषैं रहना योग्य है।

आगें कहै हैं कि तपहूकू ग्रहकरि जे इन्द्रिनिके वशीभूत होय हैं तिनतैं
गृहस्थ अवस्था ही श्रेष्ठ है—

वरं गार्हस्थ्यमेवाद्य तपसो भाविजन्मनः ।

श्वः स्त्रीकटाक्षलुण्टाकलोप्यवैराग्यसंपदः ॥१९८॥

अर्थ—या जगतविषैं स्त्रीनिके जो कटाक्ष तेई भये लुटेरे, तिनकरि
वैराग्य संपदा लुटाय दीन भयो अर होनहार है संसार भ्रमण जातैं, ऐसैं
तपतैं गृहस्थपना ही श्रेष्ठ है।

भावार्थ—गृहस्थ अवस्थाविषैं तौ निज स्त्रीका तो सेवन है ही। अर
जे तपकू धारिकरि नगरके स्त्रीनिकी नेत्रनिके जो कटाक्ष, तेई भए लुटेरे,
तिनकरि लूटि गई है वैराग्य संपदा जिनकी ऐसे तपतैं गृहस्थ अवस्था ही
श्रेष्ठ जाननी। यह तप संसार ही का कारण है।

आगें कहैं हैं—या शरीरके योगतैं तू स्त्रीका अनुरागी होय दुखी
भयो सो शरीर तेरी लार एक पैड न जाय, तातैं शरीरादिकसू स्नेह तजि—

मंदाक्रांत छंद

स्वार्थभ्रंशं त्वमविगणयंस्त्यक्तलज्जाभिमानः

संप्राप्तोऽस्मिन् परिभवशतैर्दुःखमेतत् कलत्रम् ।

नान्वेति त्वां पदमपि पदाद्विप्रलब्धोऽसि भूयः

सख्यं साधो यदि हि मतिमान् मा ग्रहीर्विग्रहेण ॥१९९॥

अर्थ—है भव्य जीव ! तू या शरीरके होतै संतै अपना अर्थ जो शुद्धो-पयोगरूप आत्मकल्याण, अथवा पंच महाव्रत यतिका धर्म तथा अणुव्रत-रूप श्रावकका धर्म ताके नाशकू न गिणता संता अपमानकै सँकरानि करि स्त्री संयोगकू प्राप्त भया सो इह स्त्रीका संबंध ही महादुःखका मूल है। कैसा है तू, तज्या है लज्जा अर अभिमान जानै। इहां अभिमान शब्दका अर्थ गर्व न लेना, जाची वृत्ति लेनी। सो तू स्त्रीके संगतै निर्लज्ज अर जाचक भया जा समान दीनता नांही। सो तै तौ शरीरकै अर्थ अपना अर्थ खोया, अर यह तौ तेरे संगि एक पैड न जाय। सो तू ऐसा कहा ठिगाया है जो बाम्बार याहीसू प्रीति करै है। अब तोहि कहै हैं जो बुद्धिवान है तौ शरीरसू प्रीति मति करै।

भावार्थ—तू तौ शरीरका नाना प्रकार पोषण करै है, अर याकै संगतै स्त्रीका अनुरागी होय निर्लज्ज अर दीन भया है। अर शरीर तौ तेरे साथि एक पैड न जाय। तातै हे भव्य ! तू या देहतै नेह तजि अर देहके प्रसंगी हैं पुत्र कलत्रादि, तिनतै प्रीति तजि।

आगै कहै हैं जे मूर्तीक पदार्थ हैं तिनिहूमै परस्पर मिलाप होतै भी भेद न मिटै है। काहूका लक्षण काहूसू न मिलै। तौ मूर्तीक अर अमूर्तीक कैसै एक होंहिगे। यह तेरे प्रतीति न आवै सो बड़ी भूलि है—

शिखरणीछंद

न कोऽप्यन्योऽन्येन व्रजति समवायं गुणवता

गुणी केनापि त्वं समुपगतवान् रूपिभिरमा ।

न ते रूपं ते यानुपव्रजसि तेषां गतमतिः

ततश्छेद्यो भेद्यो भवसि बहुदुःखे भववने ॥२००॥

अर्थ—कोई ही गुणी कहीये द्रव्य सो काहू ही द्रव्यसौ एकताके भावकू न प्राप्त होय यह प्रत्यक्ष है। अर तू कर्मके योगकरि रूपी पदार्थनिसू ममत्व भावकू प्राप्त भया जिन शरीरादि पदार्थनिकरि तू आशक्त होइ एकता जानि प्रवर्त्या है ते पुद्गल तेरे रूप नांहीं ! तू तो निर्बुद्धी हुवा वृथा ही एकता मानै है। या अभेद बुद्धिकरि तिनिसू आशक्त भया भव-वनविषै बहुत दुखी होयगा, छेद्या जायगा, भेद्या जायगा, भव भव दुःख भोगवैगा, तातै देहादिकसू नेह तजि।

भावार्थ—रूपी पदार्थ जे परमाधू तैऊ सब भिन्न हैं। यद्यपि मिलिकरि बंधरूप होय हैं। तथापि न्यारे-न्यारे हैं। तो तू अमूर्तीक पदार्थ तोसौ ए कैसै मिलै अर तू इनसौ कैसै मिलै। तातै इनसौ राग तज।

आगैं कहै हैं पूर्वे जाका वर्णन कीया सो शरीर ऐसा है तौ ताविषैं ममता बुद्धिकरि आसा क्यों धरनी—

माता जातिः पिता मृत्युराधिव्याधी सहोद्गतौ ।

प्रान्ते जन्तोर्जरा मित्रं तथाप्याज्ञा शरीरके ॥२०१॥

अर्थ—कैसा है शरीर ? उत्पत्ति तौ जाकी माता है, अर मरण जाका पिता है । अर आधि कहिये मनका सोच, व्याधि कहिए वायु पित्त कफ आदि रोग, ए ही जाके भाई, अर अंतविषैं जरा मित्र है । शरीर तौ ऐसा है तथापि शरीरविषैं तेरी आशा है, बड़ा अचिरज है ।

भावार्थ—शरीर तौ जन्म-मरण, आधि, व्याधि, जरारूप है । अर तूं तौ अजर अमर अनादि निधन अखंड अव्याबाध है । तेरा अर याका कौन संबंध ।

आगैं कहै हैं तूं तौ शुद्ध-बुद्धस्वरूप है, परंतु शरीरकरि अशुद्धताकूं प्राप्त भया है—

वसंततिलकाछंद

शुद्धोऽप्यशेषविषयावगमोऽप्यमूर्तोऽ

प्यात्मन् त्वमप्यतितरामशुचीकृतोऽसि ।

मूर्तं सदाऽशुचि विचेतनमन्यदत्र

किं वा न दूषयति धिग्धिगिदं शरीरम् ॥२०२॥

अर्थ—हे चिदानंद ! तूं तो शुद्ध कहिए निर्मल है । अर समस्त निज-परका ज्ञाता है । अमूर्तिक है तौऊ या जड़नें तोहि अशुचि कीया । यह मूर्तिक सदा अशुचि अचेतन संसारविषैं जे केशर कर्पूरादि सुगंध वस्तु हैं तिनहूंकूं दुर्गंध करै है । तातैं धिक्कार धिक्कार या शरीरकूं ।

भावार्थ—जे केशर कर्पूरादि सुगंध द्रव्य हैं तेऊ शरीरके संबंधतैं दुर्गंध होय जाय हैं । याकैं संबंधतैं तूं महा दुखी भया, चार गतिके दुःख भोगये, अशुचि अपावन देहका धारण करि तूं अशुचि कहाया । तातैं यासूं प्रेम तजि । धिक्कार या शरीरकूं जाके प्रसंग करि तूं संसार वनविषैं भ्रम्या ।

आगैं कहै हैं या शरीरविषैं तूं अनुराग बुद्धिकरि नष्ट भया निदि शरीरकं अनिद्य जान्या—

हा हतोऽसि तरां जन्तो येनास्मिस्तव सांप्रतम् ।

ज्ञानं कायाशुचिज्ञानं तच्यागः किल साहसम् ॥२०३॥

अर्थ—हाय ! हाय ! हे प्राणी ! तू अत्यंत ठिगाया, नष्ट भया, शरीरके ममत्व करि अति दुखी भया । कायाका अशुचि जानना यही ज्ञान है अर शरीरकूं पवित्र जाननां यही अज्ञान है । शरीरका ममत्व छोड़ना, निरादर करि तजना यही बड़ा साहस है ।

भावार्थ—अनादि कालतैं अपना स्वरूपकूं तैं न जान्या, परकों आपा मानि नष्ट भया । शरीर अशुचि तूं महा पवित्र । तेरा अर याका कहा संबंध ? तातैं देहसूं नेह तजि निर्ममत्व होहु, ज्यों बहुरि शरीरका धारण न करै ।

आगै कहै हैं कि यद्यपि साधुकै शरीरसूं ममत्व नांही, तथापि प्रबल-रोगके उदयतैं चित्तविषैं व्याकुलता होती होयगी । श्लोक दोयमें वह व्याख्यान करै हैं—

अपि रोगादिभिर्द्वैर्न मुनिः खेदमृच्छति ।

उडुपस्थस्य कः क्षोभः प्रवृद्धेऽपि नदीजले ॥२०४॥

वसंततिलकाछंद

जातामयः प्रतिविधाय तनौ वसेद्वा

नो चेत्तनुं त्यजतु वा द्वितयी गतिः स्यात् ।

लग्नाग्निमावसति वह्निमपोह्य गेहं

निर्याय वा व्रजति तत्र सुधीः किमास्ते ॥२०५॥

अर्थ—रोगादिककी वृद्धि करि मुनि खेदकूं प्राप्त न होय । जैसे नदीका जल वृद्धिकूं प्राप्त भया तथापि दृढ़ नावविषैं तिष्ठया ताकूं कहा विकल्प ? तैसे ज्ञानी मुनिनिकूं रोगादिककी वृद्धि विषैं कहा विकल्प ? अर अणुव्रती श्रावककै कदाचि रोग उपज्या तौ निर्दोष औषधादिकके योगतैं शांति करि शरीरविषैं बसे । अर प्रबल रोगकी शांतता न जानै तौ अनशन वृत्ति करि शरीरकूं तजै । ए दोय ही रीति । जैसे घरकै अग्नि लागी तब सुबुद्धी ताहि बुझाय घरमें बसै, अर बुझता न जानै तौ घर छोडि दूर जाय बसै । तैसे शरीर रहतो जानै तो योग्य औषधादिक करि रोगकी निवृत्ति करै, अर रहता न जानै तौ निर्ममत्व होय तजै ।

भावार्थ—श्रावक की तौ दोय रीति हैं । पवित्र औषधादिकका सेवन करै, तथा न भी सेवन करै । अर साधु इच्छा करि तौ औषधका सेवन न

करै। अर जो श्रावक निर्दोष औषध आहारादिक दे तौ निराग भावनिर्ते ले, राग भाव न करै।

आगै कहै हैं औषधादिक करि रोग न मिटै तौ ज्ञानीनिकूँ शरीर नाश होनेका भय न करणां, मरणका भय अज्ञानीनिकै होय है—

शिरःस्थं भारमुत्तार्य स्कन्धे कृत्वा सुयत्नतः ।

शरीरस्थेन भारेण अज्ञानी मन्यते सुखम् ॥२०६॥

अर्थ—जैसें कोऊ शिरका बोझ उतारि कांधे धरि सुख मानै तैसें जगतके जीव रोगका भार उतारि जरीरके भारकरि सुख मानै हैं।

भावार्थ—जगतके जीव रोग गए शरीर रहे सुख मानै हैं अर ज्ञानी जीव शरीरका संबंध ही रोग जानै हैं। तातैं शरीर जाय तौ विषाद नांही। जैसा शिरका भार तैसा ही कांधेका भार। जैसें रोगका दुख तैसा ही देह धारणका दुख है।

आगै याही अर्थकू दृढ़ करै है—

यावदस्ति प्रतीकारस्तावत् कुर्यात्प्रतिक्रियाम् ।

तथाप्यनुपशान्तानामनुद्वेगः प्रतिक्रिया ॥२०७॥

अर्थ—जौ लौ रोगकी उपशांतता होती दीखै तौलौ योग्य औषधादिकका ग्रहण करै तो करै अर जो रोग न मिटै तौ विकल्प न करै। शरीरसूँ उदास होना निर्विकल्प रहना यही बड़ा यत्न है।

भावार्थ—जेतैं शरीरकी स्थिति है तेतैं रहै ही है। अर स्थिति पूर्ण भए कदाचित् न रहै तातैं हर्ष शोक नांही।

आगै शिष्य पूछै है:—कौन उपायतैं शरीरसूँ उदासीनता करनी—

यदादाय भवेज्जन्मी त्यक्त्वा मुक्तो भविष्यति ।

शरीरमेव तस्याज्यं किं शेषैः क्षुद्रकल्पनैः ॥२०८॥

अर्थ—तैजस कार्मण मूल शरीर हैं तिनिके योगतैं नवे नवे शरीर धरि संसारी जीव भ्रमण करै है। मनुष्य अर तिर्यंच होय तब औदारिक शरीर धारैं। देव अर नारकी होय तब वैक्रियिक देह धारै। अर तैजस कार्मणके अभावतैं शरीर न धरैं तब मुक्त होइ। शरीरका धारण सोई संसार। तातैं शरीरका संबंध त्याज्य ही है। क्षुद्र विकल्पनि करि कहा ?

भावार्थ—शरीरके धारक संसारी अर अशरीरी सिद्ध तातें शरीरसूँ ममत्व तजना है ।

आगँ कहै हैं इह जीव तौ शरीरका उपकार करै है अर शरीर यातें प्रतिकूल है, तातें शरीरका ममत्व तजना—

नयेत्सर्वाशुचिप्रायः शरीरमपि पूज्यताम् ।

सोऽप्यात्मा येन न स्पृश्यो दुश्चरित्रं धिगस्तु तत् ॥२०९॥

अर्थ—सर्व अशुचिका मूल जो शरीर ताहूकूँ आत्मा पूज्य पदकूँ प्राप्त करै है । अर शरीर आत्माकूँ चांडालादिकके जन्मकरि अस्पर्श करै है, तातें ताकै दुराचारकूँ धिक्कार होहु । आत्मा तौ या मलिन शरीरसूँ उपकार करै है । मुनिपदके योगतें देव अर मनुष्यादिकनिकरि सेवनीक करै है । अर शरीर अशुभकूँ उपजाय जीवकौँ कुयोनिमें डारि ऐसा करै है जो कोऊ भीटै नाहीं, तातें शरीरकूँ धिक्कार ।

भावार्थ—आत्मा तौ शरीरकूँ संयमादि साधनकरि पूज्य करै है अर शरीर अज्ञानदशाविषै जीवकूँ नरक निगोद तिर्यंच गति तथा कुमानुष्यादि जन्म करि अस्पर्श करै है, सो अचिरज नाहीं । भला होय सो भली ही करै, बुरा होय सो बुरी ही करै ।

आगँ कहै हैं संसारी जीव शरीरादि तीन भागकूँ धरै है सो श्लोक दोयमें कहै हैं—

रसादिराद्यो भागः स्याज् ज्ञानावृत्त्यादिरन्वतः ।

ज्ञानादयस्तृतीयस्तु संसार्येवं त्रयात्मकः ॥२१०॥

भागत्रयमयं नित्यमात्मानं बन्धवर्तिनम् ।

भागद्वयात् पृथक् कर्तुं यो जानाति स तत्त्ववित् ॥२११॥

अर्थ—आदिका भाग तौ सप्त धातु मई शरीर है । ता पीछै दूजा ज्ञानावरणादि अष्ट कर्मका भाग है । अर तीसरा भाग ज्ञानादिक निज भावका है । या भांति संसारी जीव तीन भागकूँ धरै है । तीन भागमई संसारी जीव है, सो शरीरका भाग अर कर्मका भाग इनि दोय भागनिर्तें जीवकूँ जुदा करवेकी विधि जानैँ सो तत्त्वज्ञानी कहिये ।

भावार्थ—शरीर अर शरीरके मूल कारण कर्म तिनितें जीवकूँ जुदा करि ज्ञानादिक निज भावविषै रमें सोई तत्त्वज्ञानी अर पर वस्तुविषै रत होय सो अज्ञानी है ।

आगै शिष्य प्रश्न करै है:—दोय भागतैं आत्माका जुदा करना तपके आचरणतैं होय है सो तप करना कठिन, ताका समाधान करै है—

करोतु न चिरं घोरं तपः क्लेशासहो भवान् ।

चित्तसाध्यान् कषायारीन् न जयेद्यत्तदज्ञता ॥२१२॥

अर्थ—जो तू क्लेश सहिवेकू असमर्थ है, चिरकाल दुर्धर तप न करै तौ मन ही करि जीते जाहि ऐसे क्रोध मान माया लोभ बैरी तिनिकू तौ जीति, अर न जीतै तौ बड़ी अज्ञानता है। कषाय जीतिवेमें तौ काय-क्लेश नाहीं, मनही की सुलटनि है।

भावार्थ—शरीरके क्लेशकरि तपकौ तू कठिन जानै है। दुर्द्धर तप न करि सकै तौ मन वसिकरि कषाय ही क्षीण पारि। कषाय जीतिवेमें काय-क्लेश नांही, मन ही का कारण है, ए कषाय जीवके शत्रु हैं।

आगै कहै हैं कि जौ लगि कषायनिकू न जीतैं तौ लगि मुक्तिके कारण जे उत्तम क्षमादि गुण तिनकी प्राप्ति तकू अति दुर्लभ है—

मालिनी छंद

हृदयसरसि यावन्निर्मलेऽप्यत्यगाधे

वसति खलु कषायग्राहचक्रं समन्तात् ।

श्रयति गुणगणोऽयं तन्न तावद्विशङ्कं

सयमशमविशेषैस्तान् विजेतुं यतस्व ॥२१३॥

अर्थ—जौ लगि तेरे निर्मल अगाध हृदयरूप सरोवरविषैं निश्चय सेती कषायरूप जलचरनिका समूह बसै है तौ लगि गुणनिका समूह निशंकपणै प्रवेश न करि सकै। तातैं शम दम यम भेदनिकरि कषायनिके जीतिवेका जतन करि। शम कहिये समता भाव रागादिकका त्याग। दम कहिये मन इंद्रीनिका निरोध। यम कहिये यावत् जीवहिंसादिकका त्याग।

भावार्थ—जौ लगि तेरे हृदयविषैं कषायनिका संचार है तौ लगि शम दमादि गुणनिका लेशमात्रहू अंगीकार नांही। तातैं कल्याणके निमित्त कषाय तजि।

आगै कषायनिका जीतना सो ही मोक्षका कारण है ऐसा कहि करि जे कषायनिके आधीन होइ हैं तिनकी हास्य करते संते कहै हैं—

शादूलविक्रीडित छंद

हित्वा हेतुफले किलात्र सुधियस्तां सिद्धिमासुत्रिकीं

वाञ्छन्तः स्वयमेव साधनतया शंसन्ति शान्तं मनः ।

तेषामासुबिडालिकेति तदिदं धिग्धिक् कलेः प्राभवं

येनैतेऽपि फलद्वयप्रलयनाद् दूरं विपर्यासिताः ॥११४॥

अर्थ—जे कहिवेके सुबुद्धी या भवविषै हेतु कहिये कारण निष्परिग्रह-त्वादि, अर फल कहिये कार्य मनकी शांतता तिनकूं तजिकरि परलोककी सिद्धि वांछै हैं अर आप ही अपने मन उपंग साधनकरि अपनी प्रशंसा करै हैं, कषायनिके वशि हैं। अर जानै हैं हम शांतचित्त हैं सो यह बड़ा विरुद्ध है। क्रोधादिकमें अर उपशांततादि गुणनिमें परस्पर बैर है। जैसे बिलाव और मूसेके अनादिका परस्पर बैर है। तातैं बारंबार धिक्कार होहु कलिकालके प्रभावकूं। जाके प्रभावकरि सुबुद्धीहू इहलोक-परलोकका फल ताके विनाश करवेतैं अत्यंत ठिगाये गये हैं।

भावार्थ—जे कषाय तजैं बिनु शांत चित्त कहावै हैं ते वृथा ही अपनी प्रशंसा करै हैं। कषायनिकै अर शांतताके परस्पर विरोध है। जे बुद्धिवान कहाय आत्मा-कल्याण न करैं ते दोऊ जन्म बिगाडै हैं, अत्यंत ठिगाये हैं।

आगै श्री गुरु शिष्यकूं शिक्षा करै हैं:—जो तूं महातप अर ज्ञानकरि संयुक्त है, अर कषायनिका जीतनहारा है तौ अहंकारका लेशहू मति करि, अहंकारकूं मूलतैं उपारि डारि।

स्रग्धराछंद

उद्युक्तस्त्वं तपस्यस्यधिकमभिभवं त्वामगच्छन् कषायाः

प्राभूद्बोधोऽप्यगाधो जलमिव जलधौ किं तु दुर्लभ्यमन्यैः ।

निर्व्यर्हेऽपि प्रवाहे सलिलमिव मनाग् निम्नदेशेष्ववश्यं

मात्सर्यं ते स्वतुल्ये भवति परवशाद् दुर्जयं तज्जहीहि ॥२१५॥

अर्थ—तूं तपविषै उद्यमी भया है, अर तोतैं कषाय अति अपमानकूं प्राप्त भये हैं, अर समुद्रविषै जल अगाध होय तैसें तेरै ज्ञान अगाध भया है। परंतु एक तोहि शिक्षा करै हैं—यह बात औरनिकरि अगम्य है। या दोषकूं विरले तजैं। जैसे जलके प्रवाहविषै तुच्छ हू नीचे स्थानकविषै जल निःसन्देह औंडा होय है सो गढ है। लोकनिके जानवेमें नांही तैसें

अपनी बराबरिके विषे कर्मनिके वशते अदेखसका भाव होइ है। जाहि शास्त्रविषे मात्सर्य कहै हैं सो अति दुर्जय है, ताहि तू तजि।

भावार्थ—जो तू तपस्वी है, मंदकषायी है, गंभीरचित्त है तो मत्सर कहिए अदेखसका भाव तजि। अपनी बराबरि तथा अधिकविषे अदेखसका भाव मति करै। इह बड़ा दोष है, तू सर्वथा तजि।

आगै कोऊ प्रश्न करै है—इनि कषायनिके होतें संतै जीवका कहा अकल्याण है? ताहि उत्तर कहै हैं—जहां काम क्रोधादिकका उदय होइ सो ही जीवका अकल्याण। इह कथन दृष्टांतकरि दृढ़ करै हैं। प्रथम ही क्रोधके उदयविषे अकल्याण दिखावै हैं—

वसन्ततिलका छन्द

चित्तस्थमप्यनवबुद्धय हरेण जाड्यात्

क्रुद्ध्वा ब्रहिः किमपि दग्धमनङ्गबुध्या ।

घोरामवाप स हि तेन कृतामवस्थां

क्रोधोदयाद्भवति कस्य न कार्यहानिः ॥२१६॥

अर्थ—देखो काम तौ चित्तविषे हुता बाह्य न हुता। अर काहूनें क्रोधकरि काम जानि कोऊ बाह्य पदार्थ भस्म कीया सो काम न मूवा। कामके योगते सराग अवस्थाकू प्राप्त भया। कामकी करी घोर वेदना सही सो क्रोधके उदयते कौनके कार्यकी हानि न होइ ?

भावार्थ—क्रोधके उदयते सर्व कार्यका नाश होय। काहूनें कोऊ बाह्य पदार्थ काम जानि भस्म कीया सो काम न मूवा, सो क्रोधी कामकरि पीडित ही भया।

आगै मानके उदयविषे अकाज दिखावै है—

वसन्ततिलकाछन्द

चक्रं विहाय निजदक्षिणबाहुसंस्थं

यत् प्राव्रजन्ननु तदैव स तेन मुञ्चेत् ।

क्लेशं तमाप किल बाहुबली चिराय

मानो मनागपि हति महतीं करोति ॥२१७॥

अर्थ—देखो बाहुबली अपनी दाहिणी भुजापरि आय तिष्ठया जो चक्र ताहि तजि करि जिन दीक्षा आचरी। तपकरि संसारते मुक्त भए। परंतु कैयक दिन कछुइक संज्वलनमानका उदय रह्या, ताकरि वर्ष पर्यंत केवल

न उपज्या । महाकायक्लेश कीया तऊ मान गए बिना मुक्त न भए । यह तुच्छ मात्रहू मान महा मोटी हानि करै है । तार्तै मान त्याज्य है । तन धनरूप संपदा यौवन राजलक्ष्मी इनिका गर्व करै सो ये सब क्षण भंगुर हैं । अर आत्मा तौ निश्चयकरि सिद्ध समान है । त्रैलोक्यका आभूषण है, ताकै मान काहेका ?

भावार्थ—मान ही मोक्षका विघ्नकारी है । बाहुबली सारिखे तपस्वी बलवान् विवेकी सूक्ष्म संज्वलन मानके उदयकरि वर्ष पर्यंत केवल न पावते भये । मान कणिका गई तब केवल उपज्या ।

आगैं कहै हैं कि जो विवेकी गुणकी महंतता जानै है तिनिकू तुच्छ मात्र हू मान करना उचित नांही यह दोय श्लोकमें दिखावे हैं—

शार्दूलविक्रीडितछंद

सत्यं वाचि मतौ श्रुतं हृदि दया शौर्यं भुजे विक्रमे
लक्ष्मीर्दानमनूनमर्थिनिचये मार्गो गतिर्निवृत्ते ।
येषां प्रागजनीह तेषपि निरहङ्काराः श्रुतेर्गोचराः
चित्रं संप्रति लेशितोऽपि न गुणास्तेषां तथाप्युद्धताः ॥२१८॥

मालिनीछंद

वसति भुवि समस्तं सापि सधारितान्यैः
उदरमुपनिविष्टा सा च ते वा परस्य ।
तदपि किल परेषां ज्ञानकोणे निलीनं
वहति कथमिहान्यो गर्वमात्माधिकेषु ॥२१९॥

अर्थ—या लोकविषैं पूर्वै महा महत्पुरुष भए । जिनकै वचनविषैं सत्य, अर शास्त्रविषैं बुद्धि, हृदयविषैं दया, अर भुजानिविषैं शूरवीरता पराक्रम, अर लक्ष्मीका जाचकनिके समूह विषैं पूर्ण दान, अर निवृत्ति मार्गविषैं गमन, जिनमैं ए गुण होते भये तोऊ अहंकार रहित शास्त्रविषैं गाए हैं । परन्तु यह बड़ा अचिरज है अवार या कलिकालविषैं लेशमात्र हू गुण नांही तोऊ तिनिकै अति उद्धतता है, महा गर्वमें छकि रहे हैं ।

भावार्थ—पूर्वै चतुर्थ कालविषैं बड़े सत्यवादी शूरवीर, दयावान्, दातार, महाविरक्त भए तोऊ गर्वका लेश न भया । अर अबार रंचमात्र गुण नांहीं, तथापि उद्धत हैं, गर्ववंत हैं । इह बड़ा अचिरज है ।

अर्थ—गर्व करना झूठा है। गर्व तो तब करे जब आपतें कोऊ अधिक न होइ, सो एकसूँ एक अधिक हैं। प्रत्यक्ष देखो या पृथ्वीविषैँ समस्त बसैँ हैं। सबका आधार पृथ्वी है। सो त्रैलोक्यकी भूमिघनोदधि घनवात तनुवात इनि तीन वातवलानिकैँ आधार है। पृथ्वी अर वातवल्य आकाशके उदरमें हैं। सो अनंता आकाश केवलीके ज्ञानके अंशमें लीन भया है। एक सूँ एक अधिक हैं। तातैं जगतविषैँ आपतैं बहुतनिकूँ अधिक जानि कौन गर्व करै ? विवेकी कदापि गर्व न करै।

भावार्थ—एकतैं एक अधिक हैं। सब पृथ्वीके आधार, पृथ्वी पाँनके आधार ए वातवलानिकैँ, ते वातवल्य आकाशके आधार सो आकाश समस्त ज्ञानमें माय रह्या है। अर संसारी जीवनिमें विभूतिकरि एकसूँ एक अधिक हैं। जीवत्वकरि सब समान हैं।

आगैं मायाचारकैँ योगतैं जीवका अकल्याण होइ है सो तीन श्लोकनि में दिखावैँ हैं—

शिखरिणीछंद

यशो मारीचीयं कनकमृगयामलिनितं
 हतोऽश्वत्थामोक्त्या प्रणखिलघुगसीद्यमसुतः ।
 सकृष्णः कृष्णोऽभूत् कपटबटुवेषेण नितरा—
 मपि छद्माल्पं तद्विषमिव हि दुग्धस्य महतः ॥२२०॥
 भेयं मायामहागर्तान्मिध्याघनतमोमयात् ।
 यस्मिन् लीना न लक्ष्यन्ते क्रोधादिविषमाहयः ॥२२१॥

वसन्ततिलकाछंद

प्रच्छन्नकर्म मम कोऽपि न वेत्ति धीमान्
 ध्वंसं गुणस्य महतोऽपि हि मेति मंस्थाः ।
 कामं गिलन् धवलदीधितिधौतदाहं
 गूढोऽप्यबोधि न विधुं स विधुन्तुदः कैः ॥२२२॥

अर्थ—अल्प हू कपट महा मोटे गुणनिकूँ हतैँ है, जैसे घने दूधकूँ कणिकामात्र हू विष दूषित करैँ है। देखो मारीच जो रावणका मंत्री ताका जस कपटकरि कनक सुग होनेतैं मलिन भया। अर राजा युधिष्ठिरका अति निर्मल यश सो तिनके मुखतैं यह वचन निकस्या जो “अश्वत्थामा

हतः” । न जानिए, नर जानिए या कुंजर । सो या मायाचारकै वचनकरि राजा युधिष्ठिर मित्रनिमें लघु भए । तातैं अल्प हू मायाचार बहुत गुणनिकू हतै है ।

भावार्थ—मायाचार महादुराचार है । मारीच मंत्री लघुताकू प्राप्त भया । राजा युधिष्ठिर सारिखे “अश्वत्थामा हतः” या वचन कहिवेकरि लज्जाकौ प्राप्त भए । अहो भव्य जीव हो ! मायारूपी ओडे खाडेतैं डरो । यह खाडा मिथ्या भावरूपी महा अंधकारमई है । जाविषैं लुकि रहे हैं क्रोधादिक महादुष्ट सर्प, जहां खाडा होइ तहा अंधकार हू होइ । अर तामें सर्प हू रहै ।

भावार्थ—यह मायारूप खाडा अति औंडा है । जामैं मिथ्यारूप अंधेरा है । जामैं क्रोधादि सर्प रहै हैं ।

अर्थ—हे जीव तू ऐसा संदेह मति राखै, जो गुप्त^१ पाप मेरा कोऊ न जानैगा, बुद्धिवान हू न जानैं तो और कैसे जानैं ? अर मेरे मोटे गुणनिका यह पाप कैसे आच्छादन करैगा । ऐसी तू कदापि मति मानै । प्रगट देखि, चन्द्रमा अपनी उज्ज्वल किरणनिकरि जगतके आतापकू निवारै है । सो ऐसे चंद्रहूकू प्रच्छन्न जो राहु सो आच्छादित करै है । या बातकू सब हो जानै हैं । ऐसा कौन जो या बात को न जाने ।

आगै लोभ कषाय थकी जीवका अकाज दिखावै—

हिरणीछंद

वनचरभयाद् धावन् दैवान् ललाकुलबालघिः

किल जडतया लोलो बालभ्रजेऽविचलं स्थितः ।

वत स चमरस्तेन प्राणैरपि प्रवियोजितः

परिणततृषां प्रायेणैवंविधा हि विपत्तयः ॥२२३॥

अर्थ—देखो लोकविषैं प्रसिद्ध है—वनचर जो भील अथवा व्याघ्र ताके भय थकी सुरह गाय भागी सो दैवयोगतैं ताकी पूंछ बेलितैं उलझी सो मूढताकरि बालनका समूह जो पूंछ ताके लोभतैं खरी होइ रही सो वनचरनैं प्राणनितैं रहित करी । तातैं जो तृष्णातुर हैं तिनकै बाहुल्यता करि या प्रकार विपत्ति हो है ।

१. हे जीव तू ऐसा तो गुप्त, ज० पु० १२२,३

आगँ कहै हैं अकल्याणकी करनहारी जो कषाय तिसिकूँ जीतिकरि अल्प है संसार जिनकै ते ऐसी सामग्रीकूँ प्राप्त होय हैं । सो दोय श्लोकनिसे दिखावै हैं—

हिरणीछंद

विषयविरतिः संगत्यागः कषायविनिग्रहः

शमयमदमास्तच्चाभ्यासस्तपश्चरणोद्यमः ।

नियमितमनोवृत्तिर्भक्तिर्जिनेषु दयालुता

भवति कृतिनः संसाराब्धेस्तटे निकटे सति ॥२२४॥

अर्थ—विषयसूँ विरक्तता, अर परिग्रहका त्याग, कषायनिका निग्रह, सम कहिए शांतता, रागादिका त्याग, दम कहिये मन इंद्रोनिका निरोध, यम कहिये यावत् जीव हिंसादिक पापनिका त्याग, तिनका धारण, तत्त्वका अभ्यास, तपश्चरणका उद्यम, मनकी वृत्तिका निरोध, जिनराजविषै भक्ति, जीवनिकी दया ए सामग्री विवेकी जीवनिकै संसार समुद्रका तट निकटि आये होय है ।

मालिनीछंद

यमनियमनितान्तः शान्तबाह्यान्तरात्मा

परिणमितसमाधिः सर्वसच्चानुकम्पी ।

विहितहितमिताशी क्लेशजालं समूलं

दहति निहतनिद्रो निश्चिताध्यात्मसारः ॥२२५॥

अर्थ—यम नियमादि योगकै मूल हैं । यम कहिए जन्मपर्यंत अयोग क्रियाका त्याग, अर नियम कहिए घरी पल प्रहर पक्ष मास चातुर्मास वर्षादिकका संवर । सो यम नियमादिविषै साधु तत्पर हैं, महा शांत चित्त देहादिक बाह्य वस्तुनिर्ते निवृत्त भया है भाव जिनका, अर समाधि कहिये निर्विकल्प दशाकूँ प्राप्त भया है सर्व जीव मात्रविषै दया जिनकी, विहित कहिये शास्त्रोक्त अल्प है योग्य आहार जिनकै, दूरि करी है निद्रा, अर निश्चय क्रिया है अध्यात्मका सार आत्मस्वभाव जिननै । निरंतर आत्म-अनुभवविषै मगन हैं ।

आगँ कहै हैं जो ऐसे गुणनिकरि मंडित हैं मुनिराज ते निश्चैसेती मुक्तिके भाजन हो है ।

मालिनीछंद

समाधिगतसमस्ताः सर्वसावद्यदूराः

स्वहितनिहितचित्ताः शान्तसर्वप्रचाराः ।

स्वपरसफलजल्पाः सर्वसंकल्पमुक्ताः

कथमिह न विमुक्तेर्भाजनं ते विमुक्ताः ॥२२६॥

अर्थ—भली भांति जान्या है समस्त तजिवे योग्य अर ग्रहण करिवे योग्य वस्तुका स्वरूप जिन, अर हिंसा आदि सब पापनिर्तै दूरि हैं, अर आत्मकल्याणके कारण सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञान-सम्यक्चारित्र तिनविषै आरूढ है चित्त जिनिका, अर निवृत्ति हो गयी है सर्व इन्द्रियनके विषय जिनके, अर वचन ऐसा बोलै हैं जिन विषै अपना कल्याण अर पर जीविका कल्याण, अर सर्व संकल्प विकल्पतै रहित है । ते महापुरुष सर्व परप्रचनितै रहित क्यों न मुक्तिके भाजन होहिं ? निःसन्देह शिवसुखके भोजन होहैं ।

भावार्थ—जे सर्व प्रप्रचनतै रहित होहि तेई मुक्ति होहि, यह मुक्तिका मूल एक निःप्रप्रचपना ही है जे हेयोपादेयकूँ जानि सब त्याग जोग्य वस्तुनिकूँ तजि आत्म-कल्याणके कारण जे रत्नत्रय तिनकीं ग्रहि करि विषयनिर्तै विरक्त होहि तेई भवसागरके पार होहि ।

आगै कहै हैं मुक्ति हुवा चाहै है तूँ अर मुक्तिकै अर्थि रत्नत्रयका धारण किया है । तौ रत्नत्रयके भंगतै भय करना अर जगतकूँ विषयासक्त देखि आप विषयासक्त न होना—

शार्दूलविक्रीडितछंद

दासत्वं विषयप्रभोगतवतामात्मापि येषां परः

तेषां भो गुणदोषशून्यमनसां किं तत्पुनर्नश्यति ।

भेतव्यं भवतैव यस्य भुवनप्रद्योति रत्नत्रयं

आम्यन्तीन्द्रियतस्कराश्च परितस्त्वां तन्मुहुर्जागृहि ॥२२७॥

अर्थ—विषयरूप प्रभु कहिये राजा ताके दास भावकूँ प्राप्त भये हैं जे अविवेकी लोक, गुण अर दोषके विचारतै शून्य हैं चित्त जिनका, अर जिनका आत्मा भी पराधीन है तिनकी रीति देखि हो विवेकी ! तूँ भूलै मति । ते तौ सम्यग्ज्ञानरूप धन करि रहित दरिद्री ही हैं । सो इनिका कहा जाइ ? अर तेरै तीन भवनविषै उद्योत करनहारा रत्नत्रय धन है,

तातैं तोय भय करना । इंद्री चोर तेरै आसि पासि चौगिरद फिरै हैं ।
तिनकरि न मुसाबै सो यत्न करि । तेरी ज्ञान विभूति वै न ग्रहै सो करि,
सदा जाग्रत रहु ।

भावार्थ—जैसैं संसारविषै निधन पुरुष हैं ते तौ जाग्रत रहौ वा शयन करौ, तिनकू चोरनतैं कछू भय नांही, चोर तिनका कहा लैं । अर रत्न-त्रयादि धनकरि पूर्ण है तिनकू चोरनतैं सदा सावधान रहना । सावधान न रहै तौ चोरनिपैं मुसावै तैसैं अविवेकी जीव तौ रत्नत्रयरूप धनतैं रहित हैं, तिनकू इंद्रिरूप चोरनिका भय नांहीं । तातैं प्रमादी भए यथेष्ट विषयनिकू सेवे हैं । अर तू रत्नत्रयरूप धनका धारी है । तातैं इन्द्रियरूप चोरनितैं सावधान रहु । जो प्रमादी होयगा तौ अपना निज धन मुसावैगा ।

आगै कहै हैं जो विषयविषै गया है मोह तेरा सो कमंडलु पीछी आदि संयमोपकरणविषै हू अनुराग मति करै यह शिक्षा दे है—

वसन्ततिलका छंद

रम्येषु वस्तुवनितादिपु वीतमोहो

मुह्येद्वृथा किमिति संयमसाधनेषु ।

धोमान् किमामयभयात् परिहृत्य भुक्तिं

पीत्वौषधिं व्रजति जातुचिदप्यजीर्णम् ॥२२८॥

अर्थ—हे बुद्धिमान् ! मनोग्य स्त्री आदि वस्तुनिविषै गया है मोह तेरा ऐसा तू संयमके साधन जे पीछी आदि तिनविषै वृथा मोह क्यों करै ? जैसै कोऊ रोगके भयतैं भोजनकू तजि मात्रातैं अधिक औषधि लेकर कहा अजीर्ण करै ? कदाचित् न करै ।

भावार्थ—जैसैं कोऊ बुद्धिवान् अजीर्णके भयतैं भोजनकू तजि पाचक औषध भी मात्रासै अधिक न ले । तैसैं ज्ञानी कनक, कामिनी आदि परिग्रहकू तजि करि संयमके साधन जे कमंडलु पीछिकादिक तिनहूविषै ममत्व न करै । ममत्व है सो बंधका कारण है । अर जो कदाचित् ममत्व करै तौ वीतराग भावकू न पावै, सरागी होय महाव्रतको भंग करै ।

आगै कहै हैं—सर्व पदार्थनिविषै निर्मोही मुनि या प्रकार आपकू कृतार्थ मानै है—

पृथ्वीछंद

तपः श्रुतमिति द्वयं बहिरुदीर्यं हृदं यदा

कृषीफलमिवालये समुपलीयते स्वात्मनि

कृषिबल इवोज्झितः करणचौरबाधादिभिः ।

तदा हि मनुते यतिः स्वकृतकृत्यतां धोरधीः ॥२२९॥

अर्थ—जैसे किसान क्षेत्रविषे बीज बोय करि कणकी वृद्धि करै है । सो चोरादिककी बाधाकरि रहित होय अपने घरमें अन्य ले करि आवै तब आपकू कृतार्थ मानै तैसे साधु तप अरु श्रुतकी वृद्धि करि इन्द्रियादिक चोर तिनकी बाधाकरि रहित आत्मस्वरूपविषे लय होय तब आपकू कृतार्थ मानै । वह किसान हू अपने कर्त्तव्यकी कृतार्थता तब ही मानै जब निराबाध अन्न घर में आय परै । अर साधु धीर बुद्धि अपने संयमकी कृतार्थता तब ही मानै जब इन्द्रियादिक चोरकी बाधाकरि रहित तप श्रुतरूप बीजका फल ज्ञान-रूप कण आपविषे लय करै ।

भावार्थ—तप श्रुतका फल आत्म-ज्ञान, ताके बाधक इन्द्रियादिक चोर, तिनितै ज्ञान न हरद्या जाय । अर अपने स्वरूपविषे लय होय तब यति आपकू कृतार्थ मानै । जैसे किसान अनेक परिश्रम करि खेती करी है अर निर्विघ्नपणै नाज अपने घरमें ले आवै तब आपकू कृतार्थ जानै ।

आगै कहै हैं कि काहूके मनमें ऐसा विचार है जो श्रुतज्ञान करि मेरे समस्त अर्थका परिज्ञान है । तातै आशारूप शत्रु मेरा किछू विघ्न करवे समर्थ नाही । ऐसा जानि आशारूप शत्रुतै निरभय रहना उचित नाही । इह श्री गुरु शिष्यकू शिक्षा दे हैं—

शार्दूलविक्रीडितछंद

दृष्टार्थस्य न मे किमप्ययमिति ज्ञानावलेपादमुं

नोपेक्षस्व जगत्त्रयैकडमरं निःशेषयाऽऽशाद्विषम् ।

पश्याम्भोनिधिमप्यगाधसलिलं बावाध्यते वाडवः

क्रोडीभूतविपक्षकस्य जगति प्रायेण शान्तिः कुतः ॥२३०॥

अर्थ—इह आशारूप शत्रु मेरे ज्ञानवंतकै कछू विघ्नकारी नाही, या भांति ज्ञानके गर्वतै आशारूप शत्रुकू अल्प न गिनना । जगत्रयका एक अद्वितीय वैरी महा भयकारी आशा शत्रु सर्वथा दूरि ही करना । ताका दृष्टांत कहै हैं—देखो अगाध है जल जाविषे ऐसा जो समुद्र ताहि बडवानल बाधा

उपजावै है, सोखै है। तातें या जगतमें जाहि शत्रु दावे रहै ताहि बाहुल्यता करि शांति कहातें होय ? जिनके रंचमात्र हू शत्रु नाहीं तेई निराबाध जानहूँ। सो ऐसा तौ प्रबल शत्रु है। याके होतें शांतता कहातें होय ?

भावार्थ—जैसे समुद्र तौ अगाध है अर बडवानल अग्नि स्तोक है, तौऊ ताके जलकू सोषै है। सो रंचमात्र हू शत्रुके अभाव विन निराबाधता नांही तौ प्रबल शत्रुके होतें निराबाधता कहातें होय ? तैसें आशाके अभाव विन निराकुलता कहातें होइ ? अर कदाचित् तू जानैगा जो मेरे संयमादि गुण प्रबल है, आशा कहा करैगी ? सो ऐसा न विचारना। समुद्र अति गंभीर था तौऊ ताकू रंच मात्र हू बडवानल तानै सोख्या। तौ आशा तौ तीव्र अग्नि संयमरूप समुद्रकू सोषै ही सोषै। तातें आशाका सर्वथा नाश होय सो यत्न करना।

आगै कहै हैं जो तू आशा रूप शत्रुकू निर्मूल कीया चाहै है तौ सर्वथा मोहका परित्याग करि—

आर्याछन्द

स्नेहानुबद्धहृदयो ज्ञानचारित्रान्वितोऽपि न श्लाघ्यः ।

दीप इवापादयिता कज्जलमलिनस्य कार्यस्य ॥२३१॥

अर्थ—मोह करि युक्त है हृदय जाका सो पुरुष यद्यपि शास्त्रके ज्ञान-करि तथा शुभ आचरण करि मंडित है तौऊ प्रशंसा योग्य नाहीं। जैसे दीप स्नेह कहिए तेल ताकरि युक्त है सो काजलकू उपजावै है। तैसें स्नेह कहिए रागभाव ताकरि सहित है सो मलिन कार्य जे पापरूप अशुभ-कर्म तिनका उपजावनहारा है, ऐसा जानि जगतसूँ स्नेह तजना।

भावार्थ—जैसे तेलके संबंध करि युक्त दीपक प्रकाश तौ करै है, परन्तु कज्जलरूप कलंकनिकू निपजावै है तैसें तेरा शुभाचरणरूप दीपक राग भावरूप तेल करि युक्त भया पापरूप कलंककू उपजावै है। तातें देहादिक-सूँ नेह तजि। जैसे तेल विना अग्नि सदा प्रकाशरूप रहै है अर कज्जल-रूप कलंककू नाहीं उपजावै है तैसें तू वीतराग भावरूप रहू, जाकरि कर्म कलंक न उपजै।

आगै कहै हैं जगतके स्नेह करि बंध्या है चित्त तेरा सो इष्ट अनिष्ट-विषै राग द्वेष करि क्लेशकू भोगवै है—

रतेररतिमायातः पुना रतिमुपागतः ।

तृतीयं पदमप्राप्य बालिशो वत सीदसि ॥२३२॥

अर्थ—अज्ञानी तू विषयनिकी रुचितें अरुचिमें आवै है। अर बहुरि इनि ही तैं रुचि करै है। ऐसैं करतैं तीसरा पद जो जगततैं उदासीनता-रूप वैराग्य ताहि पाये बिगरि दुखी है। ऐसा जानि जो तू कल्याणका अर्थी है तौ तू रागद्वेषकू तजि अर वैराग्यकू भजि ।

भावार्थ—स्त्रीआदि क विषयनिकू प्रथम तौ रुचिकरि भोगवै है अर पीछे तत्काल ही अरुचि होय जाय है। बहुरि उनहीसैं रुचि करै है। ऐसै करतैं वांछारूप व्याधितै सदा व्याकुल ही रहै है। रुचि अरुचितैं रहित जो वीतराग भाव ताहि न पावता संता खेद खिन्न रहै। तातैं राग-द्वेषकू तजि, समभावकू भजि, जाकरि सुखी होय ।

आगै कहै हैं अनेक दुःखनिकरि तप्तायमान जो तू सो मोक्षसुखके अभावतैं लवलेश मात्र जो विषय-सुख ताकरि आपकू सुखी मानै है सो वृथा है—

तावद्दुःखाग्नितप्तात्माऽयःपिण्डः सुखसीकरैः ।

निर्वासि निवृत्ताम्भोधौ यावच्चं न निमज्जसि ॥२३३॥

अर्थ—तू लोहके पिण्डकी नाईं दुःखरूप अग्निकरि तप्तायमान हैं सो जौ लगि मोक्षके सुखरूप समुद्रविषैं मग्न न हो है तौ लगि इन्द्रीनिकरि उपजे जे लेशमात्र विषयसुख तिनकरि आपकू सुखी मानै है सो वृथा है। भावार्थ—जैसे लोहके गोलकू पूरण जलमें डबोइए तब ही आतापतैं रहित होइ, अर जो लेशमात्र जलतैं छांटिये तौ ताप न मिटै, वह जल ही भस्म होइ जाय। तैसें जीवरूप गोला दुःखरूप अग्निकरि तप्तायमान जौ लगि निर्वाणके सुखरूप समुद्रविषैं मग्न न होय, तौ लगि दुःखरूप आताप न मिटै। देवपद राज्यपदरूप अल्प सुखकरि सुखी मानै है सो वृथा है। इनि सुखनिकरि कदाचि दुःखरूप आताप न मिटै। ए रंचमात्र सुख खिणमें विलाय जाय ।

आगै कहै हैं कि निवृत्ति सागरविषैं मग्न होना ज्ञानके अंगीकार कीए होइ है तातैं ज्ञानादि उपायकरि ताका अंगीकार करहु—

मंक्षु मोक्षं सुसम्यक्त्वसत्यंकारस्वसात्कृतम् ।

ज्ञानचारित्रसाकल्यमूल्येन स्वकरे कुरु ॥२३४॥

१. तिनकरि आपकू खेदखिन्न करै है। २३३. ५.

अर्थ—सम्यग्दर्शन, सम्यक्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्यकी पूर्णता ही भया धन ताकरि तू शीघ्र ही निर्वाणकू अपने हाथि करि । जब सत्यरूप मुक्ति अपने वसि करी तब कृतार्थ भया ।

भावार्थ—जैसैं कौऊ पुरुष इष्ट वस्तुकू, धनादिक देय करि अपने हाथि करै तैसैं तू रत्नत्रयरूप धनकरि मोक्ष पदार्थकू अपने हाथि करि, ज्यों सुखी होय ।

आगै कहै हैं सराग भाव की है उत्कृष्टता जामैं ऐसी जो प्रवृत्ति अर वीतराग भाव की है उत्कृष्टता जामैं ऐसी जो निवृत्ति, इन दोऊनिकी अपेक्षा इह जगत कैसा है सो दिखावै हैं—

उपेन्द्रवज्रा छंद

अशेषमद्वैतमभोग्यभोग्यं

निवृत्तिवृत्त्योः परमार्थकोट्याम् ।

अभोग्यभोग्यात्मविकल्पबुद्ध्या

निवृत्तिमभ्यस्यतु मोक्षकांक्षी ॥२३५॥

अर्थ—इह समस्त जगत् निवृत्तिकी अपेक्षा तौ भोगिवे योग्य नाही, त्यागवे योग्य है, अर प्रवृत्तिकी अपेक्षा सकल जगत् भोगिवे योग्य है। कैसा है जगत् ? अद्वैत कहिए एकरूप है । विषय कषायनिकी प्रवृत्ति सो प्रवृत्ति कहिए। अर तिनकी निवृत्ति सो निवृत्ति कहिए । सो इन दोऊनिकी अपेक्षा अभोग्यरूप अर भोग्यरूप जानि प्रवृत्तिकू तजि मोक्षके अभिलाखी निवृत्ति ही का अभ्यास करहु । प्रवृत्तिका फल संसार, निवृत्तिका फल निर्वाण है ।

भावार्थ—इह जगत अविवेकीनिकू तौ रागके वस करि भोग्यरूप भासै है, अर विवेकीनिकू ज्ञानभाव करि त्यागरूप भासै है । तो जो तू मोक्षाभिलाषी है तौ तजिवे ही का अभ्यास करि, जातैं मुक्त होय ।

आगै कहै हैं कि निवृत्तिका अभ्यासकौ लगि करना—

निवृत्ति भावयेद्यावन्निवृत्यं तदभावतः ।

न वृत्तिर्न निवृत्तिश्च तदेव पदमव्ययम् ॥५३६॥

अर्थ—जौ लगि तजिवे योग्य मन वचन कायादिकका संबंध न छूटै तौ लगि निवृत्तिहीका अभ्यास करना । अर जब पर वस्तुका अभाव होइ गया तब न प्रवृत्ति, अर न निवृत्ति, केवल शुद्धस्वरूप ही है । जो पर पदार्थनितैं सर्वथा रहित होना सो ही अविनाशी पद है ।

भावार्थ—जौ लगि या जीवकै रागादिक परभावनिकी प्रवृत्ति है तौ लगि याकू निवृत्ति ही का अभ्यास करना । अर जब इह पर वस्तुके संबंध-तैं रहित होय मुक्त भया तब प्रवृत्ति अर निवृत्ति दोऊनि ही तैं प्रयोजन नांही । जैसे रोग है तौ लगि औषधका सेवन करना कर्त्तव्य है । अर रोगका अभाव भए औषधतैं प्रयोजन नांहीं । तैंसैं जौ लगि प्रवृत्ति है तौ लगि ताके निवारिके अर्थ निवृत्तिका अभ्यास है । अर प्रवृत्तिका सर्वथा अभाव भए निवृत्ति हूतैं कछू प्रयोजन नांही ।

आगै कहै हैं प्रवृत्तिका स्वरूप कहा, निवृत्तिका स्वरूप कहा, अर इनिका मूल कारण कहा—

रागद्वेषौ प्रवृत्तिः स्यान्ननिवृत्तिस्तन्निषेधनम् ।

तौ च बाह्यार्थसंबद्धौ तस्मात्तांश्च परित्यजेत् ॥२३७॥

अर्थ—राग अर द्वेष ये ही प्रवृत्ति अर इनिका निषेध सो ही निवृत्ति । अर ए दोऊ बाह्य पदार्थनिके संबंधतैं हैं, तातैं धन धान्यादि बाह्य पदार्थनिका त्याग करना ।

भावार्थ—रागादिककी प्रवृत्तिका मूल कारण पर वस्तुका संबंध है । तातैं निवृत्तिके अर्थ देहादिक पर द्रव्यनितैं ममत्व तजना । यातैं पर वस्तुकू अनादितैं अपनी मानी, परंतु पर वस्तु याकी भई नांही । तातैं इनिकू अपनी जानि वृथा ही खेदखिन्न होय है । सो निज स्वरूपकू जानि परतैं प्रीति तजना योग्य है ।

आगै कहै हैं कि परिग्रहका परित्याग करता जो मैं सो या प्रकार भावना भाऊँ हूँ—

भावयामि भवावर्ते भावनाः प्रागभाविताः ।

भावये भाविता नेति भवाभावाय भावनाः ॥२३८॥

अर्थ—मैं संसाररूप भ्रमणके विषैं भवभ्रमणके अभावके अर्थ पूर्वे न भाई जे सम्यग्दर्शनादि भावना तिनकू भाऊँ हूँ । अर जे मैं पूर्वेमिथ्यादर्शनादि भावना अनादि कालतैं भाई ते नांही भाऊँ हूँ ।

भावार्थ—मिथ्यादर्शनादि भावना भवभ्रमणका कारण पूर्वे सदा भाई सो अब न भाऊँ हूँ । अर सम्यग्दर्शनादि भावना मोक्षका कारण कदे न भाई सो भाऊँ हूँ ।

१. भावना तिनकू भाऊँ हूँ । भावार्थ—मिथ्यादर्शनादि ज० उ० २३८-५

२. भाई सो अब उ न भाऊँ हूँ । आगै कहै हैं ज० उ० २३८, ७ ।

आगे कहै हैं कौन वस्तु हितकारी, कौन अहितकारी, सोई दिखावै हैं—

शुभाशुभे पुण्यपापे सुखदुःखे च षट् त्रयम् ।

हितमाद्यमनुष्ठेयं शेषत्रयमथाहितम् ॥२३९॥

अर्थ—शुभ कहिए उत्तम वचन, करुणारूप मन, संयमरूप काया ये प्रशंसा योग्य हैं। अर अशुभ कहिये कुवचन, निरदय चित्त, अवत्ररूप काया ये निंदा योग्य हैं। इन दोऊनिकरि पुन्य पाप होय है। शुभतैं पुन्य, अशुभतैं पाप। पुन्यतैं सुख, पापतैं दुख। ए शुभ अशुभ, पुन्य पाप, सुख दुःख छह भए। तिनिमें आदिके तीन शुभ, पुन्य, सुख ए हितकारी सो आदरणे, अर अंतके तीन अशुभ, पाप, दुःख ए तीन अहितकारी ते तजिवे योग्य हैं।

भावार्थ—निश्चयनयकरि विचारिए तौ या जीवकूँ एक शुद्धोपयोग ही उपादेय है। अर शुभ अशुभ दोऊ ही हेय हैं। तथापि व्यवहार नयकरि विचारिए तौ अशुभ तौ सर्वथा ही तजिवे योग्य है, जातैं ए सर्वथा मोक्ष मार्गका घातक है। अर शुभोपयोग यद्यपि मोक्षका साक्षात् कारण नाहीं, परंतु परंपराय मोक्षका कारण है। तातैं कथंचित्प्रकार प्रथम अवस्थाविषै उपादेय है। शुभ परणामनितैं पुन्यका बंध होय, अर पुन्यतैं स्वर्गादिकका सुख होय। अर अशुभ परणामनितैं पापका बंध होय, पापतैं नरक निगोदादिक दुःख होइ। तातैं काहू प्रकारहू अशुभोपयोग उपादेय नांही।

आगे अशुभादि तीनके त्यागका अनुक्रम दिखावै हैं—

तत्राप्याद्यं परित्याज्यं शेषौ न स्तः स्वतः स्वयम् ।

शुभं च शुद्धे त्यक्त्वान्ते प्राप्नोति परमं पदम् ॥२४०॥

अर्थ—प्रथम तौ अशुभ अहित छूटै। ताकै अभावकरि पाप अर दुःख हू छूटै। बहुरि शुद्धोपयोगके प्रभाव करि शुभ हू छूटै। अर शुभके छूटैतैं पुन्य अर स्वर्गादिक सुख हू न होय। कारणके अभावतैं कार्यहूका अभाव होइ। जब शुभ हू छूट्या तब परम वीतराग भावरूप शुद्धोपयोगविषै तिष्ठि करि परम पदकूँ पावै। वह परम पद शुभ अशुभ दोऊनितैं रहित है। दोऊनिके अंतविषै होइ है।

भावार्थ—आत्माका उपयोग दोय प्रकार है, एक शुद्ध, एक अशुद्ध। अशुद्धके दोय भेद—अशुभ तथा शुभ। सो अशुभतैं पाप अर पापतैं नरकादि दुःख। तातैं अशुभ तौ सर्वथा तजिवे ही जोग्य। बहुरि शुभतैं पुन्य अर पुन्यतैं स्वर्गादिक सुख, सो अशुभके निवारिवे अर्थ शुभका ग्रहण होय

है। पीछे शुद्धोपयोग भए शुभ हू छूटै है। शुद्धोपयोगके प्रसाद करि यह जीव मुक्त हो है।

आगे चार्वाक प्रश्न करै है—आत्मा होइ तौ परम पदकी प्राप्ति होइ, आत्मा ही नांही तौ परम पद कैसे होइ ? अर आत्माकूँ गर्भ आदि मरण पर्यंत काहूँ देख्या नांही। वस्तु होइ तौ दृष्टि परै। इह तौ चार्वाक कही। अर सांख्य कहता भया—आत्मा तौ सदा मुक्त ही है। पहली अशुभकूँ तजि बहुरि शुभकूँ तजि परम पद पावै, इह तौ अयुक्त। तब श्री गुरु दोऊनिका समाधान करै हैं—

शादूँलविक्रीडितछंद

अस्त्यात्मात्मास्तमितादिवन्धनगतस्तद्बन्धनान्यास्रवैः

ते क्रोधादिकृताः प्रमादजनिताः क्रोधादयस्तेऽव्रतात् ।

मिथ्यात्वोपचितात् स एव समलः कालादिलब्धौ क्वचित्

सम्यक्त्वव्रतदक्षताऽकलुषतायोगैः क्रमान्मुच्यते ॥२४१॥

अर्थ—बहुरि सो आत्मा जातिस्मरण करि आपके पूर्व भव दृष्टि परै है, अर भूतादिक अपने पूर्व भव कहै हैं, सो जीवनिके पूर्व भवकी प्रतीति आवै है। तातें आत्मा है, सो आत्मा अनादि कालका कर्मनिकरि बंध्या है। ते कर्म बंध आस्रवनि करि हैं, अर आस्रव क्रोधादिक करि होइ हैं। अर क्रोधादिक प्रमाद जनित हैं, अर प्रमाद हिंसादिक अव्रतनिर्तैं हैं, अर अव्रत हैं सो मिथ्यात्व करि उपचित कहिए पुष्ट हैं। सो आत्मा मिथ्यादर्शनादि करि मलिन है। अर काल-लब्धि पाय काहूँ एक मनुष्य भवविषें सम्यक्त्व, व्रत, विवेक, निःकषायता इनिके योगकरि अनुक्रमें मुक्ति होइ है।

भावार्थ—चार्वाक तौ ऐसे कहै हैं जो आत्मा है ही नांही। सो आत्मा न होइ तौ ऐसा संदेह कौनकै होइ जो आत्मा नांही ? अर आत्मा न होइ तौ वितरादिक ऐसैं क्यों कहै जो मै फलाना था, अर अगिले भवकी तथा या भवको पहली बात कौनकूँ यादि आवै। अर जो आत्मा ही न होय तौ पुन्य-पापका फल कौन भोगवै ? आत्मा न होय तौ अहंकार ममकार कौनकै होय ? तातें आत्मा है, इह बात निःसन्देह भई। अर सांख्य कहै जो सर्वथा शुद्ध ही है। सो सर्वथा शुद्ध ही होय तौ संसार भ्रमण कैसे होइ ? और कोऊ सुखी, कोऊ दुखी, कोऊ नीच, कोऊ ऊँच ऐसा भेद काहेकूँ होइ ? अर सर्वथा शुद्ध ही होय तौ शुद्ध होनेकै अर्थ तपश्चरणादि साधन काहेकूँ कह्या ? तातें इह निश्चय भया जो संसार अवस्थानि-

विषैँ तौ आत्मा अशुद्धता करि युक्त है । बहुरि सम्यग्दर्शनादि उपायकरि अशुद्धताका नाश करै तब शुद्ध होय है—

आगै कहै हैं कि जो पुरुष शरीरादिकविषैँ निस्पृह है सो ही निस्पृह कहिये और नांही—

ममेदमहमस्येति प्रीतिरीतिरिवोत्थिता ।

क्षेत्रे क्षेत्रीयते यावत्तावत् काशा तपःफले ॥२४२॥

अर्थ—इह शरीर मेरा अर मैं याका, इह प्रीति उपद्रवकी करनहारी ईति समान अनादिकी लगी है । जौ लगि क्षेत्र कहिये शरीर ताविषैँ इह आप क्षेत्री कहिए स्वामी होइ रह्या है तौ लगि तपका फल जो मोक्ष ताकी कहा आशा ?

भावार्थ—इह तन मेरा क्षेत्र, अर मैं याका क्षेत्री कहिये धनी । इह मेरा, मैं याका, ऐसी प्रीति ईतिसमान उपद्रवकी करनहारी जौ लगि है तौ लगि मोक्षकी कहा आशा ? अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मूसक टीडी सूधा, अपना कटक, परका कटक ए सप्त ईति उपद्रवकी करनहारी तौ लगि किसानकूँ अन्नकी कहा आशा ? तैसेँ जीवकै देहविषैँ नेह है तौ लगि मुक्तिकी कहा आशा ?

आगै कहै हैं—प्रीतिके योगतैं जीवकै जड़सूँ एकताकी बुद्धि उपजै सोई संसारका कारण है अर या प्रीतिके अभावतैं मुक्ति है, ऐसा दिखावै हैं—

मामन्यमन्यं मां मत्वा भ्रान्तो भ्रान्तौ भवार्णवे ।

नान्योऽहमहमेवाहमन्योऽन्योऽहमऽस्मि न ॥२४३॥

अर्थ—भ्रान्तिके होतैं आपकूँ अन्य जे कायादिक तिनरूप जान्या अर कायादिककूँ अपना रूप जान्या । याही विपरीत ज्ञानकरि भवसमुद्र विषैँ भ्रम्या । अब तू यह जानिः—मैं पर पदार्थ नांही, मैं जु हूँ सो मैं ही हूँ अर पर पदार्थ पर ही हूँ । तिनमैं मैं नांही, मोमैं ते नांही ।

भावार्थ—या जगतविषैँ सर्व ही पदार्थ अपने अपने स्वभाव ही कूँ धारै हैं । काहू द्रव्यका काहू द्रव्यसूँ संबध नांही, सब जुदे जुदे हैं । अर मैं अनादि कालतैं मिथ्यात्व रागादिकके योगीतैं देहादिक पर पदार्थनिकं अपने जानता भया सो वै तौ मेरे तीन कालमैं न होय । अर मैं वृथा अपने जाने, याहीतैं संसारविषैँ भ्रम्या । अर अब सम्यग्ज्ञानके प्रभावतैं मैं यह जानी जो यह अन्य पदार्थ मैं नांही, यह जड़, मैं चैतन्य, मेरै अर इनकै कहा संबध ? सो ये ही ज्ञान कल्याणका कारण है ।

आगे कहै हैं कि भ्रन्ति दूरि भए इह निश्चय हो है जो कायादिककूं अनुराग बुद्धिकरि विलोकै ताकै वह विलोकना कर्मबंधकै निमित्त है अर वैराग्य बुद्धि करि देखै, ताकै कर्मबंधके विनाशकै अर्थ होय है—

शार्दूलविक्रीडित छंद

बन्धो जन्मनि येन येन निबिडं निष्पादितो वस्तुना

वाह्यार्थैकरतेः पुरा परिणतप्रज्ञात्मनः साम्प्रतम् ।

तत्तत् तन्निधनाय साधनमभूद्वैराग्यकाष्ठास्पृशो

दुर्बोधं हि तदन्यदेव विदुषामप्राकृतं कौशलम् ॥२४४॥

अर्थ—या संसारमें बाह्य पदार्थनिविषै एक अद्वितीय है प्रीति जाकी ताकै जिन जिन मन वचन कायादिक वस्तुनिकरि आगे अति गाढ़ा कर्मनिका बंध उपज्या, अर अब वैराग्यकी हृदकूं प्राप्त भया, यथावत् पदार्थनिके पर ज्ञानरूप बुद्धि परिणई तब तेई वस्तु बंधके विनाशिवेकै अर्थ साधनरूप भई, तातै जो अज्ञानकरि में रागादिरूप परणया सो अज्ञान तौ जुदा ही है । अर विवेकीनिका अपूर्व प्रवीणपणां है सो जुदा ही है ।

भावार्थ—जब देहादिक पर वस्तुनिकूं राग बुद्धिकरि देखै था तब रागीकै तेइ वस्तु बंधका कारण हुती अर जब वैराग्य बुद्धि करि देखने लगा तब कायादिक मुक्तिके साधनरूप भई । तातै राग भाव तजि वीत-राग भावका यत्न करना ।

आगे बंध अर बंधका नाश-जा भांति होइ सो ही अनुक्रम दिखावै हैं—

अधिकः क्वचिदाश्लेषः क्वचिद्धीनः क्वचित्समः ।

क्वचिद्विश्लेष एवायं बन्धमोक्षक्रमो मतः ॥२४५॥

अर्थ—कहुं एक तौ कर्मका बंधन अधिक है अर निर्जरा अल्प है, अर कहुं एक बंध अल्प है, निर्जरा विशेष है । अर कहुं एक बंध तथा निर्जरा समान है । अर कहुं एक केवल निर्जरा ही है । इह बंधनेका वा छूटनेका अनुक्रम है ।

भावार्थ—या जीवकै मिथ्यात्व गुणस्थानै तौ कर्मनिका बंध बहुत हो है, अर निर्जरा तुच्छ है । अर पंचम गुणस्थानादि अगिले गुणस्थाननिविषै बंध अल्प है, निर्जरा बहुत है । अर चतुर्थ गुणस्थानविषै बंध अर निर्जरा दोऊ समान हैं । अर अकषायीनिकै निर्जरा ही है, बंध नांही । यह बंध अर निर्जराकी परिपाटी कही ।

आगे बतावे हैं कि जाके कर्म अपने कार्य करिबेते रहित भए, कर्मनिका यही कार्य जो नवे शरीर उपजावे सो अब उपजाय न सके, जाकी इह दशा भई सो ही योगी—

यस्य पुण्यं च पापं च निष्फलं गलति स्वयम् ।

स योगी तस्य निर्वाणं न तस्य पुनरास्रवः ॥२४६॥

अर्थ—जा विरक्तकै पुन्य अर पाप, फल उपजाए बिना ही खिरि गये पुन्यका फल स्वर्ग, पापका फल नरक, सो वै कर्म जाकौं न देइ सके, सो ही योगी, ताकै निर्वाण ही है बहुरि आस्रव नांही ।

भावार्थ—पुन्य पाप ही संसार भ्रमणके मूल कारण हैं । जैसे फलका मूल पुष्प है सो पुष्प ही खिरि गया, तौ फल कहाँतें होइ ? तैसें जीवनिकै चतुर्गति फलका कारण शुभाशुभ कर्मनिका उदय है । सो महा मुनिकै शुभाशुभ कर्म ही खिरि गये तौ नवा शरीर कैसें होइ ? तातें तिनकें निर्वाण ही है ।

आगे कहै हैं कि आस्रवका निरोध जो संवर सो प्रतिज्ञाके पालिवेतें होइ है—

महातपस्तडागस्य संभृतस्य गुणाम्भसा ।

मर्यादापालिबन्धेऽल्पामप्युपेक्षिष्ट मा क्षतिम् ॥२४७॥

अर्थ—महातपरूप तालाब सम्यक्दर्शनादि गुणरूप जलकरि पूर्णताकी प्रतिज्ञारूप पालिके बंधनविषै रंचमात्र हू हानि मति देखि सकै ।

भावार्थ—जौ लगि पालि दृढ़ रहै तौ लगि तालाबविषै जल रहै । अर पालिके रंचमात्र हू छिद्र होइ, पालि फूटि जाय तौ तलाबमें जल न रहै । तैसें गुणरूप नीरतें भरया तपरूप तालाब ताकीप्रतिज्ञारूप पालि डिगै तौ गुणरूप जल न रहै ।

आगे कहै हैं कि महापुरुषनिकै संयमरूप घरकी हानिके ए कारण हैं—
दृढगुप्तिकपाटसंवृत्तिधृतिभित्तिर्मतिपादसंभृतिः ।

यतिरल्पमपि प्रपद्य रन्ध्रं कुटिलैर्विक्रियते गृहाकृतिः ॥२४८॥

अर्थ—यती पदरूप घरकै महादृढ़ मनोगुप्ति वचनगुप्ति कायगुप्तिरूप कपाटका संबंध, अर उत्तम धृति धीरता यही भीति, अर बुद्धिरूप नीव गाढ़ी, सो कदाचि तुच्छ हू व्रत भंगरूप छिद्र होइ तौ महाकुटिल रागादिक सर्प यतीपदरूप घरकूँ दूषित करै ।

१. फल न उपजाए बिना ज० पू० २४६, ४ ।

भावार्थ—जैसे घरके किवाड़ भी बहुत गाढ़ा अर भीति हू गाढी अर नींव हू गाढी, परंतु जो रंच मात्र हू छिद्र होइ तौ सर्पादिक दुष्ट जीव निवास करै, तब रहनेवालेको निर्विघ्नता न होइ, कबहूक प्राण ही जाय । तैसें यति पदरूप घरके गुप्तिरूप कपाट, धैर्यरूप भीति, बुद्धिरूप नींव, परन्तु व्रत भंगरूप अल्प हू छिद्र होइ तौ रागादिक कुटिल सर्प निवास करै, तौ अनेक पर्यायनिविषै अनेक बार मरण करै ।

आगै कहै हैं कि रागादिक दोषनिके जीतिवेकूँ उद्यमी भया है मुनि अर कदाचि पर जीवनिके दोष कथन करै तौ रागादिकूँ पुष्ट करै—

स्वान् दोषान् हन्तुमुद्युक्तस्तपोभिरतिदुर्धरैः ।

तानेव पोषयत्यज्ञः परदोषकथाशनैः ॥२४९॥

अर्थ—अति दुद्धर तप करि अपने दोष हणिवेकूँ उद्यमी भया है, अर कदाचि ईषिके योगतै पराया अपवाद करै, पराये औगुण गावै तौ पर दोष कथारूप भोजनकरि रागादि दोषनिकूँ पुष्ट करै ।

भावार्थ—विवेकीनिकूँ पराई निंदा करनी योग्य नांही, अर जो कदाचि पर निंदा करै तौ जैसे रस संयुक्त भोजन करि देह पुष्ट होइ तैसें परदोष कथन करि राग द्वेषादि दोष पुष्ट होइ, तिनिकरि मुनिपदका भंग होइ ।

आगै कहै हैं कि दोगनिकूँ जीतिकरि व्रतकूँ आचरै हैं मुनि ताकै कर्मके वशतै कदाचि चारित्रादिविषै कोऊ दोष उपज्या, अर वाकै गुण प्रगट करै तौ गुणनिकी महिमा न होय—

शार्दूलविक्रीडितछंद

**दोषः सर्वगुणाकरस्य महतो दैवानुरोधात् क्वचि-
ज्जातो यद्यपि चन्द्रलाञ्छनसमस्तं द्रष्टुमन्धोऽप्यलम् ।**

द्रष्टाप्नोति न तावतास्य पदवीमिन्दोः कलङ्कं जगद्

विश्वं पश्यति तत्प्रभाप्रकटितं किं कोऽप्यगात्तत्पदम् ॥२५०॥

अर्थ—सर्व गुणनिकी खानि जो महा पुरुष ताकै पूर्व कर्मके वशतै कोई मूल गुणादिविषै चंद्रमाके लांछिन समान अल्प हू दोष उपज्या तौ ताके देखनेकूँ अंध कहिये जगतके अविवेकी मूढदृष्टि लोक हू समर्थ होइ । जगतकी दृष्टिमै वह दोष आवै । अल्प ही दोषकरि गुणवतका पद कलंकित होइ । जैसे चंद्रमाका कलंक चंद्रमाकी प्रभाहीनै प्रगट कीया सो

समस्त जगत देखै है। कोऊ चन्द्रमाकै स्थानक तौ न गया, देखि न आया। तैसें महापुरुषका औगुन तिनके गुणनि ही प्रगट किया। कोऊ तिनकै स्थानक जाय देखि न आया।

भावार्थ—जहां अनेक गुण होइ तहां दोष न संभवै। जैसें चन्द्रमाकी प्रभाविवै कलंक न सोह्या सो प्रगट भास्या। तैसें मुनिपदमें औगुन न सोह्या सो प्रगट भास्या। लोग कहै देखो एते गुण जिनमें तिनमें इह दोष कैसें संभवै। अर कोऊ कहै जहां अनेक गुण होइ तहां अल्प दोषकी कहा वार्त्ता? अपने तांई तौ पराए गुण ही ग्रहने? ताका समाधान—उच्चपद-विषै नीच क्रिया सोहै नांही। जैसें उपवासी करि अर एक कण हू भक्षण करै तौ ताकूं लोग भ्रष्ट कहैं। अर अन्नती निरंतर भोजन करै है ताकी कोऊ निंदा न करै। तैसें अन्नतीमें अनेक दोष हैं तौऊ तिनिकी कोऊ कथा न करै अर संयमी में रंच मात्र हू दोष होय तौ ताकी निंदा होय, जो ऐसी पदवीमें ऐसा नीच कार्य कीया। तातैं पदवी अनुसार क्रिया करनी योग्य है।

आगै कहै हैं कि असूया कहिए ईर्ष्या पराये गुणविषै द्वेषका आरोपण पराए अनहोते औगुन प्रगट करै, अपने अनहोते गुण प्रगट करै। अपनी महिमाकै अथि तेला आदि अनेक उपवास आचरै सो अधिक विवेक दशा होइ तब इह वृत्ति आछी न भासै अविवेकीनिकौं आछी भासै—

यद्यदाचरितं पूर्वं तत्तदज्ञानचेष्टितम्

उत्तरोत्तरविज्ञानाद्योगिनः प्रतिभासते ॥२५१॥

अर्थ—पूर्वें जो जो आचरण किया, पर दोष भाषे, अपने गुण प्रगट करे, सो सब जोगीश्वरकै उत्तरोत्तर उत्कृष्ट दशाके होतैं अज्ञान चेष्टा भासै।

भावार्थ—जो पराए औगुन गावना अर अपने गुण प्रगट करना ये ही सो अज्ञानीनिकूं बुरी न भासै, ज्ञानतैं जोगीनिकूं बुरी भासै।

आगै कहै हैं जे उत्तम ज्ञानकी परणतिसूं रहित हैं अर तप उत्कृष्ट करै हैं, तौऊ तिनकै शरीरादिकविषै ममता बुद्धि होइ है, ताकरि कहा होइ है सो कहै हैं—

हरिणीछंद

अपि सुतपसामाशावल्लीशिखा तरुणायते

भवति हि मनोमूले यावन्ममत्वजलार्द्रता।

इति कृतधियः कृच्छ्रारम्भैश्चरन्ति निरन्तरं

चिरपरिचिते देहेऽप्यस्मिन्नतीव गतस्पृहाः ॥२५२॥

अथ—निश्चयसेती महातपस्वीनि हू कै आशारूप बेलिकी सिखा तरुणताकू आचरै, जौ लगि मनरूप जडविषै ममतारूप जलकी आव है तौ लगि आसा बेलि कैसे सूखै । ऐसा जानि विवेकी पुरुष या अपनी देह-विषै हू अत्यंत उदास हैं, शरीरके जीवे मरिवेकी वांछा नाहीं । यद्यपि शरीरसू चिरकालतैं परिचय हे तथापि मुनिकै ममता नाहीं, देहतैं निस्पृह हैं । कष्ट साध्य जे त्रिकाल योगादिक तिनकरि निरंतर शरीरकू दमैं ही हैं । शीतकालमें जलकै तीर, उष्णकालमें गिरिकै शिखर, वर्षा कालमें तरुतल निवास करैं सो त्रिकाल योग कहिये ।

भावार्थ—जैसे बेलिकी जड़ जलतैं सीचिए तौ ताकी शिखा सदा हरित ही रहै तैसें अशुद्ध भाव सो ममतारूप जलतैं सजल रहै तौ आशारूप बेलिकी शिखा सदा तरुण ही रहै ।

आगै याही अर्थकू दृष्टांतद्वार करि दृढ़ करै हैं—

रथोद्धता छंद

क्षीरनीरवदभेदरूपतस्तिष्ठतोरपि च देहदेहिनोः ।

भेद एव यदि भेदवत्स्वलं बाह्यवस्तुषु वदात्र का कथा ॥२५३॥

अर्थ—जो जीव और शरीरही में निश्चयसेती भेद है तौ अत्यन्त ही जुदे जे पुत्र कलत्रादि अथवा शिष्यादिक बाह्य वस्तु कहौ तिनकी कहा कथा ? वै तौ प्रगट जुदे ही हैं । अर जीव और देह क्षीर नीरकी नाई यद्यपि अभेदरूप तिष्ठै हैं तथापि निश्चयसेती जुदे ही हैं ।

भावार्थ—तैजस कामण तौ सब संसारी जीवनिके सदा लगि ही रहे हैं । कबहू जुदे होते नाहीं । जव जीव मुक्त होइ तब वे छूटै । अर आहारक शरीर कबहू एक मुनिकै होइ है । अर मनुष्य तिर्यचनिकै औदारिक, देव-नारकीनिकै वैक्रियिक सो इनिका संबंध होइ है, छूटै है । अनादि कालका शरीरसू संबंध जीवकै है । जीव अर शरीर क्षीर-नीरकी नाई मिलि रहे हैं, तेऊ जुदे, तौ पुत्र कलत्रादिक अर शिष्यादिककी कौन बात ? वै तौ प्रगट जुदे ही हैं ऐसा जानि सर्वतैं नेह तजो ।

आगै या शरीरके संयोगतैं आत्माके जो होइ है सो दिखावै हैं—

तप्तोऽह देहसंयोगाज्जलं वाऽनलसंगमात् ।

इति देह परित्यज्य शीतीभूताः शिवैषिणः ॥२५४॥

१. जैसे बेलकी जड़ अशुद्ध भाव सो मु० २५२, ४

अर्थ—कल्याणके अर्थी जे महामुनि ते ऐसा जानि देहसूं नेह तजि आनंदरूप भए । कहा जान्यां ? जैसे अग्निके संयोगतैं जल तप्तायमान होय है तैसें देहके संयोगतैं मैं तप्तायमान भया । इह जानि कल्याणके अर्थी महा मुनि देहसूं ममत्व तजि आनंदरूप भए ।

भावार्थ—या जगतविषै इह जीव जेते दुःख क्लेशादि भोगवै हैं ते शरीरके संबंधतैं भोगवै हैं । तातैं शरीरसूं अनुराग तजि मोक्षाभिलाषी जीवनिकूं वीतरागभाव आचरना योग्य है । जाकरि बहुरि शरीरका संबंध न होय ।

आगै शरीरादिविषै ममता भावका कारण महा मोह ताके त्यागका उपाय कहै हैं—

अनादिचयसंबुद्धो महामोहो हृदि स्थितः ।

सम्यग्योगेन यैर्वान्तस्तेषामूर्ध्वं विशुद्धयति ॥२५५॥

अर्थ—जिन महापुरुषनि सम्यग्योग कहिये स्वरूपविषै चित्तका निरोध, सोई भई औषध ताकरि अनादि कर्मनिके संचयकरि हृदयविषै तिष्ठता महामोह सो वमि डारया, तिन हीका परलोक शुद्ध होय ।

भावार्थ—जैसें औषधिके योगकरि उदरविषै तिष्ठता अजीर्ण जिनने वम्या तिनहीके रोगकी निवृत्ति होइ । रोग चिरकालतैं अजीर्णके संचयकरि बढया है सो औषधिकै योग ही तैं दूर होइ तैसें विभावनि करि बढ्या जो कर्म-विकार सो सम्यग्ज्ञान ही करि निवृत्ति होइ ।

आगै महामोहके अभावकूं होते संतै जे मुनि इन वस्तुनिकूं या भांति देखै हैं तिनके कौन सुखके निमित्त न होइ ? सब ही सुखके निमित्त होइ—

शादूलविक्रीडितछंद

एकैश्वर्यमिहैकतामभिमतावापि शरीरच्युति

दुःखं दुष्कृतिनिष्कृतिं सुखमलं संसारसौख्योज्ज्वलम् ।

सर्वत्यागमहोत्सवव्यतिकरं प्राणव्ययं पश्यतां

किं तद्यन्न सुखाय तेन सुखिनः सत्यं सदा साधवः ॥२५६॥

अर्थ—जे एकाकीपनेकों एक अद्वितीय चक्रवर्त्तिपना मानै हैं, अर शरीरके विनाशकूं मन वांछित पदार्थकी प्राप्ति मानै हैं, अर दुष्कर्मकी निर्जरा शुभका उदय ताहि दुःख मानै हैं, अर सर्वथा संसारके सुखका

परिहार ताहि सुख मानै हैं, अर सर्व त्यागकूं महा उच्छ्व मानै हैं, अर संग्रहकूं प्राण-त्याग मानै हैं, इह दृष्टि जिनकी है तिनकौं ऐसा कौन पदार्थ जो सुखकैं निमित्त न होय ? सब ही सुखके कारण होहि । जा कारण साधु सदा सुखी ही हैं, यह बात सत्य है ।

भावार्थ—जगतविषैं जे परिग्रहादिक दुःखदायक सामग्री हैं तिनहीकूं जिन सुखका कारण जानि अंगीकार करी तिनकै और दुःखका कारण कौन, तातैं जे सकल प्रपंचतैं छूटे ते ही सदा सुखी हैं ।

आगै कोऊ प्रश्न करै है कि कर्मके उदय करि उपज्या दुःख ताहि भोगव तिनकै चित्तविषैं खेदकी उत्पत्ति है तातैं कैसैं सुखीपना है ? ताका समाधान करै हैं—

शादृ लविक्रीडितछंद

आकृष्योग्रतपोबलैरुदयगोपुच्छं यदानीयते

तत्कर्म स्वयमागतं यदि विदः को नाम खेदस्ततः ।

यातव्यो विजिगीषुणा यदि भवेदारम्भकोऽरिः स्वयं

वृद्धिः प्रत्युत नेतुरप्रतिहता तद्विग्रहे कः क्षयः ॥२५७॥

अर्थ—जो कर्म उदय न आया ताहि उग्र तपके बल करि उदयमें ल्याय क्षय करै हैं । अर जो स्वयमेव उदय आया कर्म तौ खेद काहेका ? मुनिकै खेदका नाम नांही । जैसैं जीतवाकी है इच्छा जाकै सो वैरीपरि जाय करि जीतै । अर जो वैरी ही युद्धका आरंभ करि आप परि चलाय आवै तो तिनकै कहा हानि ? इह तौ अधिक उछाह है ।

भावार्थ—जे जोधा शत्रु परि जाय शत्रुकूं जीतै, तिन परि जो शत्रु ही चलाय आवै तौ तिनकै कहा हानि ? त्यों ही महा मुनि तपके बल करि कर्मनिकूं उदयमें ल्याय खपावै तिनकै स्वयमेव कर्म उदयमें आवै, ताविषैं कहा खेद ?

आगै कहै हैं कि कर्मके उदयविषैं खेद न मानै जे मुनि ते कर्मनिकी निजंरा करते शरीरसूं भी भिन्न होनेका यत्न करैं—

स्रग्धराछंद

एकाकित्वप्रतिज्ञाः सकलमपि समुत्सृज्य सर्वसहत्वाद्

भ्रान्त्याऽचिन्त्याः सहायं तनुमिव सहसालोच्य किञ्चित्सलज्जाः ।

सज्जीभूताः स्वकार्ये तदपगमविधिं बद्धपल्प्यङ्गबन्धाः

ध्यायन्ति ध्वस्तमोहा गिरिगहनगुहागुह्यगोहे नृसिंहाः ॥२५८॥

अर्थ—जे नरसिंह पुरुषनिमें प्रधान पर्वतनिकी गुफा, गहन वन, एकांत स्थानक ताविषैं तिष्ठै आत्म-स्वरूपकूँ ध्यावै हैं, नाश किया है मोह जिनने, एकाकी रहिवेकी है प्रतिज्ञा जिनकै, सर्व ही तजिकरि सकल परीषह सहै हैं । अचित्य है महिमा जिनकी, शरीरकूँ सहाई जानि तत्काल कछू इक लज्जाकूँ प्राप्त भए हैं । जो ए जड़ हमारी कहा सहाई होयगा ? भ्रांति करि अब तक सहाई जान्या सो सहाई नांही । अपने कार्यविषैं आप उद्यमी भये, पत्यंकासन वाधि निज स्वरूपका ध्यान करै हैं, शरीरतैं रहित होयवेकी विधि विचारै हैं जिनकै ये विचार हैं—हमारै शरीर बहुरि उदय न आवै, निरादरा करि तजिवेकूँ उद्यमी भये हैं ।

भावाथ—सर्व संसारी जीवनिकै शरीरका ममत्व है सो पुनः पुनः शरीर-कूँ धारै हैं । अर जे निरादराकरि शरीरकूँ तजै हैं तिनकै शरीर बहुरि उदय न आवै, परम पदकूँ पावै ।

आगै कहै हैं कि कर्मनिकी अर नवे नवे तन धारणकी विधिके दूर होवेका चितवन करते संते आप परम उत्तम गुणनिकरि मंडित हैं सो हमकूँ पवित्रताके करणहारे होहु—

शार्दूलविक्रीडितछंद

येषां भूषणपङ्गसङ्गतरजः स्थानं शिलायास्तलं
शय्या शर्करिला मही सुविहितं गेहं गुहा द्वीपिनाम् ।
आत्मात्मीयविकल्पवीतमतयस्त्रुट्यत्तमोग्रन्थयः
ते नोनधना मनांसि पुनतां मुक्तिस्पृहा निस्पृहाः ॥२५९॥

अर्थ—जिनके अंगमें रज लागि रही है ए ही आभूषण हैं, अर सिलातल ही स्थानक है, अर कंकरेली पृथ्वी सज्या है, अर जिन गुफानिमें सिंहादिक रहैं तेई तिनकै घर हैं, अर ये देहादिक मेरे अर मैं इनिका ऐसे विकल्पतैं रहित हैं बुद्धि जिनकी, अर टूटि गई है अज्ञानरूप ग्रन्थि जिनकै ते ज्ञान धन, मोक्षके पात्र परम निस्पृह हमारे मनको पवित्र करो ।

भावाथ—जे विषयाभिलाषी शरीरके अनुरागी हैं ते आप ही बूडि रहे हैं, औरनिकूँ कैसेँ त्यारैं ? अर जो विरक्त हैं, रागादिकतैं रहित हैं ते तरण-तारण समर्थ हमारे रागादिक मल हरि हमारे मनकूँ पवित्र करो ।

आगै कहै है बहुरि वै साधु कैसेँ हैं—

शार्दूलविक्रीडितछंद

दूरारूढतपोऽनुभावजनितज्योतिःसमुत्सर्पणैः

अन्तस्तच्चमदः कथं कथमपि प्राप्य प्रसादं गताः ।

विश्रब्धं हरिणीविलोलनयनैरापीयमाना वने

धन्यास्ते गमयन्त्यचिन्त्यचरितैर्घोराश्चिरं वासरान् ॥२६०॥

अर्थ—अतिशयपणें तपके प्रभावतैं उपजी ज्ञानज्योति ताके प्रकाश करि वह निजात्मतत्त्व ताहि क्यौं ही प्राप्त होयकरि अतिशय आनंदकू प्राप्त भये हैं, अर विश्रामकू पाये हैं वनके जीव जिनतैं, हिरणीनिके चंचल नेत्र तिनकरि विश्वाससू देखिए है धन्य हैं वे घीर जे चितवनमें न आवै ऐसे चारित्र तिनकरि बहुत दिन वनविषै वितीति करै हैं ।

भावार्थ—जे निज स्वरूपविषै मगन होइकरि परम शांत दशाकू प्राप्त भये हैं ते धन्य हैं । वनके जीव भी तिनसू भय न करैं, सबनिकू प्रिय हैं । आगै ऐसी बुद्धि उनकी कहा करै, सोई कहै हैं—

शार्दूलविक्रीडितछंद

येषां बुद्धिरलक्ष्यमाणभिदयोरशात्मनोरन्तरं

गतवोच्चैरविधाय भेदमनयोरारान्न विश्राम्यति ।

यैरन्तर्विनिवेशिताः शमधनैर्वाढं बहिव्याप्तयः

तेषां नोऽत्र पवित्रयन्तु परमाः पादोस्थिताः पांसवः ॥२६१॥

अर्थ—जिनकी बुद्धि जगतकी आशा अर आत्मा दोऊनिकै मध्य प्राप्त भई । कैसै हैं दोऊ ? नांही लख्या जाय है भेद जिनका, सो उन मुनिनिकी बुद्धि दोऊनिकै मध्य प्राप्त होइ भलै प्रकार भेद किये विनि विश्रामकू न प्राप्त भयी, भेद किया ही । कैसै हैं वे महामुनि । शांत भाव ही है धन जिनके, अर बाह्य पदार्थनिविषै चित्तकी वृत्ति जाय थी सो जिनि अंतरंगविषै थापी तिनके चरण कमलकी परम रज या जगविषै कौनकौ पवित्र न करै ? सब ही कू पवित्र करै सो हमको पवित्र करहु ।

भावार्थ—जड़ चेतनका अनादि संबंध है, एकसे होय रहे हैं, सबनिकू एकसे प्रतिभासै हैं । जे महापुरुष भेद-विज्ञान करि दोऊनिकू न्यारे जानि जड़सू निर्ममत्व होय जगतकी आशा तजै हैं तिनके चरण कमलकी रज जीविकू पवित्र करै है ।

आगै कहै हैं जो बाह्य वृत्तिका निरोध करि कर्मके फलकूं भोगवै हैं
तिनिके परिणामकी विशेषताकी प्रशंसा करै हैं—

शार्दूलविक्रीडितछंद

यत् प्राग्जन्मनि संचितं तनुभृता कर्माशुभं वा शुभं
तद्वैवं तदुदीरणादनुभवन् दुःखं सुखं वागतम् ।

कुर्याद्यः शुभमेव सोऽप्यभिमतो यस्तूभयोच्छित्तये

सर्वारम्भपरिग्रहग्रहपरित्यागी स वन्द्यः सताम् ॥२६२॥

अर्थ—जीवनै पूर्व जन्मविषै जे शुभ अथवा अशुभ कर्म उपाजै तिन कर्मनिकुं दैव कहिये । तिनकी प्रेरणातै जीव सुख दुख भोगवै है । सो इनि जीवनिमै जो अशुभ तजि शुभको आदरै सोऊ भला कहिए । अर जो योगेश्वर शुभ अशुभ दोऊनिहीके विनाशिवे अर्थि सर्व आरंभ परिग्रहरूप क्रूर ग्रहका त्यागी होय सो सत्पुरुषनिकरि वंदनीक है ।

भावार्थ—जगतके जीव पापविषै प्रवीण हैं । कोई एक शुभ परिणामी दीखै है सोऊ भला कहिए है । अर जे शुभ अशुभ दोऊ ही तजि करि केवल शुद्धोपयोगरूप आत्म-स्वरूपविषै तल्लीन हैं तिनकी महिमा कौन कहि सकै ? ते सत्पुरुषनिकरि वंदनीक हैं ।

आगै कोऊ प्रश्न करै है कि सुख दुख कर्मनिके फल भोगवै हैं तिनिके नवे पुन्य-पाप बंधते होंहिगे । तातें दोऊनिका नाश कैसें होइ ? ताका समाधान करै हैं—

शिखरणी छंद

सुखं दुःखं वा स्यादिह विहितकर्माद्यवशात्

कुतः प्रीतिस्तापः कुत इति विकल्पाद्यदि भवेत् ।

उदासीनस्तस्य प्रगलति पुराणं न हि नवं

समास्कन्दत्येष स्फुरति सुविदग्धो मणिरिव ॥२६३॥

अर्थ—सुख अथवा दुख होइ है सौ पूर्वोपाजित कर्मके उदयतैं होय है । सो जो कदाचि सुख विषै प्रीति होय, दुःखविषै आताप मानै तौ नवे कर्म अवश्य बंधै । अर जे महापुरुष हर्ष विषाद न करै—कौनसों प्रीति करिये अर कौनकौ आतापकरि मानिये ऐसे विचारतैं जे अतिउदासीनता-रूप हैं तिनकै पुरातन कर्म तौ खिपै, अर नवे न बंधे । ते विवेकी महामणि-की नाई सदा प्रकाशरूप ही हैं ।

भावार्थ—कर्मका उदय जीवनके है ताविषैं जो हर्ष विषाद करै तौ नवे कर्म बंधै, अर जो हर्ष विषाद न करै तौ नवे न बंधै, पूर्व कर्म फल दे खिर जाय यह निश्चय है ।

आगै पुराने कर्मकी निर्जराविषैं अर नवे कर्मके संवरविषैं जो कछू हूबा सो दिखावै हैं ।

मालिनीछंद

सकलविमलबोधो देहगेहे विनिर्यन्
ज्वलन इव स काष्ठं निष्ठुरं भस्मयित्वा ।
पुनरपि तदभावे प्रज्वलत्युज्ज्वलः सन्
भवति हि यतिवृत्तं सर्वथाश्चर्यभूमिः ॥२६४॥

अर्थ—जैसे अग्नि काष्ठकूं सर्वथा भस्मकरि ताके अभावविषैं अति-निर्मल प्रज्वलै तैसें निर्मल ज्ञान देह-गेहादिकका अभाव करि तिनिकै अभावविषैं विमल प्रकाश करै है । यतिका आचरण सर्वथा आश्चर्यका स्थानक है ।

भावार्थ—ज्ञान प्रगट भए गेहकौं तजि, देहसौं नेह तजै, सकल परि-ग्रहका त्याग करि, वीतराग अवस्था धरि, ज्ञान ही निर्मल प्रकाश करै । मुनिकी अलौकिक वृत्ति है । सो पूर्णज्ञान मुनि ही कै होय, गृहस्थकै अल्प होय ।

आगै कहै हैं कि मुक्त अर संसार दशा जीवकै साधारण हैं । अर जे ज्ञानादि गुणके नाश करि मुक्ति मानै हैं तिनिकी श्रद्धा निराकरण करता कहै हैं—

गुणी गुणमयस्तस्य नाशस्तन्नाश इष्यते ।

अत एव हि निर्वाणं शून्यमन्यैर्विकल्पितम् ॥२६५॥

अर्थ—गुणी कहिए आत्मा सो ज्ञानादि गुणमई है, ज्ञानादिकका नाश सो आत्माका नाश । जैसे उष्णताके अभावतैं अग्निका अभाव । कई एक दीपके अंत होने तुल्य निर्वाण मानै हैं सो निर्वाण नाही । ज्ञानकी पूर्णता सो ही मुक्ति है, द्रव्य है सो गुणमई है । गुणका नाश सो द्रव्यका नाश ।

अजातोऽनश्वरोऽमूर्तः कर्ता भोक्ता सुखी बुधः ।

देहमात्रो मलैर्मुक्तो गत्वोर्ध्वमचलः प्रभुः ॥२६६॥

अर्थ—आत्मा कबहू उपज्या नाही, अर कबहू मरै नाही, अर जाकै कोऊ मूर्ति नाही अमूर्तिक है, व्यवहारनयकरि कर्मनिका कर्ता है, निश्चय-

नयकरि अपने स्वभावका कर्ता है, अरु व्यवहारनयकरि सुख-दुःखका भोक्ता है, निश्चय अपने स्वभावका भोक्ता है, अज्ञान करि इन्द्रियजनित सुखकूं सुख मानै है, निश्चय परम आनंदमयी है, ज्ञानरूप है, व्यवहार नयकरि देहमात्र है, निश्चय चेतना मात्र है, कर्ममल रहित लोककै शिखर जाय करि प्रभू अचल तिष्ठै है ।

भावार्थ—आत्मा केवल ज्ञानानंदमई है, सकल उपाधि रहित है । परंतु परकों आपा मानि भ्रांतितैं भवमैं भ्रमै है । जब अपना स्वरूप जाने तब निरुपाधि ज्ञानरूप अविनाशी होय तिष्ठै । आत्मा ज्ञानस्वरूप है ।

आगै कोऊ प्रश्न करै है—इन्द्रियजनित सुखके अभावतैं कैसे सिद्धनिकूं सुखी कहैं ? ताका समाधान करै हैं—

स्वाधीन्याद्दुःखमप्यासीत् सुखं यदि तपस्विनाम् ।

स्वाधीनसुखसंपन्ना न सिद्धाः सुखिनः कथम् ॥२६७॥

अर्थ—जो मुनिनिकै स्वाधीनपनेतैं कायक्लेशरूप दुःख हू सुख कहाँ तौ सिद्धनिकूं सुखी क्यों न कहिए, वे तौ सदा स्वाधीन सुखमई ही हैं ।

भावार्थ—तत्त्वदृष्टि करि जगतके जीव दुखी तिनमें सम्यग्दृष्टि मुनि ही सुखी कहै तौ सिद्ध तौ केवल आनंदरूप ही हैं ।

आगै ग्रंथके अर्थकूं पूर्ण करि ग्रंथकी आज्ञाप्रमाण जे प्रवर्तैं हैं तिनकं फल दिखावै है—

मालिनीछंद

इति कतिपयवाचां गोचरीकृत्य कृत्यं

रचितमुचितमुच्चैश्चेतसां चित्तरम्यम् ।

इदमविकलमन्तः संततं चिन्तयन्तः

सपदि विपदपेतामाश्रयन्ते श्रियं ते ॥२६८॥

अर्थ—कैयक वचनकी रचना करि उदार है चित्त जिनका ऐसे महा-मुनि तिनकै चित्तकों रमणीक निर्दूषित इह आत्मानुशासन ग्रंथ भलै प्रकार रच्या है, सो महापुरुषोंके गुण अंतःकरणकै विषैं निरन्तर चिन्तवतैं शीघ्र ही अपदासूं रहित अविनाशी लक्ष्मी पावै हैं ।

भावार्थ—जो जैसा चित्तन करै तैसा ही फल पावै । महापुरुषोंके गुण चित्तवता आपहू शुद्ध होय । जैसैं सुगन्ध पुष्पके योगतैं तिलहू सुगंध होय ।

आगै कहै हैं कि ग्रंथकी समाप्तिविषैँ ग्रंथका कर्ता अपने गुरुके नामपूर्वक अपना नाम प्रकट करै है—

जिनसेनाचार्यपादस्मरणाधीनचेतसाम् ।

गुणभद्रभदन्तानां कृतिरात्मानुशासनम् ॥२६९॥

अर्थ—जिन-सेना जो मुनिमंडली ताके आचार्य श्री गणधरदेव तिनके चरणकमलके सुमरणविषैँ आधीन है चित्त जिनका ऐसे गुणनिकरि भद्र कहिए कल्याणरूप, भद्रत कहिए पूज्य पुरुष, जैनके आचार्य तिनकी कृति है इह आत्मानुशासन । अर दूजा अर्थ जिनसेनाचार्यके चरणकमल तिनके स्मरणविषैँ आधीन है चित्त जिनका ऐसे गुणभद्र पूज्य तिनिकरि किया है इह आत्मानुशासनका वर्णन ।

भावार्थ—जिनवरकी सेनाके आचार्य सबमें मुख्य गणधरदेव हैं । तिनकी भक्तिविषैँ है आरूढ चित्त जिनका ऐसे गुणनिकरि भद्र कहिए कल्याणरूप मुनिराज जैनके आचार्य तिनका भाख्या इह ग्रंथ है । अथवा जिनसेनाचार्यका शिष्य जो गुणभद्र ताका भाष्या है । ए दोऊ अर्थ प्रमाण हैं ।

आगै कहै हैं कि श्री ऋषभदेव तुमको कल्याणके कर्ता होहु ।

ऋषभो नाभिसूनुर्यो भूयात्स भविकाय वः ।

यज्ज्ञानसरसि विश्वं सरोजमिव भासते ॥२७०॥

अर्थ—नाभि राजाके पुत्र श्री ऋषभदेव तुमको महा कल्याणके निमित्त होहु । जाकै ज्ञानरूप जलविषैँ सकल जगत् कमलतुल्य भासै है ।

इति आत्मानुशासन शास्त्र संपूर्ण

श्लोकानुक्रमणिका

श्लोकांश	श्लोकसंख्या	श्लोकांश	श्लोकसंख्या
अ		अव्युच्छिन्नैः सुखपरिकरैः	८८
अर्किचनोऽहमित्या स्व	११०	अशुभाच्छुभमायातः	१२२
अजाकृपाणीयमनु-	१००	अशेषमद्वैतमभोग्य-	२३५
अजातो नश्वरोऽमूर्तः	२६६	अश्रोत्रोव तिरस्कृता	९१
अतिपरिचितेष्ववज्ञा	९२	असामवायिकं मृत्योः	७९
अधिकः क्वचिदाश्लेषः	२४५	अस्त्यात्मास्तमितादि-	२४१
अधीत्य सकलं श्रुतं	१८९	अस्थिस्थूलतुलाकलाप-	५९
अघो जिघृक्षवो यान्ति	१५४	अहितविहितप्रीतिः	१९२
अध्यास्यापि तपोवनं	१३४		
अनादिचयसंबुद्धो	२५५	आ	
अनिवृत्तेर्जगत्सर्वं	२९	आकर्ष्याचारसूत्रं	१३
अनेकान्तात्मार्थप्रसव-	१७०	आकृष्योग्रतपोबलैः	२५७
अनेन सुचिरं पुरा	१९४	आज्ञामार्गसमुद्भव-	११
अन्तर्वान्तं वदनविवरे	९९	आज्ञासम्यक्त्वमुक्तं	१२
अन्धादयं महानन्धो	३५	आत्मन्नात्मविलोपनात्म-	१९३
अपत्रपत पोऽग्निना	१३१	आदावेव महाबलैः	६२
अपरमरणे मत्वात्मीया-	१८५	आदौ तनोर्जननमत्र	१९५
अपि रोगादिभिर्वृद्धैः	२०४	आमृष्टं सहजं तव	१६०
अपि सुतपसामाशा-	२५२	आयातोऽस्यतिदूरतो	४९
अपिहितमहाघोरद्वारं	८०	आयुः श्रीवपुरादिकं	३७
अप्येतन्मृगयादिकं	२८	आराध्यो भगवान् जगत्त्रय-	११२
अभुक्त्वापि परित्यागात्	१०९	आशाखनिरगाधेय-	१५७
अमी प्ररूढवैराग्याः	११६	आशाखनिरतीवाभूद-	१५६
अर्थिनो धनमप्राप्य	६५	आशागतः प्रतिप्राणि	३६
अर्थिभ्यस्तृणवद्विचिन्त्य	१०२	आशाहुताशनग्रस्त-	४३
अवश्यं नश्वरैरेभिः	७०	आस्वाद्याद्य यदुज्जितं	५०
अविः । तस्थानो व्यप-	७६		

इ			
इतस्ततश्च त्रस्यन्तो	१९७	क्रुद्धाः प्राणहराः भवन्ति	१२७
इति कतिपयवाचां	२६८	क्षणार्धमपि देहेन	११७
इत्थं तथेति बहुना	९८	क्षितिजलधिभिः	७५
इमे दोषास्तेषां प्रभवन्-	१४७	क्षीरनीरवदभेदरूपतः	२५३
इष्टार्थोद्यदनाशितं भव-	८७	ख	
इह विनिहतबह्वा-	१६९	खातेऽभ्यासजलाशया	४४
इहैव सहजान् रिपून्	११४	ग	
उ		गन्तुमुच्छ्वासनिश्वासेः	७१
उग्रग्रीष्मकठोरधर्म-	५५	गलत्यायुः प्रायः प्रकटित-	७२
उच्छ्वासः खेदजन्यत्वात्	७३	गुणागुणविवेकिभिः	१४४
उत्तुङ्गसंगतकुचाचल-	१३२	गुणी गुणमयस्तस्य	२६५
उत्पन्नोऽस्यतिदोषघातु-	५४	गेहं गुहाः परिदधासि	१५१
उत्पाद्य मोहमदविह्वल-	७७	च	
उद्युक्तस्त्वं तपस्यस्य-	२१५	चक्रं विहाय निजदक्षिण-	२१७
उपायकोटिदूरक्षे	६९	चित्तस्थमप्यनवबुद्धय	२१६
ए		ज	
एकमेकक्षणे सिद्धं	१७२	जना धनाश्च वाचालाः	४
एककित्वप्रतिज्ञाः सकलमपि	२५८	जन्मतालद्रुमाज्जन्तु	७४
एकैश्वर्यमिहैकतामभि-	२५६	जन्मसंतानसंपादि-	८४
एतामुत्तमनायिका-	१२८	जातामयः प्रतिविधाय	२०५
एते ते मुनिमानिनः	१५०	जिनसेनाचार्यपाद-	२६९
क		जीविताशा घनाशा च	१६३
कण्ठस्थः कालकूटोऽपि	१३५	ज्ञानमेव फलं ज्ञाने	१७५
कदा कथं कुतः कस्मिन्	७८	ज्ञानस्वभावः स्यादात्मा	१७४
करोतु न चिरं घोरं	२१२	ज्ञानं यत्र पुरस्तरं	१२५
कर्तृत्वहेतुकर्तृत्वा-	२५	त	
कलौ दण्डौ नीतिः स च	१४९	तत्कृत्यं किमिहेन्धनै-	६१
कः स्वादो विषयेष्वसौ	३८	तत्राप्याद्यं परित्याज्यं	२४०
किं मर्माण्यभिनन्न भीकर-	५७	तथा श्रुतमधीश्व शश्वदिह	१९०
कुबोधरागादिविचेष्टितैः	१०६	तदेव तदतद्रूपं	१७१
कृत्वा धर्मविधातं	२४	तपःश्रुतमिति द्वयं	२२९
कृष्ट्वोप्त्वा नृपतीन्निषेव्य	४२	तपोवल्ल्यां देहः समुपचित-	११५
		तप्तोऽहं देहसंयोगाज्जलं	२५४
		तव युवतिशरीरे	१३६

तादात्म्यं तनुभिः सदानु-	५८	नेता यत्र बृहस्पतिः	३२
तावद्दुःखाग्नितात्मा	२३३	नेत्रादीश्वरचोदितः	६४
तृष्णा भोगेषु चेद्भिक्षो	१६१		
त्यक्तहेत्वन्तरापेक्षी	१४५	परमाणोः परं नाल्प-	१५२
त्यजतु तपसे चक्रं	१६५	परायत्तात्सुखाद् दुखं	६६
		परां कोटिं समारूढौ	१६४
द		परिणाममेव कारण-	२३
दयादमत्यागसमाधि-	१०७	पलितच्छलेन देहा-	७६
दातारो गृहचारिणः	१५९	पापाद्दुःखं धर्मात्सुखं	८
दासत्वं विषयप्रभोः	२२७	पापिष्ठैर्जगतीविधीत-	१३०
दीप्तोभयाग्रवातारि-	६३	पिता पुत्रं पुत्रः पितर-	३४
दुर्लभमशुद्धमपसुख-	१११	पुण्यं कुरुष्व कृतपुण्य-	३१
दुःखाद्द्विभेषि नितरा-	२	पुरा गर्भादिन्द्रो मुकुलित-	११९
दूराकूढतपोनुभाव-	२६०	पुराणो ग्रहदोषोत्थो	१८३
दृढगुप्तिकाटसंवृत्तिः	२४८	पुरा शिरसि धार्यन्ते	१३९
दृष्टार्थस्य न मे किमप्ययमिति	२३०	पैशुन्यदैर्न्यदम्भस्तेया-	३०
दृष्ट्वा जनं ब्रजसि किं	१९१	प्रच्छन्नकर्म मम कोऽपि	२२२
दोषः सर्वगुणाकरस्य	२५०	प्रज्ञैव दुर्लभा सुष्ठु	९४
दोषान् कांश्चन तान् प्रवर्तक-	१४१	प्रेसुप्तो मरणाशङ्कां	७२
द्रविणपवनप्रध्मातानां	११३	प्राक् प्रकाशप्रधानः स्यात्	१२०
द्वेषानुरागबुद्धिर्गुण-	१८१	प्राज्ञः प्राप्तसमस्तशास्त्र-	५
		प्रियामनुभवत्स्वयं	१३७
ध			
धनरन्धनसंभारं	८५		
धर्मः सुखस्य हेतुः	२०	ब	
धर्मादिवाप्तविभवो	२१	बन्धो जन्मनि येन येन	२४४
धर्मारामतरूणां	१९	बाल्ये वेत्ति न किञ्चिद्-	८९
धर्मो वसेन्मनसि यावदलं	२६	बाल्येऽस्मिन् यदनेन ते	९०
न		भ	
न कोऽप्यन्योऽन्येन ब्रजति	२००	भङ्क्त्वा भाविभवांश्च भोगि-	५१
नयेत्सर्वांशुचिप्रायः	२०९	भर्तारः कुलपर्वता इव	३३
न सुखानुभवात्पापं	२७	भव्यः किं कुशलं ममेति	७
न स्थास्तु न क्षणविनाशि	१७३	भागत्रयमयं नित्य-	२११
निर्धनत्वं धनं येषां	१६२	भावयामि भवावर्ते	२३८
निवृत्तिं भावयेद्याव-	२३६	भीतमूर्तीर्गतत्राणा	२९

भूत्वा दीपोपमो घीमान्	१२१	रागद्वेषकृताभ्यां जन्तो	१८०
भेयं मायामहागता	२२१	रागद्वेषो प्रवृत्तिः स्यात्	२३७
म		राज्यं सौजन्ययुक्तं	१३८
ममेदमहमस्येति	२४२	ल	
महातपस्तडागस्य	२४७	लक्ष्मीनिवासनिलयं	१
मङ्क्षु मोक्षं सुसम्यक्त्व-	२३४	लब्धेन्धनो ज्वलत्यग्निः	५६
माता जातिः पिता मृत्युः	२०१	लोकद्वयहितं वक्तुं	१४३
मामन्यमन्यं मां मत्वा	२४३	लोकाधिपाः क्षितिभुजो	९५
मिथ्यात्वातङ्कवतो	१६	व	
मिथ्या दृष्टिविषान् वदन्ति	१२६	वचनसलिलहृत्सि-	१२९
मुच्यमानेन पाशेन	१७९	वनचरभयाद्धावन्	२२३
मुहुः प्रसार्य संज्ञानं	१७७	वरं गार्हस्थ्यमेवाद्य	१९८
मृत्योर्मृत्यन्तरप्राप्ति-	१८८	वर्चोगृहं विषयिणां	१३३
मोहबीजाद्रतिद्वेषी	१८२	वसति भुवि समस्तं	२१९
य		वार्तादिभिर्विषयलोल-	४७
यत्प्राग्जन्मनि संचितं	२६२	विकाशयन्ति भव्यस्य	१४२
यदादाय भवेज्जन्मी	२०८	विज्ञाननिहतमोहं	१०८
यदेतत्स्वच्छन्दं विहरण-	६७	विधूततमसो रागः	१२३
यद्यदाचरितं पूर्वं	२५१	विमृश्योच्चैर्गर्भात्	१०५
यद्यपि कदाचिदस्मिन्	३	विरज्य संपदः सन्तः	१०३
यमनियमनितान्तः	२२५	विरतिरतुला शास्त्रे	६८
यशो मारीचीयं कनक-	२२०	विशुद्धयति दुराचारः	१६७
यस्मिन्नस्ति स भूभृतो	९६	विषयविरतिः संगत्यागः	२२४
यस्य पुण्यं च पापं च	२४६	विषयविषमाशनोत्थित-	१७
यः श्रुत्वा द्वादशाङ्गी	१४	विहाय व्याप्तमालोकं	१२४
याचितुर्गौरवं दातु-	१५३	विहितविधिना देहस्थित्यै	१५८
यावदस्ति प्रतीकारः	२०७	वेष्टनोद्वेष्टने यावत्	१७८
येषां बुद्धिरलयक्षमाण-	२६१	व्यापत्पर्वमयं विराम-	८१
येषां भूषणमंगसंगत-	२५९	श	
र		शमबोधवृत्ततपसां	१५
रतेररतिमायातः	२३२	शय्यातलादपि तुकोऽपि	१६६
रम्येषु वस्तुवनितादिषु	२२८	शरणमशरणं वो	६०
रसादिराद्यो भागः	२१०		

शरीरमपि पुष्णन्ति	१९६	संकल्प्यं कल्पवृक्षस्य	२२
शरीरेऽस्मिन् सर्वाशुचिनि	९७	संकल्प्येदमनिष्टमिष्ट-	४८
शास्त्राग्नी मणिवःकृव्यो	१७६	संसारे नरकादिषु	५३
शिरःस्थं भारमुत्तार्य	२०६	साधारणौ सकलजन्तुषु	१४८
शुद्धैर्धनैर्विधन्ते	४५	साम्राज्यं कथमप्यवाप्य	४०
शुद्धोऽप्यशेषविषयाव-	२०२	सुखं दुःखं वा स्यादिह	२६३
शुभाशुभे पुण्यपापे	२३९	सुखितस्य दुःखितस्य च	१८
श्रद्धानं द्विविधं त्रिधा	१०	सुखी सुखमिहान्यत्र	१८७
श्रियं त्यजन् जडः शोकं	१०४	सुहृदः सुखयन्तः स्युः	१८४
श्रुतमविकलं शुद्धा वृत्तिः	६	स्नेहानुबद्धहृदयो	२३१
इवो यस्याजनि यः स	५२	स्वाधीन्याद् दुःखमप्यासीत्	२६७
स		स्वान् दोषान् हन्तुमुद्युक्तः	२४५
सकलविमलबोधो	२६४	स्वार्थभ्रंशं त्वमविगणयं-	१९९
सत्यं वदात्र यदि जन्मनि	८३	है	
सत्यं वाचि मतौ श्रुतं	२१८	हंसैर्न भुक्तमतिकर्कश-	९३
स घर्मो यत्र नाघर्मः	४६	हा कष्टमिष्टवनिताभि-	१०१
सन्त्येव कौतुकशतानि	१६८	हानेः शाकस्ततो दुःखं	१८६
समाधिगतसमस्ताः	२२६	हा हतोऽसि तरां जन्तो	२०३
समस्तं साम्राज्यं तृण-	११८	हितं हित्वाहिते स्थित्वा	१४६
सर्वं धर्ममयं क्वचित्	४१	हित्वा हेतुफले किलात्र	२१४
सर्वः प्रेषति सत्सुखाप्ति-	९	हृदयसरसि याव-	२१३
सस्वभाशासते सर्वे	१४४	हे चन्द्रमः किमिति लाञ्छन-	१४०

२ अवतरण गाथा सूची

जह जायरूवसरिसो	१४०	देवविसययासत्ता	१८१
जा सासयाण लच्छी	६२		

सूचना—ग्रन्थमें मूल श्लोकगत जिन श्लोकोंके अनन्तर उद्धृत वाक्य उपलब्ध होते हैं उन श्लोकोंकी संख्या यहाँ दी है ।

३ ऐतिहासिक नामसूची

अश्वत्थामा	२२०	नाभिसूनु	२७०
ऋषभ	२७०	लोकसेन	१
कृष्ण	२२०	वीरजिन	१
गुणभद्र	१, २६९	हर	२१६
जिनसेन	२६९		

४ ग्रन्थनामोल्लेख

आत्मानुशासन	१, २६९	स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा	६२
-------------	--------	----------------------------	----

५ मूल ग्रन्थगत विशेष शब्दसूची

अजाकृपाणीय	१००	आस्रव	२४१
अजीर्ण	२२८	ईति	२४२
अनशन	१९४	उत्पत्ति	१७२
अन्धकवर्तकीय	१००	उदयगोपुच्छ	२५७
अन्धरज्जुवलन	४१	कनकमृग	२२०
अयोग	२४१	कल्पवृक्ष	२२
अर्थदृष्टि	१४	कालादिलब्धि	२४१
अवगाढदृष्टि	१४	कुटीप्रवेश	१०८
अन्नत	२४१	कृष्ण	२२०
अश्वत्थामा	२२०	कौमार ब्रह्मचारिन्	१०९
आखुविडालिका	२१४	गजस्नान	४२
आचारसूत्र	१३	गणिन्	५
आज्ञासम्यक्त्व	१२	गति	४६
आराधना	१०	गुप्ति	२४८

श्लोकानुक्रमणिका

१८३

गुरु	१४१	लक्ष्मी	१
गेहाश्रम	४१	लोकज्ञता	६
ग्रहदोष	१८३	लोकस्थिति	५
चिन्तामणि	२२	वार्ता	४७
ज्ञान	४६	विधि	४४
ज्ञानभावना	१७४	विधुन्तुद	२२२
ज्ञानवृत्ति	२१०	विलय	१
तदात्वकटु	३	विस्तारदृष्टि	१४
तत्त्ववित्	२११	व्यतिकर	२५६
दण्डनीति	१४९	व्यय	१७२
दुःख	१८७	शास्य	७
दुरात्मन्	१९३	श्री	२६८
दैव	३२, २६२	श्रुतस्कन्ध	१७०
द्वादशाङ्गी	१४	सकलसंन्यास	१८७
धर्म	१८, २१, २२, ४६	सद्गुरु	१४१
धर्मकथा	७	सम्यक्त्व	२४१
धर्मपुत्र	२२०	सम्यग्दर्शन	१०
ध्रौव्य	१७२	सर्वार्थ	९६
निर्वाण	२४६	संक्षेपदृष्टि	११
निवृत्ति	२३७	संयमसाधन	२२८
परमात्मता	१९३	संवेग	१०
परमावगाढ दृष्टि	१४	सामिभक्त	१९४
पल्यङ्कबन्ध	२५८	सुख	४६, १८७
पुरु	११९	सूत्रदृष्टि	१३
मोदकव्यतिकर	४०	सोपान	१०
यमसुत	२२०	हर	२१६
रसादि	२१०		

६ देश-भाषागत पारिभाषिक शब्दसूची

अजाकृपाणीय	१००	अनमोदन	२५
अजीर्ण	२२८	अन्धकवर्तकीय	१००
अधिगमज	१०	अर्थदृष्टि	१४
अनशन	१९४	अवगाढ	१४
अनायतन	१०	अन्नत	२४१

अशुभ	२३९	निवृत्ति	२३६, २३७
अहित	२३९	निश्चयनय	२६६
आज्ञा	१२	परमावगाढ	१४
अभोग्य	२३५	पाप	२६९
ईति	७, ४२, २४२	पुण्य	२३९
उत्पत्ति	१८८	प्रवृत्ति	२३७
उपदेश	१२	बीजदृष्टि	१२
ऊहापोह	७	बोध	१५
औपशमिक	१०	भोग्य	२३५
अंग	८, १०	मद	८, १०
कारित	२५	मार्ग	१२
कृत	२५	मित्र	२०१
क्षायिक	१०	मूढता	१०
क्षायोपशमिक	१०	मृत्यु	२०१
क्षेत्र	२४२	मोह	१८२
क्षेत्री	२४२	राग	१८६, २३७
गणधर	२६९	विज्ञान	७
गति	४६	विस्तार दृष्टि	१४
गुरु (मंगल)	१	वृत्त	१५
ग्रहण	७, १४५	वृत्ति	२२६
ग्रहदोष	१८३	व्यवहारनय	२६६
जाति	२०१	शम	१५
ज्ञान	४६	शुभ	२३९
तत्त्व	९, १०	शुश्रूषा	७
तत्त्वाभिनवेश	७	शोक	१८६
तप	१५	श्रवण	७
त्याग	१४५	सहोद्गत	२०१
दुःख	१८७, २३९, २६७	सामिभक्त	१९४
द्वेष	१८२, २३७	सुख	४६, २३९
धर्म	२१, ४६	संक्षेपदृष्टि	१३
धारणा	७	संवेग	१०
निर्वाण	२६५	हित	२३९

शुद्धि-पत्र

श्लोक संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
७	दयागुणमय	दयागुणमयं
८	पादाद्दुःखं	पापाद् दुःखं
१४	यावगाढः	यावगाढा
१८	दुःखितस्य	दुःखितस्य
१८	धर्मएव	धर्म एव
२०	हेतुर्हेतुर्न	हेतुर्हेतुर्न
२३	पुण्यपापयो	पुण्यपापयोः
२८	धर्म्ये	धर्म्ये
४०	सपाद्य	संपाद्य
५५	अप्राप्याभिमत्	अप्राप्याभिमत्तं
५६	लब्धेन्धनोज्वलत्यग्निः	लब्धेन्धनो ज्वलत्यग्निः
६६	दःखं	दुःखं
८१	विश्वक्-	विष्वक्-
८६	षलित-	पलित-
८८	लब्धबोधे-	लब्धबोधे-
८९	कृष्यादिभि-	कृष्यादिभिः
९०	वाञ्छम्यहो	वाञ्छस्यहो
९४	सुष्टु	सुष्टु
९७	ययते	यतते
११३	पराभव-	पराभव-
१३१	भयजुप्स-	भयजुगुप्स-
१३५	विषमि वषम्	विषमं विषम्
१४४	सदुपदेशव-मति-	सदुपदेशवन्मति-
१७०	श्रु तस्कन्धे	श्रुतस्कन्धे
१७३	-स्वरूपं	-स्वरूपं
१७७	-र्भवाणवे	-र्भवाणवे
१७९	-र्बन्धश्च	-र्बन्धश्च
१८८	पक्षपा तिनः	पक्षपातिनः

श्लोक संख्या

१८९

१९३

२१९

२५४

२५४

२५९

२६१

२६६

अशुद्ध

सुतषस्तरो

आत्मन्यात्म-

संधारि-

तप्तोऽहं

देहं

नोनघना

पादोत्थिताः

बुधः

शुद्ध

सुतपस्तरोः

आत्मन्नात्म-

संधारि

तप्तोऽहं

देहं

नो ज्ञानघना

पादोत्थिताः

बुधः



श्री गणेश वर्णी दि० जैन संस्थान (श्री गणेशप्रसाद वर्णी जैन ग्रन्थमाला) के महत्त्वपूर्ण प्रकाशन

क्रम	पुस्तक का नाम	लेखक/संपादक/अनुवादक	संस्करण	मूल्य
१.	मेरी जीवन गाथा, भाग १	क्षु० गणेशप्रसाद वर्णी	चतुर्थ	२०.००
२.	मेरी जीवन गाथा, भाग २	क्षु० गणेशप्रसाद वर्णी	द्वितीय	२०.००
३.	वर्णी वार्णी, भाग २	डॉ० नरेन्द्र विद्यार्थी	चतुर्थ	१५.००
४.	जैन साहित्य का इतिहास भाग १	पं० कैलाशचंद्रजी शास्त्री	प्रथम	२५.००
५.	जैन साहित्य का इतिहास भाग २	पं० कैलाशचंद्रजी शास्त्री	प्रथम	३०.००
६.	जैन दर्शन	डॉ० महेन्द्र कुमार जैन	तृतीय	२५.००
७.	मंदिर वेदी प्रतिष्ठा विधि	कलशारोहण डॉ० पन्नालाल साहित्या- चार्य	द्वितीय	५.००
८.	अनेकान्त और स्याद्वाद	प्रो० उदयचंद जैन	द्वितीय	२.००
९.	कल्पवृक्ष एकांकी	श्रीमती रूपवती 'किरण'	प्रथम	१.००
१०.	आप्तमीमांसा तत्त्वदीपिका	प्रो० उदयचंद जैन	प्रथम	३०.००
११.	तत्त्वार्थसार	डॉ० पन्नालाल साहित्या- चार्य	प्रथम	१५.००
१२.	वर्णी अध्यात्म पत्रावली भाग १	श्री गणेशप्रसाद वर्णी	तृतीय	५.००
१३.	आदिपुराण में प्रतिपादित भारत	डॉ० नेमिचंद शास्त्री	प्रथम	२०.००
१४.	सत्य की ओर (प्रथम कदम)	क्षु० दयासागरजी	द्वितीय	४.००
१५.	सत्प्ररूपणा सूत्र	पं० कैलाशचंद्र शास्त्री	प्रथम	१२.००
१६.	समयसार (प्रवचन सहित)	क्षु० गणेशप्रसाद वर्णी	द्वितीय	२५.००
१७.	श्रावक धर्म प्रदीप	पं० जगन्मोहनलाल शास्त्री	द्वितीय	२०.००
१८.	लघुतत्त्वस्फोट	डा० पन्नालाल साहित्या- चार्य	प्रथम	३०.००
१९.	आत्मानुशासन	पं० फूलचन्द्र शास्त्री	प्रथम	२०.००
२०.	भद्रवाहु चाणक्य चन्द्रगुप्त कथानक	डॉ० राजाराम जैन	प्रथम	२०.००

हमारे कुछ महत्त्वपूर्ण प्रकाशन अप्राप्य हो चुके हैं, जिनके प्रकाशन की योजना है। वे इस प्रकार हैं :

१. पंचाध्यायी	पं० देवकीनन्दन सि० शास्त्री
२. तत्त्वार्थसूत्र—	पं० फूलचन्द्र सि० शास्त्री
३. जैन साहित्य का इतिहास- पूर्व पीठिका	पं० कैलाशचन्द्र सि० शास्त्री
४. वर्णी वाणी-भाग १	डॉ० नरेन्द्र विद्यार्थी
५. वर्णी वाणी-भाग ३	डॉ० नरेन्द्र विद्यार्थी
६. वर्णी वाणी-भाग ४	डॉ० नरेन्द्र विद्यार्थी
७. द्रव्यसंग्रह भाषा वचनिका	डॉ० दरबारीलाल कोठिया
८. अपभ्रंशप्रकाश	डॉ० देवेन्द्रकुमार जैन
९. सामायिक पाठ	डॉ० पन्नालाल साहित्याचार्य
१०. विश्वशान्ति और अपरिग्रह	पं० फूलचन्द्र शास्त्री

डॉ० अशोक जैन
(प्रबन्धक)

सभी प्रकार के पत्र व्यवहार करने एवं ड्राफ्ट आदि भेजने का पता :

श्री गणेश वर्णी दिगम्बर जैन संस्थान

नरिया, वाराणसी-२२१००५

